



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3, 1988 (भाद्रपद 12, 1910)  
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 1988 (BHADRA 12, 1910)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I--खण्ड 4

#### [PART I--SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 1988

सं० 1360, दिनांक 2 अगस्त, 1988--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय संवर्गों में केन्द्रीय सचिवालय आयातितिक सेवा के निम्नलिखित ग्रेड "क" अधिकारियों को 3000-4500 रुपए के वेतनमान में दर्जा बढ़ाए गए पदों पर 11-10-1988 तक की और अवधि अथवा पैनल अधिकारी उपलब्ध होने अथवा अगला आवेदन होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, तबर्थ आश्रय पर स्थानापन्न निर्जी सचिव के पद पर नियुक्त करने हैं :--

1. श्री ओ० पी० बटन
2. श्री वी० के० खन्ना
3. श्री एच० एल० मैनी
4. श्री एम० एल० दरगन

सं० 1361, दिनांक 1 अगस्त, 1988--निर्धारित कार्यकाल पूरा होने/स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने पर, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री के० श्रीनिवासन, भा० प्र० मे० (केरल: 65) की सेवाएं 01 अगस्त, 1988 से केरल सरकार को सौंपी जाती हैं।

1-224GI/88

सं० 1362, दिनांक 5 अगस्त, 1988--रक्षा मंत्रालय, युद्ध अध्ययन प्रभाग में निदेशक, डा० वी० कुमार का 24-7-1988 को निधन हो गया है।

जी० बी० वरवडिगि, भबर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
(र० अ० वि० मे०)

सं० 1363, दिनांक 4 अगस्त, 1988--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियों करते हैं :--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी स्थापना में तथा तारीख से दो वर्ष की परम्परावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर :--

क्र० सं०	नाम	स्थापना	दिनांक
1.	श्री के० शेकर	कम्पैट वाहन अनु० तथा वि० स्था० अवाही, मद्रास	15-12-87 (पूर्वाह)
2.	श्री एच० एम० माहनी	रक्षा अनु० तथा वि० प्रयोगशाला, हैदराबाद	30-10-87 (पूर्वाह)

(1263)

क्र० सं०	नाम	स्थापना	दिनांक	क्र० सं०	नाम	स्थापना	दिनांक
3.	श्री श्री० बलमकरग	कम्पैट वाहन अनु० तथा वि० रथा० अवाड़ी, मद्रास	11-12-87 (पूर्वाह्न)	26.	श्री आर० डी० नवीरवगी	रीम टरवाउन अनुसंधान स्थापना, बंगलौर	07-12-87 (पूर्वाह्न)
4.	श्री एम० सेन्थिल	रक्षा अनु० तथा वि० प्रयोगशाला, हैदराबाद	30-11-87 (पूर्वाह्न)	27.	श्री बी० ए० राजीव नोचनम्	—वही—	24-11-87 (पूर्वाह्न)
5.	श्री टी० मधु	इलेक्ट्रॉनिक तथा रक्षा विकास स्थापना, बंगलौर	30-12-87 (पूर्वाह्न)	28.	श्री अर्जुन कुमार के०	नौसेना भौतिक तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन	23-11-87 (पूर्वाह्न)
6.	श्री बी० श्रीनिवास राव	आयुद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	20-01-88 (पूर्वाह्न)	29.	श्री सातू मेघेस्त्रियन एम०	नौसेना भौतिक तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन	30-11-87 (पूर्वाह्न)
7.	कु० लना सोमामुन्दरम	कम्पैट वाहन अनु० तथा वि० स्थापना अवाड़ी, मद्रास	09-12-87 (पूर्वाह्न)	30.	श्री धूमिल्ल सुधीर	—वही—	02-12-87 (पूर्वाह्न)
8.	कु० संगीता गोयल	यंत्र अनु० तथा वि० स्था० देहरादून	21-12-87 (पूर्वाह्न)	नरसिंह दाम, महायका निदेशक (कार्मिक)			
9.	श्री राहुल भट्टाचार्या	रक्षा अनु० तथा वि० स्था०, खालियर	27-01-88 (पूर्वाह्न)	मं० 1364, दिनांक 1 अगस्त, 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करने हैं :—			
10.	कु० अनुराधा वेलामुरी	रक्षा अनु० तथा वि० प्रयोगशाला, हैदराबाद	16-12-87 (पूर्वाह्न)	रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना, कानपुर के श्री आर० एम० दुबे लेखा अधिकारी को 22-9-87 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में।			
11.	श्री डी० एम० श्रीकान्त	—वही—	02-11-87 (पूर्वाह्न)	श्री ए० के० धंमल, फोरमैन, मानकीकरण निदेशालय, नई दिल्ली इसी कार्यालय में 27 मई, 88 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी होंगे।			
12.	श्री पी० जनार्दन राव	कम्पैट वाहन अनु० तथा वि० स्थापना, अवाड़ी, मद्रास	28-12-87 (पूर्वाह्न)	1. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के चीफ इन्फ्रस्ट्रक्चर श्री एम० डी० परदेशी को 18-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
13.	श्री जी० मधुसूदन रेड्डी	कम्पैट वाहन अनु० तथा वि० स्थापना अवाड़ी, मद्रास	21-12-87 (पूर्वाह्न)	2. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के फोरमैन श्री डी० बी० मकपाल को 18-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
14.	श्री इरीषा कुमार गुप्ता	ठोनायस्था भौतिक, प्रयोगशाला, दिल्ली	07-12-87 (पूर्वाह्न)	3. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के फोरमैन श्री ए० एन० ठाकुर को 14-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
15.	श्री यू० आर० गौतम	इलेक्ट्रॉनिक तथा रक्षा विकास स्थापना, बंगलौर	07-01-88 (पूर्वाह्न)	4. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के करिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री डी० जी० जिगड़े को 14-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
16.	श्री वी० सिव कुमार	रक्षा अनु० तथा वि० प्रयोगशाला, हैदराबाद	01-02-88 (पूर्वाह्न)	5. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के करिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री डी० एम० शिन्डे को 14-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
17.	श्री मुरलीधर ललुवेंडुल	—वही—	01-02-88 (पूर्वाह्न)	6. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के करिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री एम० जी० लक्ष्मण को 14-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
18.	श्री टी० हेमप्रकाश रेड्डी	रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर	12-02-88 (पूर्वाह्न)	7. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के करिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री डी० एम० डोगे को 14-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
19.	श्री निलक सिंह	आयुद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	15-12-87 (पूर्वाह्न)	8. अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे के करिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री एम० आर० खदीरकर को 14-3-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
20.	श्री के० बी० राज-शेखरन नायर	नौसेना रसायन तथा धातुकीर्मीय प्रयोगशाला, बम्बई	11-01-88 (पूर्वाह्न)	रक्षा विज्ञान केन्द्र, दिल्ली के करिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री सरहूल मिह को 30-5-88 (पूर्वाह्न) से इसी केन्द्र में स्थानापन्न करिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।			
21.	श्री सुशील कुमार वर्मा	रक्षा इलेक्ट्रॉनिक प्रयोष्यता प्रयोगशाला, देहरादून	23-11-87 (पूर्वाह्न)				
22.	श्री अनिल वर्म	रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर	27-11-87 (पूर्वाह्न)				
23.	श्री के० वेंकट रमन	रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना, खालियर	08-01-88				
24.	कु० अनुराधा कुश्वरी	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद	03-11-87 (पूर्वाह्न)				
25.	श्री प्रदीप कुमार	रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना, खालियर	01-01-88 (पूर्वाह्न)				



नौसेना रसायन तथा धातुकर्मीय प्रयोगशाला, बम्बई के श्री सी० एम० लक्ष्मि वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को 27-5-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

नौसेना रसायन तथा धातुकर्मीय प्रयोगशाला, बम्बई के डा० एस० एन० गांवकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को 27-5-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

नौसेना रसायन तथा धातुकर्मीय प्रयोगशाला, बम्बई की श्रीमती एन० गोपालकृष्णन, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को 1-6-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

नौसेना रसायन तथा धातुकर्मीय प्रयोगशाला, बम्बई की कु० एस० सी० संखेसकर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को 27-5-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

तोप विकास दल, जबलपुर के श्री बी० के० सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को 27-5-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

नौसेना रसायन तथा धातुकर्मीय प्रयोगशाला, बम्बई के श्री राजीव ब्याल वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को 6-6-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

जितेन्द्र बुद्धे, उप निदेशक (कार्मिक)

सं० 1365, दिनांक 22 जुलाई, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदों-पर नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद के श्री के० रघुराम कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-2-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद के श्री बी० वी० एस० नायडू, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-2-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद के श्री एम० मत्तनरायण राजू, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-2-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद के श्री एम० सी० सहगल कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 20-6-86 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर के श्री बी० के० गोपीनाथन कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-2-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

नरसिंह बास, सहा० निदेशक (कार्मिक)

रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग

सं० 1368, दिनांक 12 अगस्त, 1988—राष्ट्रपति, स्थानान्तरण पर हेवी स्टील फैक्ट्री, भावडी में आए उप महाप्रबन्धक श्री एस० सी० मलहोत्रा को योजना एवं मन्व्य निदेशालय, रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 19 जुलाई, 1988 से उप योजना अधिकारी (ए० एस० वी०) नियुक्त करते हैं।

भार० सी० शर्मा, अवर सचिव

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

रक्षा वैमानिक गुणता प्राश्यासन सेवा

सं० 1367—राष्ट्रपति महोदय महर्षि निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) रक्षा मंत्रालय, कानपुर में श्री आर० एम बर्दम, दिनांक 27-5-88 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-2 हुए।

ये दो वर्ष की अवधि तक परखाधीन रहेंगे।

तकनीकी संपर्क अधिकारी का कार्यालय, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) रक्षा मंत्रालय, कलकत्ता में श्री एम० राजाकन्तु, दिनांक 31-5-88 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II हुए।

ये दो वर्ष की अवधि तक परखाधीन रहेंगे।

एम० एम० चोपड़ा, डैक अधिकारी

सं० 1369—श्री एम० एम० अवधानूल, उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय (वायु आयुक्त) रक्षा मंत्रालय, निधि का दिनांक 14 अगस्त, 1988 (अपराह्न) में स्वीकृत रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई और उन्हें इसी तारीख में पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया।

मधु सूदन चोपड़ा, डैक अधिकारी

सेना मन्त्रालय

(बी० एम० शाखा)

सं० 1369, दिनांक 29 जुलाई, 1988—श्री गुरदेव सिंह माहे, एम० टी० ए०, को 01-01-84 से कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ग्रुप "ब")—राजपञ्चल के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा वह पदोन्नत पद का 01-01-84 से वेतन तथा भत्ता पाने के हकदार होंगे।

डी० जी० एन० सं० 89615/अकसर/म० प्र० अ०/ए-7 दिनांक 04-7-84 द्वारा अधिसूचित पदोन्नति को रद्द ममला जाय।

के० पी० श्यामस, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सेना शाखा

(एम० एस० शाखा)

सं० 1370, दिनांक 4 अगस्त, 1988—एम० एम० शाखा के आशु-लिपिक ग्रेड "सी", श्री आर० पी० कांठो को तारीख 1-7-88 से 31-12-88 तक या जयन्त सूची से व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक ओ भी पहले हो, उम समय तक अस्थायी आधार पर सशस्त्र सेना मन्त्रालय आशु-लिपिकीय सेवा में आशुलिपिक ग्रेड "बी" के रूप में नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है और उन्हें प्रशासनिक कारणीयता बिना सूचना के प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

के० पी० थोदत, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

(थल सेना मुख्यालय)

(ए० जी० शाखा)

सं० 1371, दिनांक 20 जुलाई, 1988—संयम प्राधिकारी अधोलिखित आगुलिकों (ग्रुप "सी", ग्रुप "बी", अगजपत्रिका) को दिनांक 01-7-88 से 31-12-88 तक या चयन सूची से व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, आगुलिक ग्रेड "बी" (ग्रुप "बी" राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

- (1) श्री पी० एन० बहल
- (2) श्री सी० एल० वधवा
- (3) श्री एम० एच० गोपाल

साक्षिकार: म० प्र० अ०/पी०-2 नोट सं० ए/26668/म० प्र० अ०/पी०-2, दिनांक 1-7-88।

अनुसंधान एवं विभाग संगठन

सं० 1372, दिनांक 1 अगस्त, 1988—श्री ए० एन० तलवार, आगुलिक ग्रेड "बी" (एम पी ए) सेवा नियुक्ति का आय का प्राप्त होने पर दिनांक 31-7-88 (अप०) से सेवा नियुक्त हुए तथा दिनांक 1-8-88 (पू०) से पेंशन स्थापना में बदली किए गए।

(सेना शाखा)

सं० 1373, दिनांक 2 अगस्त, 1988—निम्नलिखित नियुक्ति की जाती है—

मानकीकरण निदेशालय

श्री आर० पी० पुनयानी, आगुलिक ग्रेड "सी" महासत्र सेना मुख्यालय की आगुलिकीय सेवा में दिनांक 01-07-88 से 31-12-88 तक आगुलिक ग्रेड "बी" (एम० पी० ए०) अस्थायी आधार पर नियम 12(3) के अन्तर्गत होगी।

उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 31-12-88 तक है या चयन सूची से स्थाई अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो उस अवधि तक है।

के० पी० यामन, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा०)

(सेना मुख्यालय)

सं० 1374, दिनांक 4 जुलाई, 1988—राष्ट्रपति महर्षे मेजर जनरल जे० पी० गुप्ता (आई०सी० 6231) 09 जून 88 (पूर्वाह्न) से सेना सेवा कोर के कर्नल कमान्डेंट के पद में नियुक्त करते हैं।

सं० 1375, दिनांक 4 अगस्त, 1988—राष्ट्रपति महर्षे ले० अनरल गोरखनाथ (आई०सी० 6529) ए० वी०एस० एम० 09 जून 88 (पूर्वाह्न) से सेना सेवा कोर के कर्नल कमान्डेंट के पद में नियुक्त करते हैं।

प्र० जी० सभमेता, ए० एम० एस० (एधम०)

सैनिक शाखा

सं० 1376, दिनांक 8 अप्रैल, 1988—अग्रापति निम्नलिखित भी मर्त्य नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

8 जून 1985 से 2/फेब्रुअरी होने

सुमील ईस्तर (आई०सी०-42749 एल०) ए० सी०, कर्णजीत सिंह (आई०सी०-42750 ए०) ई० एम० ई०, संतोष कुमार नन्दल (आई०

सी०-42751 ए०), न्फेन्डी, मुभाप यादव (आई०सी०-42752 एल०) आर्टी, बन्सी पान्त्पा सां० (आई०सी०-42753 एन०) इन्फेन्डी, अशीत कुमार नाथ (आई०सी०-42754 डब्ल्यू०) सिगनल, पवन कुमार मयनी (आई०सी०-42755 वार्ड०) मैकइन्फेन्डी, बिबहात मरहो (आई०सी०-42756 पी०) ई० एम० ई०, विरेन्द्र सिंह मलिक (आई०सी०-42757 के०) इन्फेन्डी, मनेन्द्रा जनक कुमार (आई०सी०-42758 एम०) इंजीनियर, स्वर्ण कुमार लामा (आई०सी०-42759 पी०) इन्फेन्डी, गणेश एस० निमल (आई०सी०-42760 के०) ई० एम० ई०, केणव अस्वाल (आई०सी०-42761 एम०) इंजीनियर, आंमेश यादव (आई०सी०-42762 पी०) ई० एम० ई०, राजीव नदरा (आई०सी०-42763 वार्ड०) ए० एम० सी०, पंकज चौहान (आई०सी०-42764 ए०) इंजीनियर, मेथीयस जोहन जैकब (आई०सी०-42765 ए०) मैकइन्फेन्डी, राजेश पुरां (आई०सी०-42766 एल०) ई० एम० ई०, अनील ठूडा (आई०सी०-42767 एन०) ए० सी०, सलिम आसिफ (आई०सी०-42768 डब्ल्यू०) इन्फेन्डी, अजीत सिंह यादव (आई०सी०-42769 वार्ड०) ई० एम० ई०, गगनदीप एस० पनाईच (आई०सी०-42770 एन०) ए० सी०, सजय सिंह (आई०सी०-42771 डब्ल्यू०) आर्टी, मुकुल मिश्र (आई०सी०-42772 वार्ड०) ए० ओ० सी०, सुशील कुमार शर्मा (आई०सी०-42773 एफ०) इन्फेन्डी, प्रणव कुमार जयसवाल (आई०सी०-42774 के०) इन्फेन्डी, जयराज कुमार (आई०सी०-42775 एम०) इंजीनियर, पारंशु वेकट रेड्डी (आई०सी०-42776 पी०) इन्फेन्डी, रवि आर० पाटील (आई०सी०-42777 एफ०) इन्फेन्डी, राकेश सिंह शोखावत (आई०सी०-42778 ए०) मैकइन्फेन्डी, योगेश कपूर (आई०सी०-42779 एफ०) ए० सी०, अखिल कुमार सिंह (आई०सी०-42780 एफ०) इन्फेन्डी, उल्हास बी० टालूर (आई०सी०-42781 ए०) आर्टी, वीपक आंधाराम (आई०सी०-42782 एफ०) आर्टी, संजय कुमार बर्मा (आई०सी०-42783 एल०) इन्फेन्डी, संगम केसरी महापात्रा (आई०सी०-42784 एम०) इन्फेन्डी, बैन्सी पी० जेकोब (आई०सी०-42785 डब्ल्यू०) इन्फेन्डी, सरेन्द्र यादव (आई०सी०-42786 वार्ड०) ए० एम० सी०, वेध प्रकाश शर्मा (आई०सी०-42787 एफ०), सिगनल, जगदीप कुमार गीतम (आई०सी०-42788 के०), आर्टी, अजय एस० शोखावत (आई०सी०-42789 एम०) ए० सी०, हरीत पन्त (आई०सी०-42790 एफ०) इन्फेन्डी, अशवनी श्रीमा (आई०सी०-42791 के०) इन्फेन्डी, अजय कुमार सूरि (आई०सी०-42792 एम०) आर्टी, राजीव भोला (आई०सी०-42793 ए०) इंजीनियर, सुचेन्द्रा कुमार एम० वी० (आई०सी०-42794 एफ०) इन्फेन्डी, जलज भोला (आई०सी०-42795 ए०) सिगनल, के० सी० पन्तनाथन (आई०सी०-42796 एफ०) इंजीनियर, अनुवीर सिंह बाहिल (आई०सी०-42797 एल०) इन्फेन्डी, बनधीर सिंह (आई०सी०-42798 एन०) सिगनल, संजय आनन्द (आई०सी०-42799 डब्ल्यू०), आर्टी, रणधीर मजुमदार (आई०सी०-42800 ए०) इन्फेन्डी, बलजीत सिंह सधू (आई०सी०-42801 एम०) इन्फेन्डी, विपुल चन्द्र खान्दूरी (आई०सी०-42802 एल०) आर्टी, हफीज खां (आई०सी०-42803 एन०) आर्टी, नरपत सिंह राजपुरोहित (आई०सी०-42804 डब्ल्यू०) ए० एम० सी०, रतन कुमार (आई०सी०-42805 वार्ड०) आर्टी, संगम कुमार झा (आई०सी०-42806 एफ०) इन्फेन्डी, जीवन सिंह राजपुरोहित (आई०सी०-42807 के०) इन्फेन्डी, प्रवीण बहुगुणा (आई०सी०-42808 एम०) इंजीनियर, किशोर चन्द एस० (आई०सी०-42809 पी०) मैकइन्फेन्डी, सन्तोष वी० के० (आई०सी०-42810 के०) आर्टी, भगत सिंह शोखावत (आई०सी०-42811 एम०) इन्फेन्डी, राकेश शर्मा (आई०सी०-42812 पी०) आर्टी, सी० वी० अजय (आई०सी०-42813 एफ०) इन्फेन्डी, ब्रम नारायण ठूमे (आई०सी०-42814 ए०) ए० एम० सी०, सवास कुमार दास (आई०सी०-42815 ए०) इन्फेन्डी, कुलदीप सिंह (आई०सी०-42816 एल०) आर्टी, सुधीर पालीवाल (आई०सी०-42817 एन०) आर्टी, हितेश कोहली (आई०सी०-42818 डब्ल्यू०) इन्फेन्डी, दयानन्द सीवाल (आई०सी०-42819 वार्ड०) आर्टी, सविन्द्र कौशल (आई०सी०-42820 एन०) इन्फेन्डी, शरद शुक्ला (आई०सी०-42821 डब्ल्यू०) सिगनल, कपूर सिंह (आई०सी०-42822 वार्ड०) ए० एम० सी०, जगरान्त सिंह पन्धीर (आई०सी०-42823 एफ०) इन्फेन्डी, प्रभान्त कुमार वी० वादवावगी (आई०सी०-42824 के०) सिगनल, प्ररव शुक्ला (आई०सी०-42826 पी०) आर्टी, अलोक गुप्ता (आई०सी०-

42827 एक्स०) ए० सी०, जसबीर सिंह (आई० सी०-42828 ए०) आर्टी, जयेश गोपाल मिश्रा (आई० सी०-42829 ए०) इन्फैन्ट्री, अजय चं. धरि (आई० सी०-42830 एक्स०) इन्फैन्ट्री, रूपेन्द्र सिंह (आई० सी०-42831 ए०) आर्टी, प्रभात कुमार (आई० सी०-42832 ए०) इन्फैन्ट्री, नरेश्वरी बेकटा माई सुधाकर (आई० सी०-42834 ए०) इंजीनियर, जेवियर एम० टी० (आई० सी०-42835 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, गिरिश शंभू शर्मा (आई० सी०-42836 आई०) सिगनल, गुरविन्दर सिंह भंडारी (आई० सी०-42837 ए०) आर्टी, पी० आर० मुरली (आई० सी०-42838 के०) आर्टी, बिपी सुरेंद्र रेड्डी (आई० सी०-42839 ए०) आर्टी, सजय सिंह (आई० सी०-42840 ए०) इंजीनियर, नरेन्द्र सिंह दहिया (आई० सी०-42841 के०) इन्फैन्ट्री, सुशील शर्मा (आई० सी०-42842 ए०) इन्फैन्ट्री, रवि ब्रालियाल (आई० सी०-42843 पी०) इन्फैन्ट्री, कृष्णा सिंह महर (आई० सी०-42844 आई०) ए० ओ० सी०, अनन्त बेकटा राजेश्वर राव एम० (आई० सी०-42846 ए०) इन्फैन्ट्री, के० रामानन्दा आचार्य (आई० सी०-42847 ए०) इन्फैन्ट्री, रवि (आई० सी०-42848 ए०) आर्टी, नरेंद्रा सिंह (आई० सी०-42850 ए०) आर्टी, प्रदीप्ता नारायण मोहपात्रा (आई० सी०-42851 ए०) इन्फैन्ट्री, आशीश जिनवल (आई० सी०-42852 डब्ल्यू०) मेकइन्फैन्ट्री, जावेद हुसैन (आई० सी०-42854 ए०) ए० एम० सी०, बीपक कुमार (आई० सी०-42855 के०) ए० ए० सी०, चप्पा सभागिरी (आई० सी०-42856 ए०) आर्टी, गुरबीर सिंह बहुलन (आई० सी०-42857 पी०) इन्फैन्ट्री, रविन्द्रा बी० हवाल (आई० सी०-42858 ए०) इन्फैन्ट्री, जोग चौधरी (आई० सी०-42859 ए०) इन्फैन्ट्री, विमानन्द जी माने (आई० सी०-42860 पी०) आर्टी, मनोज कुमार (आई० सी०-42861 एक्स०) इन्फैन्ट्री, यशपाल सिंह मोर (आई० सी०-42862 ए०) इन्फैन्ट्री, एम० सतीश राज (आई० सी०-42864 ए०) ए० सी०, बाया स्वर्ण सिंह (आई० सी०-42865 ए०) आर्टी, विनोद कुमार शर्मा (आई० सी०-42866 डब्ल्यू०) ए० सी०, धमेन्द्र गुप्ता (आई० सी०-42867 आई०) इन्फैन्ट्री, हरीश पाथरिया (आई० सी०-42868 ए०) इन्फैन्ट्री, रवि मलहोत्रा (आई० सी०-42869 के०) सिगनल, विराज सहाय (आई० सी०-42870 आई०) आर्टी, राज विजय रोहलागिया (आई० सी०-42871 ए०) आर्टी, प्रदीप कुमार चौधरी (आई० सी०-42872 के०) ए० ओ० सी०, संजय चौहान (आई० सी०-42874 बी०) इंजीनियर, सजीव कुमार छिबारा (आई० सी०-42875 एक्स०) इन्फैन्ट्री, विक्रम आहूजा (आई० सी०-42876 ए०) सिगनल, एम० नन्दा कुमार (आई० सी०-42877 ए०) इन्फैन्ट्री अरविन्द मोहन (आई० सी०-42878 ए०) सिगनल, राजीव पुरी (आई० सी०-42879 ए०) इन्फैन्ट्री, भनील वर्मा (आई० सी०-42880 ए०) इन्फैन्ट्री, संजय रिहानी (आई० सी०-42881 ए०) इंजीनियर, प्रकाश एम० पाटिल (आई० सी०-42882 ए०) इन्फैन्ट्री, रूपेन्द्र सिंह रातरा (आई० सी०-42883 डब्ल्यू०) आर्टी, ए० डी० तेनसिंह रिफुस म्नादेरि (आई० सी०-42884 आई०) सिगनल, संजय ठाकुर (आई० सी०-42885 ए०) इन्फैन्ट्री, गिरीजग कुमार शर्मा (आई० सी०-42886 के०) इन्फैन्ट्री, प्रदीप कुमार चहल (आई० सी०-42887 ए०) इन्फैन्ट्री, अजय गुप्ता (आई० सी०-42888 पी०) ए० सी०, सुरेन्द्र सिंह फोगाट (आई० सी०-42890 ए०) इन्फैन्ट्री, विरेन्द्र कटोच (आई० सी०-42892 ए०) आर्टी, निसार अहमद सीठी (आई० सी०-42893 ए०) इन्फैन्ट्री, पियूष अग्रवाल (आई० सी०-42894 ए०) आर्टी, राज कुमार झा (आई० सी०-42895 ए०) ए० ओ० सी०, जयवीर एस० कारीगोषार (आई० सी०-42896 ए०) आर्टी, भउलेटी मल्लीकरजुन वर्मा (आई० सी०-42898 आई०) आर्टी, साहूकार बालाचन्द्र (आई० सी०-42899 ए०) इंजीनियर, बुद्धी प्रसाद थापा (आई० सी०-42900 ए०) आर्टी, विनोद तनेजा (आई० सी०-42901 ए०) आर्टी, सुरेन्द्र पाल सिंह बरार (आई० सी०-42903 आई०) आर्टी, नबाब सिंह धुमन (आई० सी०-42904 ए०) इन्फैन्ट्री, विनित प्रभात कुमार (आई० सी०-42905 के०) ए० ओ० सी०, विगम्बर सिंह पोखरिया (आई० सी०-42907 पी०) इन्फैन्ट्री, हरीश चण्डीक (आई० सी०-42909 ए०) आर्टी, नील करिस्टोफर हिलिस (आई० सी०-42910 पी०) मेकइन्फैन्ट्री, भुवनिश कपूर (आई० सी०-42911 ए०) आर्टी, रामदेव सिंह (आई० सी०-42912 ए०) इंजीनियर, राम ए० गाबरी (आई० सी०-42914

ए०) इन्फैन्ट्री, राज विजेन्द्रा मिह (आई० सी०-42015 ए०) ए० ए० सी०, कद्रागड्डा माधव राव (आई० सी०-42916 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, रमेश कुमार (आई० सी०-42917 आई०) आर्टी, निर्वाण कुमार राय (आई० सी०-42918 ए०) ए० ए० सी०, मनोज कुमार (आई० सी०-42919 के०) आर्टी, बिनू वर्मा (आई० सी०-42920 आई०) सिगनल, रमेश यादव (आई० सी०-42921 ए०) इन्फैन्ट्री, आशीश चापड़ा (आई० सी०-42923 ए०) इन्फैन्ट्री, रोहित गणेश कुमार मोहिले (आई० सी०-42924 पी०) इंजीनियर, विनोद मथार (आई० सी०-42925 ए०) ई० ए० ई०, भास्कर कविता (आई० सी०-42926 ए०) इन्फैन्ट्री, अमरेन्द्रा पाण्डेय (आई० सी०-42927 ए०) सिगनल, ईश्वर जी० डोड्डामर्ती (आई० सी०-42928 ए०) इन्फैन्ट्री, दुषयन्त कुमार (आई० सी०-42929 ए०) आर्टी, जितेन्द्र सिंह बलाल (आई० सी०-42932 ए०) इन्फैन्ट्री, सजय जोशी (आई० सी०-42933 डब्ल्यू०) ए० ए० सी०, राजेन्द्र सिंह (आई० सी०-42934 आई०) इन्फैन्ट्री, राजेश कुमार (आई० सी०-42935 ए०) इन्फैन्ट्री, ज्योत्सनाहू अनमारी (आई० सी०-42936 के०) इन्फैन्ट्री, गहनंजित सिंह दहिया (आई० सी०-42937 ए०) इन्फैन्ट्री, मुनील मिश्रा (आई० सी०-42938 पी०) सिगनल, धरत शर्मा (आई० सी०-42939 ए०) इंजीनियर, आजाद सिंह (आई० सी०-42940 ए०) आर्टी, मुनील ए० पाटील (आई० सी०-42941 पी०) मेकइन्फैन्ट्री, ए० ए० राजन (आई० सी०-42942 ए०) आर्टी, मुधीर कुमार श्रुवा (आई० सी०-42943 ए०) इन्फैन्ट्री, अमृप सिंह साहू (आई० सी०-42944 ए०) इन्फैन्ट्री, सुधाश्री शर्मा (आई० सी०-42945 ए०) ई० ए० ई०, ए० ए० वी० अशोष (आई० सी०-42946 ए०) आर्टी, सुरेश सिंह (आई० सी०-42947 डब्ल्यू०) ए० ओ० सी०, अशोक कुमार सिंह (आई० सी०-42948 ए०) इन्फैन्ट्री, राकेश कुमार सिंह (आई० सी०-42949 ए०) सिगनल, धीमंत कुट्टी जोगक (आई० सी०-42950 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, जसवीर सिंह गूढ (आई० सी०-42951 आई०) ए० ए० सी०, जलजित ए० गाबा (आई० सी०-42952 ए०) इन्फैन्ट्री, घटा राजेन्द्र प्रसाद (आई० सी०-42953 के०) आर्टी, प्रमोद कुमार ए० (आई० सी०-42954 ए०) इन्फैन्ट्री, जयनेल सिंह (आई० सी०-42955 पी०) आर्टी, मुनील कुमार आर० आई० (आई० सी०-42956 ए०) आर्टी, शशीधर बी० ए० (आई० सी०-42957 ए०) इन्फैन्ट्री, हरी मोहन ईश्वर ए० (आई० सी०-42958 ए०) आर्टी, प्रमोद ज० तिनान (आई० सी०-42959 ए०) आर्टी, अविनाश ठाकुर (आई० सी०-42960 ए०) आर्टी, राजीव ठाकुर (आई० सी०-42961 ए०) ए० ओ० सी०, नरेन्द्र कुमार चमोपा (आई० सी०-42962 ए०) इंजीनियर, राम प्रसाद उपाध्याय (आई० सी०-42963 ए०) आर्टी, सुखदीप सिंह रणधाबा (आई० सी०-42964 डब्ल्यू०) ए० सी०, विनीत किशोर (आई० सी०-42965 आई०) आर्टी, पार्थसारथी संकर (आई० सी०-42966 ए०) आर्टी, रामजी शर्मा चौधरी (आई० सी०-42969 पी०) इन्फैन्ट्री, राजेन्द्र सिंह (आई० सी०-42971 ए०) इन्फैन्ट्री, राहुल पाण्डे (आई० सी०-42972 पी०) इन्फैन्ट्री, सुरेश कुमार (आई० सी०-42973 ए०) इंजीनियर, मोहन सिंह (आई० सी०-42975 ए०) ए० ओ० सी०, परिणत सिंह जुल्का (आई० सी०-42976 ए०) आर्टी, गुरुराज गोपीनाथ पामिनी (आई० सी०-42977 ए०) मेकइन्फैन्ट्री, ए० के० रविन्द्रन (आई० सी०-42978 डब्ल्यू०) आर्टी, मुधीर कुमार यादव (आई० सी०-42980 ए०) ए० ए० सी०, दिनकर देवजी पण्डे (आई० सी०-42981 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, परिणत सिंह चन्द्रोक (आई० सी०-42982 आई०) ए० ओ० सी०, गन्तोष जोसफ (आई० सी०-42984 के०) इन्फैन्ट्री, विनेश कुमार (आई० सी०-42986 पी०) इन्फैन्ट्री, के० ए० राम मोहन (आई० सी०-42987 ए०) इन्फैन्ट्री, पदम बहादुर गुरूंग (आई० सी०-42988 ए०) इन्फैन्ट्री, महिपाल सिंह (आई० सी०-42989 ए०) इन्फैन्ट्री, स्वर्ण सिंह रणोट (आई० सी०-42990 ए०) इन्फैन्ट्री, विवेक भटनागर (आई० सी०-42991 ए०) सिगनल, अतुल कृष्ण शर्मा (आई० सी०-42992 ए०) सिगनल, कुंवर विनेन्द्रा सिंह धनुआ (आई० सी०-42993 ए०) ए० ए० सी०, अधिमन्यु मिक्का (आई० सी०-42994 ए०) आर्टी, अजय कुमार गुप्ता (आई० सी०-42995 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, गजेन्द्र कुमार विद्यार्थी (आई० सी०-42996 आई०) इन्फैन्ट्री, बानू लाल (आई० सी०-42997 ए०) ई० ए० ई०, ए० ए० राम (आई० सी०-42998

के०) इंजीनियर, हरेश्वर त्रिपाठी (आई० सी०-42999 एम०) ए० ओ० सी०, मुजोध गंग (आई० सी०-43000 एम०) ए० एम० सी०, हरजेश्वर सिंह सिंहा (आई० सी०-43002 आई०) ए० एम० सी०, मंडय महगल (आई० सी०-43003 एफ०) इंजीनियर, विश्वजीत सिंहा (आई० सी०-43005 एम०) इन्फैन्ट्री, राधेण डी० बहुगुणा (आई० सी०-43006 पी०) आर्टी, विश्वजीत सिंह (आई० सी०-43007 एम०) इन्फैन्ट्री, अमरेश्वर नारायण (आई० सी०-43009 एच०) आर्टी, भुवनेश कुमार त्यागी (आई० सी०-43010 एम०) इन्फैन्ट्री, सुनील कुमार शर्मा (आई० सी०-43011 ए०) आर्टी, प्रदीप एल० सी० (आई० सी०-43012 एच०) आर्टी, शिव कुमार सिंह (आई० सी०-43013 एल०) इन्फैन्ट्री, गौतम कालिटा (आई० सी०-43014 एन०) इन्फैन्ट्री, बलवीर सिंह राठौर (आई० सी०-43015 डब्ल्यू०) आर्टी, महेन्द्र सिंह दशमल (आई० सी०-43017 एफ०) इन्फैन्ट्री, प्रवेश कुमार शर्मा (आई० सी०-43018 के०) सिगनल, विरेन्द्र तनेजा (आई० सी०-43019 एम०) सिगनल, गणेश सिंह रावत (आई० सी०-43021 के०) इन्फैन्ट्री, गुर अवतार सिंह (आई० सी०-43023 पी०) मेक इन्फैन्ट्री, जयदेव सिंह राणा (आई० सी०-43024 एम०) आर्टी, प्रमोद सिंह नायन (आई० सी०-43026 एच०) ए० ओ० सी०, मुदरान भारद्वाज (आई० सी०-43027 एल०) ए० सी०, अमर कुमार मित्रा (आई० सी०-43028 एन०) इन्फैन्ट्री, विनोद कुमार चौताल (आई० सी०-43029 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, अमरिका सिंह (आई० सी०-43031 एन०) इन्फैन्ट्री, उगल मोहन सिंह (आई० सी०-43032 डब्ल्यू०) आर्टी, गोरान्ता नागागात्रा राधु राम (आई० सी०-43033 आई०) आर्टी, नीरज श्रीवास्तवा (आई० सी०-43034 एल०) इन्फैन्ट्री, राजीव वर्मा (आई० सी०-43035 के०) आर्टी, विवेक स्वरूप भटनागर (आई० सी०-43036 एम०) आर्टी, देवेन्द्र यादव (आई० सी०-43037 पी०) इन्फैन्ट्री, अतथा कृष्ण रामनाथन (आई० सी०-43039 ए०) इन्फैन्ट्री, मन बहादुर पून (आई० सी०-43040 पी०) इन्फैन्ट्री, असीम भद्र (आई० सी०-43042 ए०) इन्फैन्ट्री, सुनील कुमार बाटयाम (आई० सी०-43043 एच०) सिगनल, राजकुमार राणा (आई० सी०-43044 एम०) इन्फैन्ट्री, विक्रम सिंह (आई० सी०-43045 एन०) आर्टी, नरेन्द्र जीत सिंह (आई० सी०-43046 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, गोपालाकृष्ण नायर के० (आई० सी०-43047 आई०) इन्फैन्ट्री, एम० शिवादेसन नायर (आई० सी०-43048 एफ०) इन्फैन्ट्री, यशपाल बालहरा (आई० सी०-43049 के०) मेक इन्फैन्ट्री, विरेन्द्र सिंह यादव (आई० सी०-43050 आई०) इन्फैन्ट्री, अरुण कुमार पाण्डय (आई० सी०-43052 के०) ए० एम० सी०, विरेन्द्र कुमार धीर (आई० सी०-43053 एम०) इन्फैन्ट्री, विनोद कुमार घाले (आई० सी०-43056 ए०) इन्फैन्ट्री, मडीसेट्टी वी० केमवा राव (आई० सी०-43057 एच०) आर्टी, अशोक कुमार सिंह (आई० सी०-43058 एल०) इन्फैन्ट्री, विल्ली प्रसाद गुंथग (आई० सी०-43061 एल०) आर्टी, अमिताभ बोम (आई० सी०-43062 एन०) आर्टी, ए० एम० प्रभाकर (आई० सी०-43067 एम०) आर्टी, सुनील कुमार वर्मा (आई० सी०-43070 एम०) आर्टी, स्वामी कर्णामेंट (आई० सी०-43071 पी०) ए० एम० सी०, रमन मलिक (आई० सी०-43072 एम०) इन्फैन्ट्री, राकेश रयना (आई० सी०-43073 के०) इन्फैन्ट्री, पी० कृष्णास्वामी (आई० सी०-43074 एच०) ए० सी०, सुखवीर भट्टा (आई० सी०-43075 एल०) आर्टी, संजीव वृजे (आई० सी०-43078 आई०) ए० एम० सी०, सतप्रीत सिंह (आई० सी०-43079 एफ०) इन्फैन्ट्री, शूरप्रीत सिंह बाबा (आई० सी०-43081 आई०) मेक इन्फैन्ट्री, रशीद अहमद खान (आई० सी०-43082 एफ०) आर्टी, जोगेश्वर सिंह (आई० सी०-43086 एम०) इन्फैन्ट्री, अभय भटनागर (आई० सी०-43088 एम०) ए० सी०, हितेश भटनागर (आई० सी०-43089 एल०) इंजीनियर, रामफल (आई० सी०-43092 एल०) आर्टी, संजीव कुमार सिंह (आई० सी०-43093 एन०) ई० एम० ई०, शमशेर सिंह मान (आई० सी०-43094 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, सुरेश्वर सिंह कादयाम (आई० सी०-43095 आई०) इन्फैन्ट्री, इन्द्रजीत सिंह चाबला (आई० सी०-43096 एफ०) आर्टी, कपिल कुमार श्रीवास्तवा (आई० सी०-43097 के०) आर्टी, विश्वनाथ भारद्वाज (आई० सी०-43099 पी०) इन्फैन्ट्री, अशोक एम० पवार (आई० सी०-43100 आई०) इन्फैन्ट्री, नजालीशिव सुब्रह्मनिया प्रसाद (आई० सी०-43101 एफ०) सिगनल, विरेन्द्र सिंह (आई० सी०-43102 के०) ए० ओ० सी०, रवि चौधरी एन० (आई० सी०-43101 पी०) ए० एम० सी०, सुनील

काल भारद्वाज (आई० सी०-43105 एम०) आर्टी, संजय मोहन (आई० सी०-43106 ए०) आर्टी, विनित कुमार शोरी (आई० सी०-43107 एच०) आर्टी, संदीप कुमार रोय (आई० सी०-43109 एन०) आर्टी, पोलामारो मेट्टी जोसफ लारेंस (आई० सी०-43110 एच०) आर्टी, महेश्वरसिंह जे० शाला (आई० सी०-43111 एल०) इन्फैन्ट्री, धमन सिंह गुंथग (आई० सी०-43114 आई०) ए० सी०, संजय कुमार तागपाल (आई० सी०-43116 के०) आर्टी, अशोक मलिक (आई० सी०-43119 एम०) इंजीनियर, बोधो के० जोसफ (आई० सी०-43120 एम०) आर्टी, पी० श्रीनारायण (आई० सी०-43121 एफ०) आर्टी, निलेश लावजी कारिया (आई० सी०-43122 एफ०) इन्फैन्ट्री, एल० डी० वी० प्रसाद राव (आई० सी०-43124 एच०) इंजीनियर, आनंद कुमार चक्रवर्ती (आई० सी०-43125 एल०) सिगनल, प्रदीप सोफ्ट (आई० सी०-43126 एम०) इन्फैन्ट्री, जाज के० वार्डे (आई० सी०-43130 डब्ल्यू०) सिगनल, अनिल चाबला (आई० सी०-43132 एफ०) इंजीनियर, प्रफुल्ला कुमार मिश्रा (आई० सी०-43135 पी०) आर्टी, सुरेश्वर सिंह राठौर (आई० सी०-43136 एम०) इन्फैन्ट्री, संजय रावत (आई० सी०-43137 ए०) ए० एम० सी०, राजेश्वर नायर (आई० सी०-43138 एच०) आर्टी, अनिल मित्रल (आई० सी०-43139 एल०) आर्टी, संजय कौठारी (आई० सी०-43141 एच०) आर्टी, अटोमी जोसफ (आई० सी०-43142 एल०) इन्फैन्ट्री, कुसुम राजन राजकुमार (आई० सी०-43143 एन०) इन्फैन्ट्री, संजय कुमार दत्ता (आई० सी०-43144 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, जय सिंह (आई० सी०-43145 आई०) ए० एम० सी०, अनिल कुमार शर्मा (आई० सी०-43148 एम०) इन्फैन्ट्री, वी० कन्नन (आई० सी०-43149 पी०) ए० ओ० सी०, शानेश्वर पाल सिंह (आई० सी०-43151 एम०) ए० ओ० सी०, कृष्णा मदन स्वामी (आई० सी०-43152 पी०) सिगनल, राजेश कुमार एन० (आई० सी०-43154 आई०) ई० एम० ई०, सुरेश्वर वी० पी० (आई० सी०-43155 एम०) मेक इन्फैन्ट्री, कंचलजीत सिंह (आई० सी०-43156 एल०) इन्फैन्ट्री, दीपक चौधरी (आई० सी०-43158 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, राहुल सहगल (आई० सी०-43160 एन०) ए० एम० सी०, हरजीत सिंह (आई० सी०-43161 डब्ल्यू०) आर्टी, टीकाजी (आई० सी०-43162 आई०) इन्फैन्ट्री, प्रबोध कुमार पाठक (आई० सी०-43163 एफ०) इन्फैन्ट्री ।

एम० सी० जोशी, ले० कर्नल  
ए० एम० एस० 8-बी

शर सेना विभाग

सं० 1377 दिनांक 9 अगस्त, 1988—राष्ट्रपति नियमित पदोन्नति करने हैं—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

मे० जनरल से ले० जनरल

सूरज प्रकाश (एम० आर०-660) (सेना-चिकित्सा कोर/पी० सी० 1-1-88 ।

ले० कर्नल से कर्नल

ए० जे० पी० उमिल (एम० आर०-2120), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी० 11-9-87 ।

एम० मिह (एन० टी० आर०-16118), सेना चिकित्सा कोर/एन० टी० 18-1-88 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर पभाव डाले दिना 1-12-87 से ।

स्थाई आयोग

विंग कमांडर (ले० कर्नल) से ग्रुप के० (कर्नल)

एम० सी० श्वरा (12899) (एम० आर०-1902), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी० 1-6-87 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले दिना 5-12-86 से ।

एम० बी० अमरीश (12460) (एम० आर०-1863), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-9-2-87 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से।

के० के० भिन्ना (6485) (एम० आर०-1898), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-9-2-87 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से।

के० जी० हेगडे, जी० एम० एम (7253) (एम० आर०-1858), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-9-2-87 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से।

पी० एन० दाम (एम० आर०-1895), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-9-2-87 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से।

एच० आर० गर्ग (7031) (एम० आर०-1904), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-12-1-87 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से।

बी० सिंह (6054) (एम० आर०-1443), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-31-12-86 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से।

बी० के० मेठ (7254) (एम० आर०-1864), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-26-12-86 (अपराह्न/पूर्वाह्न) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से।

पी० सी० एम० मेहता (75384 ए०) (एम० आर०-3100), (सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-11-1-88)।

ले० कर्नल से कर्नल

बी० जी० लधाटे (एम० आर०-2388), सेना चिकित्सा कोर/पी० सी० 17-12-87।

विजय किशोर तिवारी मेजर जनरल,  
उप म० नि० स० से० बि० से०

थक सेना विभाग

सं० 1378 दिनांक 8 अक्टूबर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

स्वाइ कमिशन

लैफ्टिनेंट से कैप्टन

ए० षटनागर, (आई० सी०-37608) आर्टिलरी—15 जुलाई, 1986  
भगवत बयाल (आई० सी०-37538) ई० एम० ई०, 15 जुलाई, 1986।

2/लैफ्टिनेंट से लैफ्टिनेंट

अमित तिमोथी (आई० सी०-40991) इन्फैंट्री, निरज शर्मा (आई० सी० 41000) आरटीएलरी, पी० के० शर्मा (आई० सी०-41001) इन्फैंट्री, पी० सी० पठनेरु (आई० सी०-41005) आर्टिलरी, संजीव बत्तारा (आई० सी०, 41006) इन्फैंट्री, अलबर्ट राय (आई० सी०-41011) ई० एम० ई०, ए० के० शर्मा, (आई० सी०-41012) इन्फैंट्री, एम० एल० तिवारी (आई० सी०-41014) आरटीएलरी, आई० पी० एम० वाभिया (आई० सी०-41016), ए० ओ० सी०, राजन कश्यप (आई० सी०-41020) ए० एम० सी०, सी० जी० नन्दावन (आई० सी०-41024) इन्फैंट्री, एम० के० लोभर (आई० सी०-41032) ई० एम० ई०, एम० आर० जगजाले (आई० सी०-41035) आरटीएलरी, मनोज वेंगसेट (आई० सी०-41040) ए० ओ० सी०—24 दिसम्बर, 1984।

आई० एम० सहदेव (एम० एम० 31557) इन्फैंट्री, एच० एम० फोगुरा (एम० एम० 31558) रेक (इन्फैंट्री), अमरिन्पाल सिंह गिल (एम० एम० 31560) ए० एम० सी०, ए० एन० सोनी (एम० एम० 31566) ए० सी०, एम० एम० मदान (एम० एम० 31568) इन्फैंट्री, उमाकान्त गुप्ता (एम० एम०-31569) इंजीनियर, राम चन्द्रन तायर (एम० एम० 31576) इन्फैंट्री, पी० के० भारती, (एम० एम०-31578) आर्टी, तन्विन्दर सिंह (एम० एम० 31585) ए० सी०, पी० एम० गुप्ता (एम० एम० 31588) इन्फैंट्री, मायाज कुमार सिंह (एम० एम० 31592) इंजि, एम० सरजीमट, (एम० एम० 31599) आर्टी, ए० के० सचदेवा (एम० एम०-31610) इन्फैंट्री, बी० एम० रघुवन्सी, (एम० एम० 31612) इन्फैंट्री, राजीव मन्जोक (एम० एम० 31617) ए० सी०, उमा कान्त सिंह (एम० एम० 31618) इन्फैंट्री, अमरश्रीव सिंह (एम० एम० 31621) आर्टी, सुनील मनचन्द्रा (एम० एम० 31630) सिगनल, एम० के० यादव, (एम० एम० 31632) आरटी, वीरेन्द्र मनजाल (एम० एम०-31634) इन्फैंट्री, सुधीर थापा (एम० एम० 31636) सिगनल, जे० एम० रन्धावा (एम० एम०-31640) ई० एम० ई०, अरुण सिंह राठौर (एम० एम०-31642) आर्टी—27 अगस्त, 1985।

सुनील प्रेम (आई० सी०-41850) इंजीनियर, अगदेव सिंह (आई० सी०-41851) ए० ओ० सी०, णिष कुमार राय (आई० सी०-41852) आरटीएलरी, ललित जोशी (आई० सी०-41853) इन्फैंट्री, जी० एम० राठौर (आई० सी०-41854) इन्फैंट्री, एम० सी० मिश्रा (आई० सी० 41855) ए० ओ० सी०, नवीन आहुजा (आई० सी०-41856) इंजीनियर, राजविरिन्द सिंह खूबं (आई० सी०-41857) इन्फैंट्री, सी० पी० नरीयण्णा (आई० सी०-41858) इन्फैंट्री, एम० राधाकृष्णन, (आई० सी०-41859) इंजीनियर, संतापु दयाल (आई० सी० 41860) इन्फैंट्री, राजेश सूर (आई० सी०-41861) ई० एम० ई०, मलिन मदन (आई० सी० 41863) इन्फैंट्री, आर० सीतारामीशा (आई० सी०-41864) ई० एम० ई०, एम० एन० देवाया (आई० सी० 41867) इंजीनियर, आर० बी० सिंह (आई० सी० 41868) ई० एम० ई०, अरविन्द भाटिया, (आई० सी०-41869) इन्फैंट्री, अनिल जोशी (आई० सी०-41870) इंजीनियर, परमजीत सिंह खिलोन (आई० सी०-41871) इंजीनियर, अरुन महगल (आई० सी०-41874) ई० एम० ई०, पाल बी० पी० (आई० सी०-41875) इन्फैंट्री, अरविन्द सिंह (आई० सी०-41876) आरटीएलरी, आर० एम० शेषवाल (आई० सी०-41877) इन्फैंट्री, जी० एम० संगेहरा (आई० सी०-41879) ए० सी०, महिन्द्रा सिंह यावव (आई० सी०-41880) आरटीएलरी, ए० जे० एम० विक्रं (आई० सी०-41882) इन्फैंट्री, राकेश नयर (आई० सी०-41883) ए० एम० सी०, मन्वीप मलोत्रा (आई० सी०-51884) ए० सी०, यू० सुरेण कुमार (आई० सी०-41885) इन्फैंट्री, गोविन्दर सिंह शेवाल (आई० सी०-41886) इंजीनियर, प्रबोध गरन राणा (आई० सी०-41887) सिगनल, राजीव मिश्रा (आई० सी०-41888) आरटीएलरी, वार्ड एम० गनेश (आई० सी० 41889) आरटीएलरी, सी० मोहन आर० (आई० सी०-41890) आरटीएलरी, अजय कुमार राय (आई० सी०-41891) इन्फैंट्री—9 जून, 1986।

टी० थोमस (आई० सी०-41982) इंजीनियर, मुकेश संगुरी (आई० सी०-41983) इन्फैंट्री, एम० सी० त्रिपाठी (आई० सी०-41984) इन्फैंट्री, जे० एम० मलोटिया, (आई० सी०-41985) ए० सी०, एच० के० जैन (आई० सी०-41989) आरटीएलरी, सुनील कुमार (आई० सी०-41991) इन्फैंट्री, आर० एम० शर्मा (आई० सी०-41993) आरटीएलरी, अरुन जोशी (आई० सी०-41994) इंजीनियर, मेमसरिंग (आई० सी०-41995) इन्फैंट्री, अणाक के० यादव (आई० सी०-41996) ए० एम० सी०, एन० के० दशाम (आई० सी०-41997) इन्फैंट्री, संजय शाह (आई० सी०-41998) आरटीएलरी, लव वर्मा (आई० सी०-41999) इन्फैंट्री, पी० एच० वर्धन (आई० सी०-42001) भूकेंद्रीक/इन्फैंट्री, ए० के० सिंह



गङ्गोतरा (आई० सी०-42003) मिगनल, आर० पी० कानिया (आई० सी० 42004) इनफैटरी, एम० एम० भोखावन (आई० सी०-42005 ए० एम० सी०, जगरूप सिंह (आई० सी०-42006) इनफैटरी, राजेश ककड़ (आई० सी०-42007) ई० एम० ई०, संजय (आई० सी०-42008) इनफैटरी, रामगान सिंह (आई० सी०-42009) इनफैटरी, एम० एम० गायकवाड़ (आई० सी०-42010) इनफैटरी, एम० सी० इल (आई० सी०-42013) मिगनल, एम० जी० माधीव (आई० सी० 42014) इनफैटरी, रमन सिंह (आई० सी०-42018) ए० ओ० सी०, एम० पी० मनोहर (आई० सी०-42019) मिगनल, अरविन्दन (आई० सी०-42020), आरटीलरी, के० अशीश गय (आई० सी०-42021) मकेनिक इनफैटरी, आर० के० नूना, (आई० सी०-42022) आर्टिलरी, ए० एम० हृमानसेठ (आई० सी०-42024) इनफैटरी, आर० एम० वेंम (आई० सी०-42025) इनफैटरी, ए० एम० चीना (आई० सी०-42026) इनफैटरी, आर० रवि (आई० सी०-42027) इनफैटरी, आर० एम० फोगत (आई० सी०-42028) ए० सी०-9 जून, 1986।

सुरेश चन्द (आई० सी०-41938) ए० एम० सी० एम० सी० फटोच आई० सी०-41944) ए० ओ० सी०, डी० भटाचारजी (आई० सी०-41945) मिगनल, मदानन्द मिश्र (आई० सी०-41946) इनफैटरी, डी० सी० मजुमदार (आई० सी०-41947) आर्टिलरी, हंसमुख पटेल (आई० सी०-41948) इनफैटरी, अमीजित मुखर्जी (आई० सी०-41950) आरटीलरी, राजू चौहान (आई० सी०-41951) इनफैटरी, संजीव चौधरी (आई० सी०-41952) आरटीलरी, एस० एम० सिंह (आई० सी०-41953) इनफैटरी, ललित बलवाल (आई० सी०-41954) आर्टिलरी मोहन लाल अक्षवाल (आई० सी०-41955) ए० ओ० सी०, मोहन कुमार (आई० सी०-41956) ई० एम० ई०, ओम सिंह (आई० सी०-41957) इंजीनियर, संजय अरोरा (आई० सी०-41958) आर्टिलरी, ए० के० चानन (आई० सी०-41960) आर्टिलरी, संजय वर्मा (आई० सी०-41962) इनफैटरी, दीपक शर्मा (आई० सी०-41963) मिगनल, अनुराग शुक्ला (आई० सी०-41964) इनफैटरी, डी० एम० के० (आई० सी०-41965) ई० एम० ई०) बालकृष्णा एन० (आई० सी०-41966) मिगनल, के० वी० माधीव (आई० सी०-41967) इंजीनियर, डी० एम० मोर (आई० सी०-41968) आर्टिलरी, के० जे० वाबू (आई० सी०-41969), इनफैटरी, अनूपम शर्मा (आई० सी०-41970), ए० सी०, डी० के० सिन्हा (आई० सी०-41971), ए० एम० सी०, मोहेन्द्र सिंह (आई० सी०-41972), ए० एम० सी०, आर० एल० शर्मा (आई० सी०-41973), इनफैटरी, सी० के० अग्रवाल (आई० सी०-41974), आर्टिलरी, अनिल चट्टा (आई० सी०-41975), इनफैटरी डी० एम० सुहाग (आई० सी०-41977), इनफैटरी, जे० पी० पटेलिया (आई० सी०-41978), इनफैटरी, पी० के० पटनायक (आई० सी०-41979), इंजीनियर, के० एन० राधाकृष्णन (आई० सी०-41980)

इंजीनियर, पी० वी० चौधरी, (आई० सी०- 41981), आर्टिलरी- 9 जून, 1986।

ज० के० खेनरी (आई० सी०-42164), इनफैटरी, सेमसूल हुवा (आई० सी०-42167), मकेनिक इनफैटरी, एम० सी० फोहार (आई० सी० 42170), आर्टिलरी, डी० एम० गिसोदिया (आई० सी०-42172), इनफैटरी, सत्यन्ध्र कुमार (आई० सी०-42175), ए० एम० सी०, सुखबीरसिंह गिल (आई० सी०-42176), इनफैटरी, एम० के० शर्मा, (आई० सी०-42177), मिगनल, एम० जीत सिंह तिवाना आई० सी०-42179), आर्टिलरी, अजय तोमर (आई० सी०-42182), इनफैटरी, रघुबीर सिंह (आई० सी०-42184), आर्टिलरी, आर० एम० यादव (आई० सी०-42185), ए० एम० सी० बार्ड० पी० एम० निधु (आई० सी०-42190), इनफैटरी, एम० एन० मत्यरथि (आई० सी०-42191), आर्टिलरी, यमबीर सिंह (आई० सी०-42196), इनफैटरी, बी० श्याम सुन्दर (आई० सी०-42199), मिगनल, धलवीन्दर सिंह (आई० सी०-42200), आर्टिलरी, एम० यमवामनी (आई० सी०-42201), इंजीनियर, मेखलबत 2-224GI/88

(आई० सी०-42202), इनफैटरी, एम० सी० मुन्दरम (आई० सी०-42205), आर्टिलरी, नरिन्द्र सिंह (आई० सी०-42206), इनफैटरी, एम० दत्त (आई० सी०-42207), ए० सी०, धर्मवीर सिंह (आई० सी०-4 2208), इनफैटरी, वी० एम० पाल (आई० सी०-42215) आर्टिलरी, जी० सी० गय (आई० सी०-42222) आर्टिलरी, चन्मधरराज (आई० सी०-42225), मिगनल, आर० के० भाटिया (आई० सी०-42229), इनफैटरी, ए० के० राय (आई० सी०-42231), ए० एम० सी०, डी० एस० बटियान (आई० सी०-42233), इनफैटरी, जी० आर० के० एन० सरीन (आई० सी०- 42235), इनफैटरी, मरेश कुमार शाना (आई० सी०-42238), आर्टिलरी 9 जून, 1986।

रोहित कपूर (आई० सी०-11915), इंजीनियर, के० जे० सिंह (आई० सी०-41917), इनफैटरी, रवि (आई० सी०-41918), आर्टिलरी, ए० एन० बेदर (आई० सी०-11920), इंजीनियर, डी० रविन्द्रा (आई० सी०-41921), आर्टिलरी, अर्जुनसिंह (आई० सी०-11922), आर्टिलरी, ए० मरन सिधारवाल (आई० सी०-41923), ए० एम० सी०, संजीव शोवर (आई० सी०-11924), आर्टिलरी, आनन्द एन० ठाकुर (आई० सी०-41925), इंजीनियर, ए० एष० चौहान (आई० सी०-41926-मकेनिक/ इनफैटरी, शिवेन्द्र सिंह (आई० सी०-41927), इनफैटरी, आर० एम० बहादूरिया (आई० सी०-41929), इनफैटरी, आर० के० सिंह (आई० सी०-41930), आर्टिलरी, डी० एम० गववार (आई० सी०-41931), इनफैटरी, एम० पी० गौश्वामी (आई० सी०-41934), आर्टिलरी, कुलदीप सिंह (आई० सी०-41936), इनफैटरी, एम० एम० यादव (आई० सी०-41937), आर्टिलरी, 9 जून, 1986।

एस० पी० एम० मल्होत्रा (आई० सी०-41892), इनफैटरी, पी० जी० पवार (आई० सी०-41893), इनफैटरी, एम० एम० धनकर (आई० सी०-41894), इनफैटरी, थोमस जोमफ (आई० सी०-41895), आर्टिलरी, राशिन्द्र डी० देसाई (आई० सी०-41896), इनफैटरी, बार्ड० के० चाहर (आई० सी०-41897), इनफैटरी, डी० एम० बमरा (आई० सी०-41898) आर्टिलरी, एम० एन० मुल्तानी (आई० सी०- 418996), इंजीनियर, मुनील सिंह (आई० सी०-41900), मकेनिक/इनफैटरी, राजीव भारद्वाज (आई० सी०-41902), इंजीनियर, एन० एन० सिंह (आई० सी०-41903), इनफैटरी, अमर जीत सिंह (आई० सी० 41904), ए० ओ० सी०-सुधीर बल्ल (आई० सी०-41908), ए० सी० एम० के० शर्मा, (आई० सी०-41910), ई०, एम० ई० टी० के० चावला (आई० सी०-41912) आरटीलरी, पी० आर० रघुवाड़े (आई० सी०-41913 ) इनफैटरी, श्रीराम बिधानोई (आई० सी०-41914) मिगनल- 9 जून, 1986।

सी० वी० मूर्ति (आई० सी०-42081) इंजीनियर, ए० एम० नूहेल, (आई० सी०-42083) इनफैटरी, अनिल राज (आई० सी०-42088 आरटीलरी, डी० के० एम० पाटिल (आई० सी० 42089) इंजीनियर, राजीव साहनी (आई० सी०-42091) इनफैटरी, मिमन वी० टी० (आई० सी० 42094) इनफैटरी, मोहन दाम के (आई० सी०-42095) इनफैटरी वी० वी० भावानी प्रसाद (आई० सी०-42099) मिगनल, आर० जी० आदीमार (आई० सी०-42102) इनफैटरी, आर० वी० विसी (आई० सी०-42103) इनफैटरी, वी० एम० हरचन्द (आई० सी०-42109, इनफैटरी, संजीव शाट्या (आई० सी०-42111), आर्टिलरी, आर० एम० गुला (आई० सी०-42112), इंजीनियर, सुरेन्द्र शर्मा, (आई० सी०-42113), इंजीनियर, एम० पी० गुसला (आई० सी०-42114), इंजीनियर, कुरियण ए० के० (आई० सी०-42116), इनफैटरी, सहाजी कुरियाचन (आई० सी०-42123), आर्टिलरी, जी० टी० कृष्णाजी (आई० सी०-42124), आर्टिलरी, डी० के० सासेन (आई० सी०-42126), आर्टिलरी, 9 जून, 1986।

ए० एन० सिंह (आई० सी०-421128), इनफैटरी, एन० एम० रामूलु (आई० सी०-42130), आर्टिलरी, जी० के० नायर वी० पी० आई०) सी०-42131), आर्टिलरी, (के० जे० एम० गय (आई० सी०-42133)

इनफैन्ट्री, एम० के० तिवारी (आई० सी०-42135), ए० सी०, एच० एन० वादन (आई० सी०-42137), ए० एम० सी० आर० एम० जर्मा, (आई० सी०-42139), ई० एम० ई०, बापू एम० (आई० सी०-42141), आर्टिलरी, आर० गोपालकृष्णन (आई० सी०-42142), इनफैन्ट्री, जे० पी० मिन्हा (आई० सी०-42144), आर्टिलरी, जानकी पंत (आई० सी०-42150), ई० एम० ई० देवा कुमार आर० एन० (आई० सी०-42155), इनफैन्ट्री, संजय कौशल (आई० सी०-42156), इनफैन्ट्री, आर० रवि नारायण (आई० सी०-42157), आर्टिलरी, ए० के० चौहान (आई० सी० 42159), ए० सी०, राधाकृष्णन, एम० (आई० सी०-42162), इनफैन्ट्री 9 जून, 1986।

पी० जी० राजेन्द्रन (एम० एल०-3314), पी० एम० जग्गी (एम० एल०-3315), परस राम (एम० एल०-3316), पूरन चन्द (एम० एल०-3317), एम० पी० अचम्बी (एम० एल०-3318), सी० ए० जीम (एम० एल०-3319), डी० एम० भारीक (एम० एल०-3320), साधू सिंह, (एम० एल०-3321), राम प्रताप (एम० एल०-3327), बी० एन० तिवारी (एम० एल०-3328), बलदेव सिंह (एम० एल० 3329), करतार सिंह (एम० एल०-3330), राजिन्द्र कुमार कटौच (एम० एल०-3331), रघुनाथ सिंह (एम० एल०-3332), शक्ति लाल (एम० एल०-3333), अतर सिंह (एम० एल०-3334), दिलबाग सिंह (एम० एल०-3335), एम० पी० सिंह (एम० एल०-3336), जोरज विधायक (एम० एल०-3337) कुलकर्णी सिंह (एम० एल०-3338), एम० भारत भूषणन (एम० एल०-3339), शंकर पिलई (एम० एल०-3340), एम० एम० भंडारी (एम० एल०-3341), एम० एम० आर० नामना (एम० एल०-3342), बी० एम० दिवारी (एम० एल०-3343), पी० के० शर्मा (एम० एल०-3344), तरलोक सिंह (एम० एल०-3345), के० गोपाल कृष्णन के० पी० (एम० एल०-3346), डी० एम० पानू (एम० एल०-3347)-10 जुलाई, 1987।  
डी० एच० परब  
ले० कर्नेल  
ए० एम० एल० 8

#### थल सेना विभाग

सं० 1379, दिनांक 9 अगस्त, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को अधिवर्ष आयु प्राप्त करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### स्थायी आयोग

ए० बी० एम० जे० बासुदेवन (15857) (एम० आर०-885) सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-31-7-87 (अपराह्न)।

एयर कमांडोर एम० ए० शलीम (4843) एम० आर०-978 (सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी० 30-9-86 (अपराह्न)।

वि० कमा० के० एन० धर (5559) (एम० आर०-2137 (सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी० 31-3-85 (अपराह्न)।

बिजय किशोर तिवारी,  
मेजर जनरल,  
उप म० नि० म० से० वि० से०

#### (सेमा मुख्यालय)

सं० 1380, दिनांक 4 जुलाई 1988—राष्ट्रपति ले० जे० दलजीत सिंह (आई० सी०) रिटायर्ड को दिनांक 31 जुलाई, 1987 (अपराह्न) में सेवा कोर के कर्नेल कमांडेंट के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

सं० 1381, दिनांक 4 जुलाई, 1988—राष्ट्रपति सहर्ष ले० जे० ए० एन० सिंह (आई० सी०) पी० बी० एम० एम० रिटायर्ड को दिनांक 31 दिसम्बर

1987 (अपराह्न) में सेना सेवा कोर से कर्नेल कमांडेंट के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

प्र० जी० सक्सेना,  
ए० एम० एम० (एम० ए०)

सं० 1382, दिनांक 5 अगस्त, 1988—जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी अपने नाम के सामने उल्लिखित सेवा से बंचित हो गया है :-

#### नियमित सेवा

#### स्थायी कमीशन

आई० सी०-43372 2 लेफ्टिनेंट एम० के० यादव, आर्टिलरी-पदोन्नति के लिये 6 महीने की सेवा से बंचित—14 दिसम्बर, 1987।

डी० एच० परब,  
ले० कर्नेल,  
ए० एम० एम० 8

#### सैनिक शाखा

सं० 1383, दिनांक 12 अगस्त, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

#### नियमित सेवा

निम्नलिखित को पांच वर्ष के लिये विशेष सैनिक अनुदेश 11 का 64 के अन्तर्गत 26 अगस्त 1982 से 2 लेफ्टिनेंट के पद पर (जो परखाधीन है) परखाधीन समय समाप्त होने पर उसी शिथिल से पुष्ट किया जाता है

सुधीर त्रिपाठी (एम० एल० 31433 आई०) ग्रामर्ब कोर निविष्टता अपेक्षता 2 लेफ्टिनेंट संजीव कुमार (एम० एल० 31261 पी०) इनफैन्ट्री जिस का नाम भारत के राजपत्र सं० 2019 दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 में प्रकाशित है।

ए० सी० जोशी,  
लेफ्टिनेंट कर्नेल,  
सहा० सेवा सचिव-8

सं० 1384, दिनांक 27 जुलाई, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की पदोन्नतियां करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

2 लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

विवेक सिंह यादव (एम० एल० 31318) इंजी०, जे० बी० सिंह एम० (एम० एल० 31320) इनफैन्ट्री, रविन्द्र बी० (एम० एल० 31333 ए० सी०, यनतानू घोष (एम० एल० 31334) इनफैन्ट्री, जोगिन्द्र सिंह (एम० एल० 31340) ए० सी०, परवेश हुसैन (एम० एल० 31344) मेक, इनफैन्ट्री, सुरेश कुमार के० सी० (एम० एल० 31349) ए० बी० सी०, एम० एल० दमबीर सिंह (एम० एल० 31371) इनफैन्ट्री, पी० के० महान्ति (एम० एल० 31377) सिंह, निगिल कुमार सिंह (एम० एल० 31379) इंजी०, प्रोम प्रकाश नारायण (एम० एल० 31392) इनफैन्ट्री, के० के० सूत्रधार (31394) इनफैन्ट्री, अनि मार्दकाल (एम० एल० 31395)

आर्टी, आर० पी० लायल (एस० एस० 31398) ए० सी०, रजनीश कुमार (एस० एस० 31405) इंजी०, विजोए कुमार नन्दी (एस० एस० 31418) आर्टी, अतूल चतुर्वेदी (एस० एस० 31419) वी० वी० रतनापाखी (एस० एस० 31420) आर्टी—12 मार्च, 1985।

एस० एस० प्रशाद सिंह (एस० एस० 31356) आर्टी—11 मार्च, 1985।

अनुराग श्रीवास्तव (एस० एस० 31438), इनफेंट, वीरेन्द्र मोहन (एस० एस० 31439) इनफेंट, रजिव कुमार (एस० एस० 31444) इनफेंट, सुबोध चन्द्र (एस० एस० 31446) इनफेंट, अनिल खन्ना, एस० एस० 31458) इंजी०, जी० पी० बसन्त (एस० एस० 31459) आर्टी, दीपक भण्डारी (एस० एस० 31479) इनफेंट, राकेश चौधरी (एस० एस० 31481) इनफेन्टी, प्रणव कुमार (एस० एस० 31482) इनफेन्टी, राघवन वी० ए० (एस० एस० 31493) ए० सी०, सुरत सिंह गिल (एस० एस० 31496) आर्टी, आर० के० भण्डारी, (एस० एस० 31501) सन्दीप कोहली (एस० एस० 315172) ए० ओ० सी०, चरणजीत सिंह, (एस० एस० 31519) आर्टी, आर० सी० शर्मा, (एस० एस० 31521) इनफेंट, संजीव कुमार (एस० एस० 31529) इनफेन्टी, राजीव प्रशाद (एस० एस० 31530) ई० एम० ई०, हरीन्द्र पाल सिंह (एस० एस० 31535) आर्टी, वाई० एस० पठानिया, (एस० एस० 31552) आर्टी, राजीव पवार, (एस० एस० 31554) मेक, इन्फेन्टी, उत्तपाल कुमार बुयान (एस० एस० 31555) इनफेन्टी, प्रकाश करम (एस० एस० 31556) इनफेन्टी, आई० एस० सहदेवा (एस० एस० 31557) इनफेंट, एच० एस० फगुरा (एस० एस० 31558) एम/इनफेंट, अमृत पाल सिंह गिल (एस० एस० 31560) ए० एस० सी०, ए० एन० सोनी (एस० एस० 31566) ए० सी०—27 अगस्त, 1985।

#### धल सेना विभाग

सं० 1385, दिनांक 29 जुलाई, 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार मेजर अभ्युनिशन तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर अभ्युनिशन तकनीशियन कुलवन्त सिंह देवाना (जे० सी०-64361 ए०)—01 अप्रैल, 1988।

पे/ए सूबेदार मेजर अभ्युनिशन तकनीशियन लक्ष्मण राम (जे० सी०-66463 पी०)—01 अप्रैल, 1988।

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक सामान्य कर्तव्य के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक सामान्य कर्तव्य श्याम बाबू सिंघल (जे० सी०-80595 ए०)—01 अप्रैल, 1988।

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक सामान्य कर्तव्य बंकिुर सिवानामी रेड्डी (जे० सी०-81705 के०)—01 अप्रैल, 1988।

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार प्रोविजन ओंकार सिंह (जे० सी०-73935 ए०)—01 अप्रैल, 1988।

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार प्रोविजन सत्यपाल (जे० सी०-73939 वाई०)—01 अप्रैल, 1988।

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार प्रोविजन दिवकरन पी० के० (जे० सी०-74953 एस०)—01 अप्रैल, 1988।

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार प्रोविजन नन्दन सिंह बिस्ट (जे० सी०-76582 वाई०)—01 अप्रैल, 1988।

पक्के सूबेदार मेजर स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर एस० के० टी० (जी० एस० एण्ड सी०) रूप नारायण चौध (जे० सी०-722120 ए०)—01 अप्रैल, 1988।

पे/ए सूबेदार मेजर एस० के० टी० (जी० एस० एण्ड सी०) याद राम शर्मा (जे० सी०-72227 के०)—01 अप्रैल, 1988।

पे/ए सूबेदार मेजर एस० के० टी० (एम० टी०) (भूपाल सिंह (जे० सी०-72229 पी०)—01 अप्रैल, 1988।

पक्के सूबेदार मेजर स्टोर हैण्ड स.म.न्य कर्तव्य के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर स्टोर हैण्ड स.म.न्य कर्तव्य गुरवचन सिंह (जे० सी०-81394 एफ०)—01 अप्रैल, 1988।

ए० एस० रवि,  
अवर सचिव

#### (धल सेना विभाग)

सं० 1386, दिनांक 9-8-1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### कोर आफ इंजीनियर्स

#### बंगाल इंजीनियर ग्रुप

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विजयपाल सिंह (जे० सी०-74640वाई), 1 फरवरी, 1988।

#### सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क सेवा सिंह (जे० सी०-79295 ए०), 1 अक्टूबर, 1987।

सूबेदार क्लर्क रामा शंकर पान्डेय (जे० सी०-681881 एफ) 1 अक्टूबर 1987।

सूबेदार क्लर्क बंसी राम शर्मा (जे० सी०-81848के), 1 अक्टूबर 1987।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भगवान लाल शाह (जे० सी०-130527-एक्स), 1 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार बिला लाल (जे० सी०-129715 ए०), 1 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार रामेश्वर प्रसाद (जे० सी०-132186 एक्स), 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-128347 एक्स), 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जे० सी०-128742 ए०), 1 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार चन्द्रपाल सिंह (जे० सी०-130536 ए०), 1 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार दिनेश कुमार शर्मा (जे० सी०-130545 एफ), 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार हर जिन्दर सिंह (जे० सी०-130544 वाई), 1 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार राज पाल (जे० सी०-132991 एफ) 1 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार मुनी चन्द (जे० सी०-128348 ए०), 1 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह ब्रिष्ठ (जे०सी०-128360 एफ), 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार मधुर सिंह (जे०सी०-128349 एच), 1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार राम दत्त (जे०सी०-130525 एन), 1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार राज सिंह (जे० सी०-128736 एक्स), 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जे०सी०-130532 के), 1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी०-130528 एफ), 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार राम लाल (जे० सी०-128744 डब्ल्यू), 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार एस०के० टी० प्रेम लाल (जे० सी०-121172 एक्स) 1 फरवरी, 1988।

#### सूबेदार सर्वे के रैंक में

नायब सूबेदार सर्वे चरनजीत सिंह (जे० सी०-98367एन), 1 दिसम्बर 1987।

नायब सूबेदार सर्वे जगदेव सिंह (जे० सी०-98370 एन), 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार सर्वे हरदेव सिंह (जे० सी०-100829 डब्ल्यू), 1 फरवरी, 1988।

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-74844 एल), 1 मार्च, 1988।

सूबेदार राम बिंयास सिंह (जे० सी०-74451 पी), 1 अप्रैल, 1988।

#### सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क आझाकार सिंह (जे० सी०-69125 एच), 1 फरवरी 1988।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पूरन सिंह नेगी (जे० सी०-130551 पी), 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार हरचन्द सिंह बरार (जे० सी०-128351 ए) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार नन्दा बल्लभ चाहाली (जे० सी० 128352 एच) 01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार मनेजर सिंह (जे० सी०-130533 एम) , 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार अजमेर सिंह गिल (जे० सी०-128353 एल), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-129718 एम), 1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार राम जी दास (जे० सी०-128354 एन), 1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जे० सी०-133399 बाई), 1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार मान सिंह (जे० सी०-128358 के), 1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार दीन दयाल सिंह (जे० सी०-130542 एन), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जे० सी०-128355 डब्ल्यू), 1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार राम खिलावन (जे० सी० -156695 पी), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार सूरत सिंह (जे० सी०-130535 बाई), 1 मार्च 1988।

#### सूबेदार एस० के० टी० के रैंक में

नायब सूबेदार एस०के०टी० चुनी लाल (जे० सी०-121136 एम), 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार एसकेटी मदन लाल शर्मा (जे० सी०-121171 पी), 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार एसकेटी सनातन नायक (जे० सी०-121193 एन), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार एसकेटी राम नरेश सिंह (जे० सी०-121137 पी), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार एसकेटी बचन सिंह साजवान (जे० सी०-121173ए), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार एस० के० टी० जीवन राम (जे० सी०-121176 एन), 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार एसकेटी इग्नस तिग्गा (जे० सी०-121140 पी), 1 अप्रैल, 1988।

#### सूबेदार सर्वे के रैंक में

नायब सूबेदार सर्वे जय सिंह मलिक (जे० सी०-100830 एल) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार सर्वे प्रताप सिंह (जे० सी०-100832 डब्ल्यू), 1 अप्रैल, 1988।

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भैरव दत्त (नं० 1401796 एक्स० अब जे० सी०-171463 एन), 14 अगस्त, 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर, 1985 से दी जाएगी)।

हवलदार लाल सिंह (नं० 1445697 पी अब जे० सी०-171464 डब्ल्यू), 12 अगस्त, 1987।%

हवलदार सुदर्शन राम (नं० 1401187 एन अब जे० सी०-171465 बाई), 24 अगस्त, 1987।%

हवलदार तरसेम सिंह (नं० 1440936 पी अब जे० सी०-171466 एफ), 8 सितम्बर, 1987।%

हवलदार नन्द किशोर सिंह (नं० 1440976 डब्ल्यू० अब जे० सी० 171467 के), 22 अगस्त, 1987।%

हवलदार राम नरेश प्राण्डेय (नं० 1441050 के अब जे० सी०-171468 एम), 5 सितम्बर, 1987।%

हवलदार रतन सिंह दोसद (नं० 1450562 एक्स० अब जे० सी०-171469 पी), 21 अगस्त, 1987।%

हवलदार हर लाल (नं० 1441812 एम० अब जे० सी०-171470 के), 27 अगस्त, 1987।%

हवलदार हरी किशन (नं० 1442095 डब्ल्यू० अब जे० सी०-171471 एम), 22 अगस्त, 1987।

हवलदार गुणेश्वर सिंह (नं० 1443333 के० अथ जे० सी०-171472पी), 18 अगस्त, 1987।

हवलदार भगत मिश्र नेगी (नं० 1441831 एफ० अथ जे० सी०-171473 एफ०), 12 अगस्त, 1987।

हवलदार श्रीम प्रकाश (नं० 1446812 डब्ल्यू० अथ जे० सी०-171474 ए), 23 अगस्त, 1987।

हवलदार लक्ष्मण सिंह (नं० 1401344 पी० अथ जे० सी०-171475 एच), 15 अगस्त, 1987।

हवलदार किशोर कुमार (नं० 1442473 के० अथ जे० सी०-171476 एल०), 8 अगस्त, 1987।

हवलदार शुभन चन्द (नं० 1445965 एन० अथ जे० सी०-171477 एन), 18 अगस्त, 1987।

हवलदार दया नन्द (नं० 1447053 एन० अथ जे० सी०-171478 डब्ल्यू०), 14 अगस्त, 1987।

हवलदार कनवर सिंह (नं० 1447596 ए० अथ जे० सी०-171479 वाई), 31 अगस्त, 1987।

हवलदार पुरुषोत्तम प्रसाद (नं० 1402333 पी० अथ जे० सी०-171480 एन), 9 अगस्त, 1987।

हवलदार जगदीश प्रसाद (नं० 1448381 एम० अथ जे० सी०-171481 डब्ल्यू०), 22 अगस्त, 1987।

हवलदार नारायण चन्द (नं० 1402503 एन० अथ जे० सी०-171482 वाई), 18 अगस्त, 1987।

हवलदार सिपाही प्रसाद सिंह (नं० 1448860 पी० अथ जे० सी०-171483 एफ), 17 अगस्त, 1987।

हवलदार परमा नन्द (नं० 1414941 वाई० अथ जे० सी०-171484 के), 22 अगस्त, 1987।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार मन्मथन सिंह (नं० 1449041 के अथ जे० सी०-171485 एम), 3 अक्टूबर, 1987।

हवलदार हुंजर सिंह (नं० 1449910 एफ अथ जे० सी०-171486 पी), 3 अक्टूबर, 1987।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कर्क (एस०) के रैंक में

हवलदार कर्क (एस) हरिदय नारायण सिंह (नं० 1441513 एन अथ जे० सी०-171487 एम), 21 अगस्त, 1987।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1987 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एम के टी के रैंक में

हवलदार एस के टी बन्त सिंह (नं० 1447876 एन अथ जे० सी०-171488 ए), 25 अगस्त, 1987।

हवलदार एस के टी नौरंग सिंह (नं० 1447820 एफ अथ जे० सी०-171489 एच), 26 अगस्त, 1987।

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (मर्चे) के रैंक में

हवलदार मर्चे जागीर सिंह (सं 1436327 एन अथ जे० सी०-171490 एम) -- 20 मई 1987।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 5 मई, 1987 से दी जाएगी)

हवलदार मर्चे दिलवाग सिंह (सं० 1447878 वाई अथ जे० सी०-171491 ए) -- 22 अगस्त, 1987।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1987 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अश्विनी कुमार (सं 1401873 एफ० अथ जे० सी०-171492 एच०) -- 19 अगस्त, 1987।

हवलदार बन्त सिंह (सं 1459006 एफ० अथ जे० सी०-171493 एन०) -- 3 अक्टूबर, 1987।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी)

हवलदार मुन्शी राम (सं 1402480 वाई अथ जे० सी०-171494 एन०) -- 12 जनवरी, 1988।

हवलदार योगेन्द्र नाथ सिंह (सं 1450301 के अथ जे० सी०-171495 डब्ल्यू०) -- 7 जनवरी, 1988।

हवलदार परमजीत सिंह (सं 1444579 पी अथ जे० सी०-171496 वाई०) -- 1 जनवरी, 1988।

हवलदार गिरीश चन्द्र जोशी (सं 1456556 एम अथ जे० सी०-171497 एफ०) -- 1 जनवरी, 1988।

हवलदार पारमन सिंह यादव (सं 1402272 एन अथ जे० सी०-171498 के) -- 4 जनवरी, 1988।

हवलदार सत नारायणन खानडा (सं 1447719 एफ अथ जे० सी०-171499 एम०) -- 31 अगस्त, 1987।

हवलदार दिनेश चन्द्र सोहानी (सं 1447980 एफ अथ जे० सी०-171500 डब्ल्यू०) -- 1 जनवरी, 1988।

हवलदार सल्लन सिंह (सं 1448793 पी अथ जे० सी०-171501 वाई०) -- 1 जनवरी, 1988।

हवलदार बलवन्त सिंह (सं 1445496 डब्ल्यू० अथ जे० सी०-171502 एफ०) -- 1 अगस्त, 1987।

हवलदार भूपाल सिंह दत्त (सं 1402146 वाई अथ जे० सी०-171503 के) -- 1 जनवरी, 1988।

हवलदार टीका सिंह (सं 1402196 एफ अथ जे० सी०-171504 एम०) -- 31 अगस्त, 1987।

हवलदार चन्दर बहादुर छेरी (सं 59339053 एन अथ जे० सी०-171505 पी०) -- 1 जनवरी, 1988।

हवलदार प्रीतम सिंह (नं 1447547 एम अथ जे० सी०-171506 एम), 28 अगस्त, 1987।

हवलदार राम पाल सिंह (नं 1448554 ए अथ जे० सी०-171507 ए), 31 अगस्त, 1987।

हवलदार जनार्दन सिंह (नं 1449079 एफ अथ जे० सी०-171508 एच), 2 जनवरी, 1988।

हवलदार हेम चन्द्र (नं 1449248 एम अथ जे० सी०-171509 एल), 1 जनवरी, 1988।

हवलदार भरत सिंह (नं 1449656 एच अथ जे० सी०-171510 ए), 4 जनवरी, 1988।

हवलदार बीर सिंह (नं 1449909 एम अथ जे० सी०-171511 एच), 2 जनवरी, 1988।

हवलदार हरी नारायण सिंह (नं 1449978 एच अथ जे० सी०-171512 एल), 7 जनवरी, 1988।

हवलदार महाबल सिंह (नं० 1459140 एन अग्र जे सी०-171-513 एन), 26 दिसम्बर, 1987।\*

हवलदार राम सिंह (नं० 1450141 पी) अग्र जे सी०-171514 डब्ल्यू), 1 जनवरी, 1988।\*

हवलदार दीप चन्द राम (नं० 1450188 ए अग्र जे० सी०-171515 बार्ड), 31 दिसम्बर, 1987।\*

हवलदार राम बिनोद सिंह (नं० 1450371 एन अग्र जे सी०-171516 एफ), 31 दिसम्बर, 1987।

हवलदार अमर नाथ (नं० 14504174 एकम अग्र जे सी०-171-517 के), 31 दिसम्बर, 1987।\*

हवलदार हेम सिंह (नं० 1450395 एम अग्र जे सी०-171518 एम), 26 दिसम्बर, 1987।\*

हवलदार भरवार सिंह भिष्ट (नं० 1450509 एम अग्र जे सी०-171519 पी), 1 जनवरी, 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार क्लर्क बलवन्त सिंह (नं० 1444838 एम अग्र जे सी०-171520 के), 6 जनवरी, 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार एसकेटी बलदेव सिंह (नं० 1448837 एन अग्र जे० सी०-171521 एम), 9 नवम्बर, 1987, ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार एसकेटी शिव बचन सिंह (नं० 1448155 डब्ल्यू अग्र जे सी०-171522 पी), 25 दिसम्बर, 1987 \*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार सर्वे चन्द्र सिंह गुगतयान (नं० 1447942 एन अग्र जे० सी०-171523 एक्स), 6 जनवरी, 1988।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार के रैंक

हवलदार बीरेन्द्र सिंह (नं० 1402165 एफ अग्र जे सी०-117-524 ए), 21 अक्टूबर, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार हरीदियाल सिंह गिल (नं० 1446851 पी अग्र जे सी०-171525 एन), 9 अक्टूबर, 1987।\*

हवलदार शुभल सिंह (नं० 1402517 एन अग्र जे सी०-171526 एन), 5 अक्टूबर, 1987।\*

हवलदार अजय बहादुर सिंह (नं० 1449823 एम अग्र जे सी०-171527 एन), 30 सितम्बर, 1987।\*

हवलदार अद्या प्रसाद सिंह (नं० 1450196 बार्ड अग्र जे सी०-171528 डब्ल्यू), 7 अक्टूबर, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार एम के टी के रैंक में

हवलदार एम के टी सत्या नारायण तिवारी (नं० 1447911 एन अग्र जे सी०-171529 बार्ड), 26 अक्टूबर, 1987।\*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार क्लर्क (एम०) के रैंक में

हवलदार क्लर्क (एम) राजेन्द्र सिंह रावन (नं० 147129 एन अग्र जे० सी०-171530 एन), 31 अक्टूबर, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, से दी जाएगी)।

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जी०डी०) रैंक में

सूबेदार दगडु होल (जे०सी०-74433 एम), 1 जुलाई, 1987।

सूबेदार अशफाक अहमद (जे सी०-76863 पी), 1 दिसम्बर, 1987।

सूबेदार सूरज सिंह (जे सी०-76415 एन), 1 जनवरी, 1988।

सूबेदार वत्ता राम भोपले (जे०सी०-76870 एम), 1 जनवरी, 1988।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी०) के रैंक में

सूबेदार वेणु गोपालन नायर (जे सी०-71557 डब्ल्यू) 1 दिसम्बर, 1987।

सूबेदार टी जे वेरकी (जे०सी०-45429 एफ), 1 जनवरी, 1988

सूबेदार हरी गोपाल सिंह (जे० सी०-67966 एम), 1 फरवरी, 1988।

सूबेदार बरनावर सिंह (जे सी०-64644 एफ), 1 फरवरी 1988।

सूबेदार पुष्पोत्तम माटू (जे०सी०-71450 एफ), 1 मार्च, 1988।

सूबेदार जी बरगेम (जे सी०-72627 डब्ल्यू), 1 मार्च, 1988।

सूबेदार लाल सिंह (जे सी०-72873 एफ), 1 मार्च, 1988।

सूबेदार मखन सिंह (जे० सी०-62699 ए), 1 दिसम्बर, 1987।

सूबेदार मदन मोहन (जे० सी०-64621 ए), 1 सितम्बर, 1987।

सूबेदार राजन टी० एम० (जे० सी०-72648 एम), 1 अप्रैल, 1988।

सूबेदार शान्ताराम शिन्दे (जे० सी०-74435 एक्स), 1 अप्रैल 1988।

सूबेदार सालबिन्दर सिंह सेहगल (जे० सी०-74436 ए), 1 मई, 1988।

सूबेदार वरवार सिंह कनवाल (जे० सी०-72882 एफ), 1 मई, 1988।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार राउजी घुले (जे० सी०-101551 एम), 1 अगस्त 1987।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल खान (जे० सी०-106173 एच), 1 नवम्बर, 1987।

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जे० सी० -121257 एम), 1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार कैलाश राय शर्मा (जे० सी०-121259 बार्ड) 1 मई 1988।

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जे० सी०-121260 एम) 01 मई 1988।

नायब सूबेदार उजागर सिंह (जे० सी०-121103 एफ), 1 मई 1988।

नायब सूबेदार गलकीप्रत सिंह (जे० सी०-122782 डब्ल्यू), 1 मई 1988।

नायब सूबेदार श्रीमती बोलावे (जे० सी०-116414 एफ) 1 मई 1988

नायब सूबेदार बाबू भोई (जे० सी०-106175 एन), 1 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार छबील बिगनोई (जे० सी०-106176 डब्ल्यू), 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार हरी पाटील (जे० सी०-121039 पी), 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार छोटेलाल शर्मा (जे० सी०-116412 ए), 1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार जोगिन्दर वाम (जे० सी०-116413 एच), 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार सुधाकर (जे० सी०-124297 ए), 1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-119780 ए), 1 मार्च 1988

नायब सूबेदार महानन्द रोहिह्ला (जे० सी०-121256 एन), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार अश्वतार सिंह (जे० सी०-121049 वाई), 1 मार्च 1988

नायब सूबेदार पाण्डु नलवाड़े (जे० सी०-121040 के), 1 मार्च 1988

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार अजीत सिंह (सं० 1564706 पी अथ जे० सी०-171-595 एफ), 25 अगस्त, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1987 से दी जाएगी)

हवलदार चन्द्रकांत सिंघे (सं० 1531297 एम० अथ जे० सी० 171596 के), 22 जुलाई, 1987।\*\*

हवलदार परशुराम पाण्डे (सं० 1564983 ए अथ जे० सी०-171-597 एम), 5 अगस्त, 1987।\*\*

हवलदार देवराज (सं० 1536334 वाई अथ जे० सी० 171598 पी), 31 अगस्त, 1987।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1987 से दी जाएगी)

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं० 1537766 ए अथ जे० सी० 171-599 एम), 6 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार मोहम्मद हबीश (सं० 1539694 ए अथ जे० सी०-171600 एफ), 20 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार सुन्दर (सं० 1536366 एफ अथ जे० सी० 171601 के), 20 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार मोहन सिंह (सं० 1565008 वाई अथ जे० सी० 171602 एम), 20 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार भुलवरन सिंह (सं० 1533427 एच० अथ जे० सी० 171603 पी), 24 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार बबन किरदस (सं० 1565137 वाई अथ जे० सी०-171604 एक्स), 24 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार सुब्रदेव सिंह (सं० 1564168 एम अथ जे० सी०-171-605 ए), 24 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार मलकीत सिंह (सं० 1530548 वाई अथ जे० सी०-171600 एच), 24 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार माम चन्द (सं० 1565128 एक्स अथ जे० सी०-171607 एल), 25 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार प्रकाश सिंह (सं० 1565597 ए अथ जे० सी०-171-608 एन), 27 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार चनन सिंह (सं० 1537668 ए अथ जे० सी०-171609 डब्ल्यू), 29 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार बजरंग लाल मीना (सं० 1539065 एच० अथ जे० सी० 171610 एच), 29 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार तरसेम सिंह (सं० 1533412 ए अथ जे० सी०-171611 एन), 31 अगस्त, 1987।\*\*\*

हवलदार रत्नजीत सिंह (सं० 1565016 एक्स अथ जे० सी०-171612 डब्ल्यू), 3 सितम्बर, 1987।\*\*\*

हवलदार अमर नाथ (सं० 1565274 वाई अथ जे० सी०-171613 वाई), 3 सितम्बर, 1987।\*\*\*

हवलदार अश्वतार सिंह (सं० 1537340 वाई अथ जे० सी०-171-614 एफ), 9 सितम्बर, 1987।\*\*\*

हवलदार प्रेम सिंह (सं० 1536179 एच अथ जे० सी० 171615-के), 9 सितम्बर, 1987।\*\*\*

हवलदार वगन्त येदा के (सं० 1535987 एन अथ जे० सी०-171616 एम), 9 सितम्बर, 1987।\*\*\*

हवलदार अजायब सिंह (सं० 1541158 डब्ल्यू अथ जे० सी०-171617 पी), 6 अक्टूबर, 1987।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1987 से दी जाएगी)

हवलदार तुकाराम पाटिल (सं० 1538164 वाई अथ जे० सी०-171618 एन), 24 अगस्त, 1987। :

हवलदार मुषतियार सिंह (सं० 1538691 ए अथ जे० सी०-171619 ए), 9 सितम्बर, 1987। :

: (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार नथाजी जाधव (सं० 1541736 ए अथ जे० सी०-171620 पी), 12 अक्टूबर, 1987।=

हवलदार देवी सिंह (सं० 1541185 ए अथ जे० सी०-171621 एम) 12 अक्टूबर, 1987।=

= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार कन्हैया प्रसाद पाण्डे (सं० 1530342 एफ अथ जे० सी०-171622 ए), 18 अगस्त, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार भजन सिंह (सं० 1531509 एम अथ जे० सी०-171623 एच), 29 अगस्त, 1987।\*\*

हवलदार परमेश्वर हीराटी (सं० 1531615 एम अथ जे० सी०-171-624 एल), 2 सितम्बर, 1987।\*\*

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं० 1531569 एफ अथ जे० सी०-171625 एन), 17 सितम्बर, 1987।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार रामा पति शर्मा (सं० 1531586 एफ अथ जे० सी०-171626 डब्ल्यू), 29 अगस्त, 1987।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उभेष्टता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

हवलदार सुधाकर पन्नासे (सं० 1538488 के अग्र जे० सी०-171627 वार्ड), 10 सितम्बर, 1987।\*

हवलदार ज्ञान शन्व (सं० 1539047 ए अग्र जे० सी०-171628 एफ), 26 सितम्बर, 1987।\*

हवलदार हाकम सिंह (सं० 1538749 एम अग्र जे० सी०-171629 के), 1 अक्टूबर, 1987।\*

हवलदार चरन सिंह (सं० 1539051 एव अग्र जे० सी०-171630 वार्ड), 1 अक्टूबर, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना उभेष्टता 25 जुलाई, 1987 से दी जाएगी)।

मन्नास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (जी० डी०) पेदिनीवि श्रीनिवासुलु नायडू (जे० सी०-72579 एफ०)--01 जनवरी 1988।

सूबेदार (जी० डी०) बोनि पापा राव (जे० सी०-72574 एव०)--01 जनवरी, 1988।

सूबेदार (जी० डी०) पी० एम० थोमस (जे० सी०-73369 एन०)--01 फरवरी, 1988।

सूबेदार (जी० डी०) एस० पी० पेरिय थमबे (जे० सी०-72892 एम०)--01 फरवरी, 1988।

सूबेदार (जी० डी०) टी० श्रीनिवासुलु (जे० सी०-72894 एन०)--01 मार्च 1988।

सूबेदार मेजर (एस० के० टी०) के रैंक में

सूबेदार (एस० के० टी०) उच्चन्तला नागेश्वर राव (जे० सी०-96619 डब्ल्यू०)--01 फरवरी, 1988।

सूबेदार (एम० के० टी०) पद्मनाभन नायर विजय नाथन नायर (जे० सी०-96627 पी०)--01 मार्च, 1988।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) मानिकम वेल्मुगन (जे० सी०-98627 ए०)--01 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) पेरियथम्बि बेकट रामन (जे० सी०-95780 वार्ड)--01 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) वन्निप्राह्ल संकरन मोहनकुमार (जे० सी०-96447 एम०)--01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) थुनुगुन्डला विथल नाथ (जे० सी०-98268 एन०)--01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) चिन्गन्डा थिम्मप्पा चेन्गप्पा (जे० सी०-96416 एम०)--01 मार्च, 1988।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी० डी०) होस्गुक्कन्हंडु वेकटेशा (जे० सी०-106872 एन०)--01 नवम्बर, 1987।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रोबर्ट जान (जे० सी०-108889 ए०) 01 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मन्जरपेट माथिन्नामनि दुराडशमी (जे० सी०-109347 एव०)--01 फरवरी, 1988।

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (जी० डी०) सी० लोगतथन (जे० सी०-73370 एव०)--01 अप्रैल, 1988।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) पारथि कल्पिल गोबिन्दन (जे० सी०-69166 एम०)--01 अप्रैल, 1988।

सूबेदार (क्लर्क) रामरत्न परमिन्दन (जे० सी०-69228 एफ०)--01 अप्रैल, 1988।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) के० भास्करन (जे० सी०-95165 एफ०)--01 नवम्बर, 1987।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मालेम्पाट्टि कृष्णमूर्थी (जे० सी०-964530 ए०)--01 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मारियामन राधा (जे० सी०-98269 एन०)--01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) परिगनाजि कुन्नाथ भास्करन (जे० सी०-96415 के०)--01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) वेन्नु गणपति (जे० सी०-96450 एम०)--01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) धुलिपाला बेंकट रामनय्या (जे० सी०-96426 डब्ल्यू०)--01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मिथरामा पिल्लै एम डी० (जे० सी०-99473 वार्ड०)--01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) गाडिल्लि नागमन (जे० सी०-98664 एफ०)--01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) दोराडस्वामी पद्मनाभन (जे० सी०-97198 एन०)--01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) तन्जुम्हा मूर्थी रामनिगम (जे० सी०-9720 ए०)--01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मुन्नेसन चन्द्रसेकरन (सं० 1357179 एम अग्र जे० सी०-171531 डब्ल्यू०), 1 मार्च, 1987।

हवलदार दोगार्दमामि विभवनाथन (सं० 1351680 एव अग्र जे० सी०-171532 वार्ड), 1 मई, 1987।

हवलदार गोविन्दराजु थन्मुगम (सं० 1350485 वार्ड अग्र जे० सी०-171533 एफ), 1 जुलाई, 1987।

हवलदार डेनियल अय कमलनाथन (सं० 1352076 के अग्र जे० सी०-171534 के), 30 जुलाई, 1987।\*

हवलदार रामा उम्पिकुपन कुरूप (सं० 1355192 एम अग्र जे० सी०-171535 एम), 5 सितम्बर, 1987।

हवलदार जेल्लक्केल वरधोम थोमस (सं० 1356927 एव अग्र जे० सी०-171536 पी), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार मरुत्तारायण श्रीरामसुन्दरन (सं० 1349472 पी अग्र जे० सी०-171537 एम), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार मुथु थन्नेय्वरन (सं० 1351703 वार्ड अग्र जे० सी०-171538 ए), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार कन्दगामि मुथुकृष्णन (सं० 1356549 पी अग्र जे० सी०-171539 एव), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार राजु नटगजन (सं० 1356044 वार्ड अग्र जे० सी०-171540 एम), 1 अगस्त, 1987।



हवलदार कुपुसामि शम्भाशरण (सं० 1357692 एन अथ जे० सी०-171541 ए), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार ए० पलनी (सं० 1358675ए अथ जे० सी०-171542 ए), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार के० राजामातिका (सं० 1359522 एथ अथ जे० सी०-171543 ए), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार चाको एन० वी० (सं० 1358509 एम अथ जे० सी०-171544 ए), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार पान्डूर पीडि नायडू (सं० 1352097 एम अथ जे० सी०-171545 डब्ल्यू), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार करीमुल्ला शैक (सं० 1352604 एन अथ जे० सी०-171546 वाई), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार धनपाल विजयन (सं० 1352049 ए अथ जे० सी०-171547 एफ), 1 अगस्त, 1987।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1987 से दी जाएगी।)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी।)

हवलदार मंगर नारायणन अर्जुनन (सं० 1357352 एन अथ जे० सी०-171548 के), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार कालधे अन्नमाले शिवप्रकाशम (सं० 1353525 ए अथ जे० सी०-171549 एम), 18 अगस्त, 1987%।

हवलदार धनपाल उमासुन्दरन (सं० 1354056 पी अथ जे० सी०-171550 एफ), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार विप्रामामी बालमुन्दरम (सं० 1353523 पी अथ जे० सी०-171551 के), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार महादेवा नायकर घेवराज (सं० 1353530 एल अथ जे० सी०-171552 एन), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार नारायणन कसन (सं० 1357044 एन अथ जे० सी०-171553 पी), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार हरीन्द्रन बोधयेल (सं० 1360742 एन अथ जे० सी०-171554 एम), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार मुक्केया रामासामि (सं० 1350303 ए अथ जे० सी०-171555 ए), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार एम० कजेवियर (सं० 1362487 डब्ल्यू अथ जे० सी०-171556 एन), 11 अगस्त, 1987।

हवलदार गज्जे पर्वथा लू (सं० 1357244 एफ अथ जे० सी०-171557 एन), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार मस्तान बालि (सं० 1357783 एम अथ जे० सी०-171558 एन), 20 अक्टूबर, 1987\*\*।

हवलदार थोट्टियल बालन (सं० 1354363 एम अथ जे० सी०-171559 डब्ल्यू), 2 अक्टूबर, 1987\*\*।

हवलदार बडलमुरि तासब्बाय (सं० 1354559 ए अथ जे० सी०-171560 एन), 1 सितम्बर, 1987।

हवलदार एम० मधियालकन (सं० 1359201 एन अथ जे० सी०-171561 एन), 1 सितम्बर, 1987।

हवलदार शैक कासीम (सं० 1344622 डब्ल्यू अथ जे० सी०-171562 डब्ल्यू), 8 सितम्बर, 1987\*\*।

हवलदार मवायन नटराजन (सं० 1350937 डब्ल्यू अथ जे० सी०-171563 वाई), 13 सितम्बर, 1987।

हवलदार गन्नाधरन मनि (सं० 1354088 के अथ जे० सी०-171564 एफ), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार जी अलगुमाले (सं० 1359091 ए अथ जे० सी०-171565 के), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार कसन बाधियप्पन (सं० 1357049 के अथ जे० सी०-171566 एम), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार रोनूर नारायणन मुनि वेन्कटप्पा (सं० 1351821 एम अथ जे० सी०-171567 पी), 1 अक्टूबर, 1987।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी।)

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी।)

हवलदार कनक एन्थोनी विन्सेन्ट थॉमस मैकेल जेवियर (सं० 1348288 एम अथ जे० सी०-171568 एम), 1 जुलाई, 1987।

हवलदार कलक स्वामिनाथन आरोगियवास (सं० 1350401 ए अथ जे० सी०-171569 ए), 1 जुलाई, 1987\*।

हवलदार कनक कुनहकसन कुट्टिपुराय (सं० 1350664 वाई अथ जे० सी०-171570 पी), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार कलक अकलार्णि बोमप्प रामलिंगप्पा (सं० 1350671 पी अथ जे० सी०-171571 एम), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार कनक पारक्काट थमुदेवन (सं० 1350745 वाई अथ जे० सी०-171572 ए), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार कलक गन्नाधरन पिन्नी अप्पुकुट्टन नायर (सं० 1347308 एम अथ जे० सी०-171573 एन), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार कलक अतिसयिन मुब्बया (सं० 1347522 डब्ल्यू अथ जे० सी०-171574 एन), 1 नवम्बर, 1987।

हवलदार कलक पुलियमकोट्टन चेम्मारन रामकृष्णन (सं० 1350578 एन अथ जे० सी०-171575 एन), 16 नवम्बर, 1987%।

हवलदार कलक थयकप्पन वी० (सं० 1347347 एम अथ जे० सी०-171576 डब्ल्यू), 3 नवम्बर, 1987%।

हवलदार कलक पापचेम के० वी० (सं० 1347655 एम अथ जे० सी०-171577 वाई), 3 नवम्बर, 1987%।

हवलदार कलक मुथुसामि साल्तागम (सं० 1357101 एफ अथ जे० सी०-171578 एफ), 1 नवम्बर, 1987।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जन, 1987 से दी जाएगी।)

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी।)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1987 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार एस०के०टी० उशिकृष्णन मन्केथयिल (सं० 1350851 एम अथ जे० सी०-171579 के), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार एस०के०टी० रामासिथम गोविनाथ (सं० 1350902 एम अथ जे० सी०-171580 वाई), 23 अक्टूबर, 1987×।

हवलदार कृष्णन थन्कप्पन (सं० 1351204 के अथ जे० सी०-171581 एफ), 1 नवम्बर, 1987।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1987 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार (कनक) के रैंक में

हवलदार/कलक गड्डापति लिन्गया (सं० 1342530 एन अथ जे० सी०-171582 के), 1 जुलाई, 1987।

हवलदार/क्लर्क बाली बेल् दिवाकरन (सं० 1347643 एफस अफ जे० सी०-171583 एम), 7 अक्टूबर, 1987\*।

हवलदार/क्लर्क पेरियाममि दुराईपानड्या (सं० 1350686 एल अफ जे० सी०-171584 पी), 1 अगस्त, 1987।

हवलदार/क्लर्क नारायणन नायर राजसेखरन नायर (सं० 1350259 एफ अफ जे० सी०-171585 एफस), 1 सितम्बर, 1987।

हवलदार/क्लर्क मुरदान पालककाल गोपालन मुरलीधरन पिल्लै (सं० 1350363 पी अफ जे० सी०-171586 ए), 12 सितम्बर, 1987।

हवलदार/ननक गुन्डा जगन्नाथम (सं० 1347649 वाई अफ जे० सी०-171587 एफ), 20 सितम्बर, 1987<sup>1/2</sup>।

हवलदार/क्लर्क दुराईमामि थन्यराजु (सं० 1347105 के अफ जे० सी०-171588 एल), 15 सितम्बर, 1987।

हवलदार/क्लर्क शिबकुलानड गोविन्दरज (सं० 1350384 एल अफ जे० सी०-171589 एन), 15 सितम्बर, 1987।

हवलदार/क्लर्क सुब्बा रेड्डियायन पेडभाल (सं० 1350376 एम अफ जे० सी०-171590 एच), 15 सितम्बर, 1987।

हवलदार/क्लर्क कलिदकाल गोपाल पिल्लै मनियन्टन नायर (सं० 1350591 एनम अफ जे० सी०-171591 एल), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार/क्लर्क नारायणन एबाजेरी (सं० 1350605 एम अफ जे० सी०-171592 एन), 1 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार (एस०के०टी०) के रैंक में

हवलदार/एस०के०टी० पुष्पाम्बन पुयान कीटिटल (सं० 1349973 पी अफ जे० सी०-171593 डब्ल्यू), 1 सितम्बर, 1987।

हवलदार/एस०के०टी० चिन्नामनि चन्नन (सं० 1350467 डब्ल्यू अफ जे० सी०-171594 वाई), 1 अक्टूबर, 1987।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1987 से दी जाएगी।)

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी।)

एम० ई० एम० मिलिट्री केडर

(सूबेदार सेजर के रैंक में)

सूबेदार सुरेश चन्द्र शर्मा (जे० सी०-51861 वाई), 1 नवम्बर, 1987।

सूबेदार सत्य पास शर्मा (जे० सी०-31467 एम), 01 नवम्बर 1987।

सूबेदार श्री० के० नारायणन सेट्टी (जे० सी०-42585 ए), 01 नवम्बर 1987।

सूबेदार कृष्ण कुमार खली (जे० सी०-48821 एम), 01 नवम्बर 1987।

सूबेदार शोक मोदिन माहेब (जे० सी०-49370 के), 01 नवम्बर 1987।

सूबेदार श्रीनिवासा मुरथी (जे० सी०-54101 एफ), 01 नवम्बर 1987।

सूबेदार इकबाल मोहम्मद (जे० सी०-82275 एफस), 01 नवम्बर 1987।

सूबेदार जैम्स चेरियन (जे० सी०-81481 पी), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार मसिलामनी कोयलपिन्नाय (जे० सी०-54084 एम) 01 दिसम्बर 1987।

सूबेदार सन्ध्याह् मथुरामालिगम (जे० सी०-65407 के), 01 दिसम्बर 1987।

सूबेदार नरिडग श्रीनिवासा राव नगेन्द्रा राव (जे० सी०-54155 एच), 01 जनवरी 1988।

सूबेदार बालागोपालन पुलापेट्टा मडथिल (जे० सी०-54156 एल), 01 जनवरी 1988।

सूबेदार नारायणन चिक्कान्डय (जे० सी०-70500 पी), 01 जनवरी 1988।

सूबेदार मधसूदन मिह (जे० सी०-77571 वाई), 01 जनवरी 1988।

सूबेदार परमिन्दर मिह हट्टर (जे० सी०-79287 एफ), 01 जनवरी 1988।

(सूबेदार के रैंक में)

नायब सूबेदार माधन मिह (जे० सी०-95482 एच), 01 अगस्त 1987।

नायब सूबेदार मेजबान मिह (जे० सी०-99419 एल), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार मोदिन्दर मिह (जे० सी०-99489 के), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार मुभाष चन्द्र कपूर (जे० सी०-51416 ए), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार अशुथन पिल्लै गोपाला पिल्लै (जे० सी०-65644 एन), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार माराग्गाडय राजागोपालन (जे० सी०-65820 ए), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार नन्जुन्डा स्वामी (जे० सी०-66348 पी), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार थक्कारा कोट्टुंगल पदमाताभन (जे० सी०-67347 पी), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार पिला नन्जा रंगन (जे० सी०-70052 एन), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार कनक्कासेरी रमन कुट्टी भाराथन (जे० सी०-70053 डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार बी० एम० नारायणन नमसूथिरी (जे० सी०-71487 एच), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार अन्ना राव (जे० सी०-73140 पी), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार कन्नात बेल् उन्नी (जे० सी०-79251 एच), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार कोणू कुट्टी पण्नाचन (जे० सी०-85532 पी), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार पुनियामुथु जोहन्सन (जे० सी०-89071 एन), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार जी० वरुधीम (जे० सी०-94152 एफस), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जे० सी०-93676 एम), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार अशुल अजीज एन० (जे० सी०-123940 एम), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार यडावल्ली श्रीरामा नीलाखान्ता शास्त्री (जे० सी०-92695 एल), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार विजय बहादुर सिंह (जे० सी०-92696 एन), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार चरन दाम फुल्ल (जे० सी०-95496 एच), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार नगयन सिंह (जे० सी०-93683 एच), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार बासवानप्पा गोडर (जे० सी०-122914 वाई), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी०-123941 पी), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश रावत (जे० सी०-121240 ए), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार हरचरण सिंह (जे० सी०-122918 पी), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जे० सी०-121212 एन), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार मेहन्गा सिंह (जे० सी०-121217 एम), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-86977 एन) 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-57830 पी), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार सीरथ राम (जे० सी०-54383 एक्स), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी०-59048 एल), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-64944 एच), 01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार रत्नास्वामी शिवाप्पान (जे० सी०-123936 के), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार मधु माल्लाय्या माडीवधाय्या (जे० सी०-65620 के), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार पोपट सालून्बे (जे० सी०-86628 के), 10 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार देवीसिंह (जे० सी०-86712 के), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र शर्मा (जे० सी०-86622 एच), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार त्रिभुवन नाथ उपाध्याय (जे० सी०-86664 पी), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-86737 डब्ल्यू), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार नागाराजन (जे० सी०-86395 एन), 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार ऋषि कुमार (जे० सी०-64951 वाई), 01 जनवरी 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में)

हवलदार राम कृष्णा (1449968 वाई अथ जे० सी०-171453 के), 15 सितम्बर 1987।\*

हवलदार के० कलियाप्पन (1360656 एन अथ जे० सी०-171454 एम), 19 सितम्बर, 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून, 1987 से दी जायेगी)

हवलदार बग्गा सिंह (1440629 एक्स अथ जे० सी०-171455 पी), 11 अगस्त 1987।\*\*

हवलदार बलदेव सिंह (1441686 एल अथ जे० सी०-171456 एक्स), 19 सितम्बर 1987।\*\*

हवलदार राम रतन (1448342 पी० अथ जे० सी०-171457 ए), 21 सितम्बर 1987।\*\*

हवलदार नेयाला वामोवरा (1349416 डब्ल्यू अथ जे० सी०-171458 एच), 19 सितम्बर 1987।\*\*

हवलदार नसीमुद्दीन खान (1531649 वाई अथ जे० सी०-171459 एल), 11 सितम्बर 1987।\*\*

हवलदार शंकर दाम (153269 डब्ल्यू अथ जे० सी०-171460 ए), 04 सितम्बर, 1987।\*\*

हवलदार गुलजार राम (1531284 पी अथ जे० सी०-171461 एच), 17 सितम्बर, 1987।\*\*

हवलदार बालकृष्ण शर्मा (1535959 एफ अथ जे० सी०-171462 एल), 12 अगस्त 1987।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 1987 से दी जायेगी।)

हरीश चन्द्रा, अवर सचिव

(स्थल सेना विभाग)

सं० 1387, दिनांक 9 अगस्त, 1988--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

नियमित सेना

कोर ग्राफ सिग्नल्स

सूबेदार (जी डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार राम नारायण (जे० सी०-141180 एक्स), 1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार भानू गोपाल पटनायक (जे० सी०-141200 ए), 1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार विभवनाथ सिंह (जे० सी०-141201 एच), 1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-146087 ए), 1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार कुलदीप राय (जे० सी०-141202 एल), 1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे० सी०-104637 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार मदन सिंह (जे० सी०-125549 एन०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद (जे० सी०-135308 एफ०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह गिल (जे० सी०-137333 वाई०)--2 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अनन्दा तोमाके (जे० सी०-140273 ए०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सोमा लाल चौधरी (जे० सी०-135384 एन०)--1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-140294 डब्ल्यू०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार महान्दर सिंह यादव (जे० सी०-141171 डब्ल्यू०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार धामस बाई० (जे० सी०-140297 के०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-141185 डब्ल्यू०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार कुमारन एजुयु पिल्लस (जे० सी०-141187 एफ०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम निवान वर्मा (जे० सी०-146074 एच०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार जसबन्त सिंह (जे० सी०-141194 एफ०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जे० सी०-146088 एच०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार मयनारायण सिंह (जे० सी०-146091 एच०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अरनस्ट नामू (जे० सी०-146092 एल०)--1 अप्रैल  
1988।

नायब सूबेदार राम अवतार (जे० सी०-146093 एन०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार सूर्य प्रसाद पाठक (जे० सी०-146094 डब्ल्यू०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जे० सी०-146095 बाई०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अजीत राम शर्मा (जे० सी०-146096 एफ०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार हरीश चन्द्रा सिंह (जे० सी०-146097 के०)--01  
अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार लाहारी शौके (जे० सी०-146101 एफ०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार गोपीनाथन नायर पी० एन० (जे० सी०-150114  
डब्ल्यू०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम स्वरूप बाना (जे० सी०-146102 के०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम वाम (जे० सी०-150115 बाई०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार बंशीधर मीना (जे० सी०-146103 एम०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार हरशरत लाल शर्मा (जे० सी०-146104 पी०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मुगुत राम जाधव (जे० सी०-146106 ए०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-150116 एफ०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार शत्रुघन प्रसाद चौधरी (जे० सी०-146108 एल०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बृज लाल कटवाल (जे० सी०-146109 एन०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राधाकृष्णा विपक्कर्मा (जे० सी०-146110 डब्ल्यू०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम कबर (जे० सी०-150117 के०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार राधे श्याम चतुर्वेदी (जे० सी०-146111 एल०)--  
1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार शाम प्रकाश (जे० सी०-146112 एन०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-146114 बाई०)--1 अप्रैल  
1988।

नायब सूबेदार धर्म पाल सिंह (जे० सी०-146115 एफ०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार संगत सिंह शान (जे० सी०-150118 एम०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार जनक राज मारकन्डा (जे० सी०-146117 के०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार माता बान (जे० सी०-146117 एम०)--2 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार कुगलूर आरमुथा मदालीयर मनीअप्पन (जे० सी०-  
146119 एम०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम प्रताप कामला (जे० सी०-146120 एम०)--  
1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार शंकर लाल शाहा (जे० सी०-146121 पी०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार प्रयाग दत्त जोशी (जे० सी०-146123 ए०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सुलखन सिंह (जे० सी०-146124 एच०) 1 अप्रैल  
1988।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-146125 एल०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार रतिन्द्र कुमार छे (जे० सी०-150120 के०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार शान चन्द बनिहाल (जे० सी०-146127 डब्ल्यू०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मलकीयत सिंह वर्मा (जे० सी०-150122 पी०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार कुपाल सिंह (जे० सी०-146128 बाई०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार मुनि राज त्यागी (जे० सी०-146129 एफ०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बीर सिंह (जे० सी०-146131 बाई०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार जय राम जाधव (जे० सी०-150123 एम०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मंगेश शील (जे० सी०-150124 ए०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार गोपाल नाथ राय (जे० सी०-150126 एल०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार दलीप सिंह वर्मा (जे० सी०-150128 डब्ल्यू०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार इतवन्त सिंह (जे० सी०-150229 वार्ड०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अतर सिंह ठाकुर (जे० सी०-146132 एफ०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार आनन्द प्रकाश (जे० सी०-146134 एम०)--1  
मई, 1988।

नायब सूबेदार सुन्दर सिंह (जे० सी०-150131 डब्ल्यू०)--1  
मई, 1988।

नायब सूबेदार धन्ना लाल (जे० सी०-146135 पी०)--1 मई,  
1988।

नायब सूबेदार राम चन्द्रिका जपाध्याय (जे० सी०-150132 वार्ड०)  
1 मई, 1988।

नायब सूबेदार प्रयो कुमार सिंह (जे० सी०-146137 ए०)--1  
मई, 1988।

नायब सूबेदार गिन्दर गिह (जे० सी०-146139 एल०)--1 मई,  
1988।

नायब सूबेदार राम कुमार यादवा (जे० सी०-150134 के०)--  
1 मई, 1988।

नायब सूबेदार देवी सिंह (जे० सी०-146140 ए०)--1 मई,  
1988।

नायब सूबेदार वामुदेवन सी सी (जे० सी०-150135 एम०)--1  
मई, 1988।

नायब सूबेदार किशन सिंह (जे० सी०-150136 पी०)--1 मई,  
1988।

नायब सूबेदार शिव मूर्ति मिश्रा (जे० सी०-146141 एफ०)--1  
मई, 1988।

नायब सूबेदार प्यारा लाल (जे० सी०-146142 एल०)--1 जून,  
1988।

नायब सूबेदार माहिनन्दर सिंह (जे० सी०-150139 एच०)--1  
जून 1988।

नायब सूबेदार दलबीर सिंह वर्मा (जे० सी०-146143 एन०)--  
1 जून, 1988।

नायब सूबेदार काजार बीटिल पद्मामनन (जे० सी०-150141  
ए०)--1 जून, 1988।

नायब सूबेदार मिंगन आरुमगम (जे० सी०-146144 डब्ल्यू०)--  
1 जून, 1988।

नायब सूबेदार ब्रजन्त सिंह (जे० सी०-150142 एच०)--1 जून,  
1988।

नायब सूबेदार अब्राहम टी० ए० (जे० सी०-146145 वार्ड०)--1  
जून, 1988।

नायब सूबेदार महानन्द तिवारी (जे० सी०-146146 ए०)--1  
जून, 1988।

नायब सूबेदार रमेश चन्दर (जे० सी०-146147 के०)--1 जून,  
1988।

नायब सूबेदार रमेश राम (जे० सी०-146148 एम०)--1 जून,  
1988।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद यादवा (जे० सी०-150143 एल०)  
1 जून, 1988।

नायब सूबेदार हरबंश सिंह (जे० सी०-146149 पी०)--1 जून,  
1988।

#### सूबेदार (ओ० पी० स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार सखें सिंह (जे० सी०-133206 एम०)--1 फरवरी,  
1988।

नायब सूबेदार जी० मुणल रेड्डी (जे० सी०-133207 पी०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राजा राम शर्मा (जे० सी०-133208 एफ०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार येलायुधन पिल्ले विजय चन्द्र कुमार (जे० सी०-  
133209 ए०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मुगरी प्रसाद श्रीवास्तवा (जे० सी०-133210 पी०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार प्रेम दाग (जे० सी०-133563 पी०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार राम प्रकाश शर्मा (जे० सी०-133213 एच०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार शंख इस्माइल (जे० सी०-135234 एफ०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सुभाष चन्दर (जे० सी०-133214 एल०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-129985 एच०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार भूगिन्दर पाल (जे० सी०-133217 वार्ड०)--1 अप्रैल  
1988।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जे० सी०-133218 एफ०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार वड्डके कुमीनमेल रामचन्द्रन (जे० सी०-133220  
वार्ड०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार रतन चन्द (जे० सी०-133221 एफ०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार हरी सिंह यादवा (जे० सी०-133222 के०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार उन्म चन्द (जे० सी०-133223 एम०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार गोपाला पिल्ले जगन्नाथन नायर (जे० सी०-133224  
पी०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार प्रमोद नन्द मिश्रा (जे० सी०-135387 एन०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार वमन्त गिनदे (जे० सी०-133225 एफ०)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार थालाकृष्णन पिल्ले के० जी० (जे० सी०-133226  
ए०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार रामस्वरथ साह मुर्धाशु (जे० सी०-133227 एच०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम प्रमोद झा (जे० सी०-133229 एम०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार खण्डागने भानुदाम (जे० सी०-133564 एफ०)--  
1 अप्रैल, 1988।

#### सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार कुन्दन लाल (जे० सी०-125936 एच०)--1  
फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार अकरण शर्मा (जे० सी०-117893 के०)-- 1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जे० सी०-117894 एम०)--1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार पान सिंह (जे० सी०-117895 पी०)--1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार नारायणन महदेवन (जे० सी०-118043 एम०)-- 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार के० प्रकाशन (जे० सी०-117896 एक्स०)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार थोमस फिलीपोस (जे० सी०-118044 पी०)-- 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह खोंगीया (जे० सी०-122001 एक्स०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार नरेश प्रसाद शर्मा (जे० सी०-117898 एच०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार के० के० उषीकृष्णन नायर (जे० सी०-117899 एल०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सकल दीप राय (जे० सी०-117900 पी०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार करुणाकरन हरानकथील (जे० सी०-117902 ए०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मोती लाल (जे० सी०-122002 ए०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मथार्थ अब्रहाम (जे० सी०-122005 एन०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम रतन लाल (जे० सी०-125600 एच०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-125937 एल०)--1 अप्रैल, 1988।

सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार मारी नुधु नांगप्पन (जे० सी०-137324 एक्स०)-- 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार महादेव सिंह (जे० सी०-135377 एक्स०)--1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार के० भास्करन नायर (जे० सी०-137325 ए०)-- 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जे० सी०-137326 एच०)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार बालेश्वर (जे० सी०-135379 एच०)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार मोहन चन्द्र जोशी (जे० सी०-135380 एक्स०)-- 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार राम लाल (जे० सी०-135381 ए०)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार वी० एम० परमेश्वरन पिल्ले (जे० सी०-137327 एल०)--1 अप्रैल, 1987।

नायब सूबेदार रायचन्द्रन के० (जे० सी०-137328 एन०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जे० सी०-137329 डब्ल्यू०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार गेन्दा सिंह (जे० सी०-137331 एन०)--1 मई, 1988।

सूबेदार (ओ० पी० साइफर०) के रैंक में

नायब सूबेदार मुखदेव प्रसाद यादव (जे० सी०-104664 ए०)-- 1 अप्रैल 1987।

नायब सूबेदार राम कुमार सैनी (जे० सी०-113583 एफ०)-- 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार वी० आर० दामोदरा कुशुप (जे० सी०-113584 के०)-- 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-113586 एफ०)--1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार हबा सिंह (जे० सी०-113589 एच०)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार फिलिप पी० एम० (जे० सी०-116031 आई०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार धीलोकी सहाय रस्तोगी (जे० सी०-113591 ए०) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बालाकृष्ण खिवेदी (जे० सी०-113592 एच०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार थोमस वी० जे० (जे० सी०-113593 एल०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार रामी चन्द (जे० सी०-116032 एफ०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बनारसी दास शर्मा (जे० सी०-113696 आई०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार इलम सिंह (जे० सी०-116033 के०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सुनील बल्लभ भारद्वाज (जे० सी०-1116034 एम०) --1 अप्रैल 1988

नायब सूबेदार किलाब सिंह गरोह (जे० सी०-113599 एम०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार रामा स्वामी मानिकम (जे० सी०-113600 डब्ल्यू०) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार आर० रेंगा स्वामी (जे० सी०-118046 ए०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार भवन चन्द जोशी (जे० सी०-118047 एच०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बेंकल कलामेदी गोवर्धन (जे० सी०-117647 पी०) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार विवाकर वत्त (जे० सी०-126759 ए०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बिजयमान सिंह (जे० सी०-7412० एन०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जे० सी०-98005 एम०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार शिव दत्त मिश्र ((जे० सी०-113531 एल०)-- 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार धम्भान पद्मनार्थन कुटप्पन (जे० सी०-113590 एक्स०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार केशव चन्द्र पाल (जे० सी०-125901 एम०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार विमल चन्द्र सिंह (जे० सी०-117848 एक्स)--  
1 मई, 1988।

नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जे० सी०-118048 ए)--1 मई,  
1988।

सूबेदार (ओ० पी० साहफर) के रैंक में

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जे० सी०-113546 एम०)--1  
अप्रैल, 1987।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-121961 के)--1 अप्रैल,  
1987।

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जे० सी०-135334 एम)--1  
जगस, 1987।

नायब सूबेदार देव दस (जे० सी०-140278 वार्ड०)--1 अक्टूबर,  
1987।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह कुशवाहा (जे० सी०-140308 एल)  
1 दिसम्बर, 1987।

नायब सूबेदार कुंज पणिककन रमेयन (जे० सी०-140309 एन)  
1 दिसम्बर, 1987।

नायब सूबेदार हरी चन्द (जे० सी०-140310 एम)--1 दिसम्बर,  
1987।

नायब सूबेदार तिलक राज (जे० सी०-140320 एम)--1 जनवरी  
1988।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार रमाकान्त शास्त्री (जे० सी०-117889 एफ)--  
1 जनवरी, 1988।

सूबेदार (वार्ड० आफ एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार लालन प्रसाद सिंह (जे० सी०-113490 एम)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार पर्मा राम पठनिया (जे० सी०-113491 पी)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जे० सी०-116019 एक्स)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राबैल सिंह (जे० सी०-113492 एक्स)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार भिस्त्रिमा मुन्दरा गणेशन (जे० सी०-113493 ए)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राजेन्द्रा प्रसाद यादवा (जे० सी०-113494 एम०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जे० सी०-113495 एम)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सैतुद्दीन एम० (जे० सी०-118083 ए)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मुब्बा नायकर टुरे मामी (जे० सी०-118084  
डब्ल्यू०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार कृष्ण देव कुमार सिंह (जे० सी०-118085 वार्ड०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार कुशल सिंह (जे० सी०-118086 एफ०)--1 अप्रैल  
1988।

नायब सूबेदार ज्ञान चन्व बर्मा (जे० सी०-118087 के)--1 अप्रैल  
1988।

नायब सूबेदार ईशार दास (जे० सी०-117957 के)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार जयपाल सिंह रायवा (जे० सी०-117958 एम)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सुजीत सिंह गन्ना (जे० सी०-118088 एम)--  
1 अप्रैल, 1988।

सूबेदार (एफ० आफ एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार गजराज दौगामी (जे० सी०-98023 पी)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार साधू राम (जे० सी०-118074 एम०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार हरचन्द सिंह मन्दार (जे० सी०-126875 एम)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार पून चन्द्रा महापात्रा (जे० सी०-126907 ए)--  
1 अप्रैल, 1987।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जे० सी०-126908 एम०)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार देवेन्द्रा सिंह (जे० सी०-126909 एल)-- 1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जे० सी०-126911 एम)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार शामाराव वेणार्ड (जे० सी०-126912 एल)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार केदार नाथ गुप्ता (जे० सी०-126914 डब्ल्यू०)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बडमोला (जे० सी०-126916 एफ)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार वर्गिस काटुपरम्भिल जोसफ (जे० सी०-126910  
ए)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बसीटा राम (जे० सी०-129956 एन)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह (जे० सी०-129957 एन)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार सकपाल लक्ष्मण गनपत (जे० सी०-129959 एफ०)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार देवेन्द्र नाथ धर बुधे (जे० सी०-133110 के)--1  
अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार खड्ग विनायक पांडुरंग (जे० सी०-129961 वार्ड०)--  
1 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार आर० गुरुस्वामी (जे० सी०-133111 एम)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार कमल सिंह (जे० सी०-135215 एम)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जे० सी०-129962 एफ)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार लाम्भर सिंह (जे० सी०-133113 एक्स)--1 अप्रैल,  
1988।

नायब सूबेदार रमेश कुमार दासबाल (जे० सी०-133114 ए)--  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार रामन पेन्माल स्वामी (जे० सी०-129963 के)--  
1 मई, 1988।

नायब सूबेदार (आई० आर० एम०) के रैंक में

हवलदार प्रभु राम (ग० 14281756 ए० अब जे० सी०)---  
13 दिसम्बर, 1987।

हवलदार हीरा लाल नाह (ग० 14285682 ए० अब जे०  
सी०)---5 फरवरी, 1988।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार हुली चन्द माधव (सं० 14216947 आई० अब जे० सी०)  
1 फरवरी, 1988।XX

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)

हवलदार किना रोसेआह मुरुकुला (सं० 14215101 ए० अब  
जे० सी०)---5 जनवरी, 1988।XXX

XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार कमला प्रसाद शर्मा (सं० 14217393 ए० अब जे० सी०)  
---18 जनवरी, 1988।XXXX

XXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (एफ० आर० एम०) के रैंक में

हवलदार अमर सिंह (सं० 14291979 ए० अब जे० सी०)  
---12 फरवरी, 1988।XXXXX

XXXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार रमेश चन्द लालोत्रा (सं० 14280814 के० अब जे० सी०)  
---11 जनवरी, 1988।=

= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार अनूप सिंह शेखावन (सं० 14286523 ए० अब जे० सी०)  
---25 जनवरी, 1988।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार मेजा राम चौधरी (सं० 14216388 ए० अब जे० सी०)  
---14 जनवरी, 1988।===

=== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार विनोद कुमार (सं० 14292513 ए० अब जे० सी०)---  
25 जनवरी, 1988।====

==== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार पवन कुमार (सं० 14219776 ए० अब जे० सी०)---  
21 जनवरी, 1988।=====

===== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार रामभू नाथ पाण्डेय (सं० 14216154 इ० अब जे०  
सी०)---21 जनवरी, 1988।=====

==== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (ओ० पी० साइफर) के रैंक में  
हवलदार मौजी राम (सं० 14276471 ए० अब जे० सी०)---  
12 जनवरी, 1988।"

" (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार जगदेव कुमार (सं० 14206912 पी० अब जे० सी०)---  
31 दिसम्बर, 1987।" " "

" " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार काली रजा (सं० 14200041 के० अब जे० सी०)---  
5 फरवरी, 1988।" " "

" " " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सुभाषिन के (सं० 14279188 आई० अब जे० सी०)---  
6 फरवरी, 1988।" " " "

" " " " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० एम० मंसू (सं० 14278970 इ० अब जे०  
सी०)---1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार (ओ० पी० स्पेशल) के रैंक में  
हवलदार अमरजीत सिंह चहलन (सं० 6312651 ए० अब जे०  
सी०)---5 दिसम्बर, 1987।" " " " "

" " " " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार रतन सिंह (सं० 6312727 ए० अब जे० सी०)  
16 दिसम्बर, 1987।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार बाबू सिंह (सं० 6313813 आई० अब जे० सी०)---  
24 जनवरी, 1988।XX

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार अमर नाथ शर्मा (सं० 6316330 ए० अब जे० सी०)---  
28 दिसम्बर, 1987।XXX

XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार पूरु सिंह (सं० 6285343 ए० अब जे० सी०)---  
16 जनवरी, 1988।XXXX

XXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार पाल सिंह किल्लों (सं० 6309301 ए० अब जे० सी०)  
---9 जनवरी, 1988।XXXX

XXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।



- हवलदार जगन नाथ प्रसोत (सं० 6309612 एच० अब जे० सी०)  
)--7 जनवरी, 1988।==
- ==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार प्रताप सिंह (सं० 6326356 पी० अब जे० सी०)--  
19 जनवरी, 1988==
- ==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार नरेन्द्र कुमार यादव (सं० 14202030 डब्ल्यू० अब जे० सी०)--  
21 जनवरी, 1988।===
- ===(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार लखन किशोर षण्डेय (सं० 6307738 के० अब जे० सी०)  
)--11 जनवरी, 1988।====
- ====(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार टी० राधाकृष्णन (सं० 6310579 एच० अब जे० सी०)  
--7 जनवरी, 1988।=====
- ===== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार सत्य नारायण, (सं० 6311316 डब्ल्यू० अब जे० सी०)  
)--11 जनवरी, 1988।"
- “(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार इन्दर सिंह (सं० 6311862 एच० अब जे० सी०)--  
17 फरवरी, 1988।”
- ”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार अमर सिंह (सं० 6313267 एक्स० अब जे० सी०)--  
3 फरवरी, 1988।”
- ”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार बूटा राम कुन्डलेश (सं० 6327884 एल० अब जे० सी०)  
)--19 जनवरी, 1988।”
- ”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार पी० आर० सी० राजू (सं० 14275413 एल० अब जे० सी०)--  
9 जनवरी, 1988।”
- ”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार गया प्रसाद (सं० 6325824 एक्स० अब जे० सी०)  
20 जनवरी, 1988।X
- X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार वलवन्त सिंह (सं० 6312162 एफ० अब जे० सी०)--  
23 जनवरी, 1988।XX
- XX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार एम० सिंह जाखर (सं० 6317215 वाई० अब जे० सी०)  
)--11 जनवरी, 1988।XXX
- XXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार वृज पाल सिंह (सं० 6309764 के अब जे० सी०)--  
4 जनवरी, 1988।XXXX
- XXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार दया राम (सं० 6317230 एन० अब जे० सी०)--  
25 जनवरी, 1988।XXXXX
- XXXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार बलवान सिंह मलिक (सं० 14277112 ए अब जे० सी०)  
11 जनवरी 1988।==
- ==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार पूरेन सिंह (सं० 14277284 पी० अब जे० सी०)--  
5 जनवरी 1988।==
- ==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार हरी सिंह चौहान (सं० 6326428 एन० अब जे० सी०)  
)--18 जनवरी, 1988।==
- ==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार राम पाल सिंह (सं० 6305573 एक्स० अब जे० सी०)  
)--8 फरवरी, 1988।====
- ====(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार एम० रमेशाह (सं० 6307083 ए० अब जे० सी०)--  
6 जनवरी, 1988।=====
- ===== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार सूर्य नारायण (सं० 14277308 एन० अब जे० सी०)  
)--7 जनवरी, 1988।”
- ”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।

- हवलदार श्रीनिवास शर्मा (सं० 14202377 एच० अब जे० सी० )—4 फरवरी, 1988।””
- ”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार टेक चन्द (सं० 6416359 पी० अब जे० सी० )—25 जनवरी, 1988।”””
- ””(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार तारा चन्द (सं० 6314144 एक्स० अब जे० सी० )—12 जनवरी, 1988।”””
- ”””(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार पी० कुमार पांडा (सं० 6316577 एन० अब जे० सी० )—15 जनवरी, 1988।””””
- ””””(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार बलवन्त सिंह पुन्डीर (सं० 14201402 के० अब जे० सी० )—22 जनवरी, 1988।X
- X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी० ) के रैंक में हवलदार एस० सी० हाजरा (सं० 14277132 एन० अब जे० सी० )—15 फरवरी, 1988।XX
- XX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार नन्द किशोर सैनी (सं० 14203396 ए० अब जे० सी० )—24 फरवरी, 1988।XX
- XXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार बी० मदन भावी (सं० 14277570 डब्ल्यू० अब जे० सी० )—2 फरवरी, 1988।XXX
- XXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार बीरम लाल (सं० 14278036 एल० अब जे० सी० )—30 जनवरी, 1988।XXXX
- XXXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार पुरुषोत्थम नाथर सी एन (सं० 14278058 के० अब जे० सी० )—23 जनवरी, 1988=
- =(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार वसु सी (सं० 14278060 एफ० अब जे० सी० )—20 जनवरी 1988==
- ==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार एस० डी प्रसाद (सं० 14204912 डब्ल्यू० अब जे० सी० )—23 जनवरी, 1988===
- ===(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में हवलदार दीवानी लाल शाह (सं० 14204869 ए० अब जे० सी० ) 21 जनवरी, 1988=====
- ===== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार दयानन्द मोरे (सं० 14204504 एल० अब जे० सी० )—25 जनवरी, 1988।=====
- ===== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार किरोरी मल (सं० 13919656 ए० अब जे० सी० )—11 फरवरी, 1988”
- ”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)
- हवलदार राम चन्द्र (सं० 14204653 वाई० अब जे० सी० )—1 फरवरी, 1988””
- ””(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में हवलदार के० जी० आर० कृष्ण कुरुप (सं० 14205332 एम अब जे० सी०—) —12 जून 1987”””
- ””(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार वेद प्रकाश (सं० 6316416 एल० अब जे० सी० )—23 जनवरी, 1988।””””
- ”””(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)
- हवलदार गंधर्व सिंह (सं० 6307201 एल० अब जे० सी० )—29 जनवरी, 1988।””””
- ”””(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)



- हवलदार गजराज (सं० 14205309 ए० अब जे० सी० )--  
2 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार जी० एस० रघ्वावा (सं० 6314593 एम० अब जे० सी०)  
--11 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।
- हवलदार प्रथी चन्द (सं० 6323351 एल० अब जे० सी० )--  
3 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार महिन्दर सिंह यादव (सं० 6306620 डब्ल्यू० अब जे० सी० )  
--3 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार राम स्वरूप (सं० 14206993 ए० अब जे० सी० )--  
2 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार मेवा सिंह (सं० 14280773 एल० अब जे० सी० )--  
1 फरवरी, 1988।
- X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार कैलाश सिंह (सं० 14280923 डब्ल्यू० अब जे० सी० )  
23 फरवरी, 1988।
- XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार रन सिंह वर्मा (सं० 14208216 डब्ल्यू० अब जे० सी० )  
--2 फरवरी, 1988।
- XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार एस० सुबाहान (सं० 14208178 एम० अब जे० सी० )  
17 फरवरी, 1988।
- XXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार खजान सिंह (सं० 6303495 एम० अब जे० सी० )--  
8 फरवरी, 1988।
- XXXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार श्री कृष्ण रोहिल्ला (सं० 6316532 एन० अब जे० सी० )  
--10 मार्च, 1988।
- == (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार बलदेव सिंह (सं० 6303989 डब्ल्यू० अब जे० सी० )--  
8 फरवरी, 1988।
- === (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार मारियप्पा कामैची (सं० 6317209 एल० अब जे० सी० )  
--1 मार्च, 1988।
- === (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार ए० सी० देब नाथ (सं० 6312040 एक्स० अब जे० सी० )  
1 फरवरी, 1988।
- ==== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार दिलबाग सिंह पटानिया (सं० 6325774 एक्स० अब सी० )--26 फरवरी, 1988।
- ==== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार शिवाजी शिन्दे (सं० 6312741 एन० अब जे० सी० )--  
19 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार कुलदीप सिंह (सं० 6315700 पी० अब जे० सी० )--  
8 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार राम अवतार (सं० 7316692 एन० अब जे० सी० )--  
5 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार ओम प्रकाश (सं० 6303494 के० अब जे० सी० )--  
27 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार अमरीक सिंह (सं० 6317075 एक्स० अब जे० सी० )  
22 फरवरी, 1988।
- "(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार के० आर० एस० शंकरा (सं० 6317325 एन० अब जे० सी० )  
--6 फरवरी, 1988।
- X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार भागमल सिंह (सं० 14275629 एम० अब जे० सी० )  
--11 फरवरी, 1988।
- XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार कारू बालू सामी (सं० 6310505 एन० अब जे० सी० )--  
1 मार्च, 1988।
- XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार रांगी सिंह (सं० 14200316 एम० अब जे० सी० )--  
25 फरवरी, 1988।
- XXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार सी० डी० झा I (सं० 14200796 एफ० अब जे० सी० )--  
12 फरवरी, 1988।
- XXXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।
- हवलदार पी० डी० भारद्वाज (सं० 14276075 एल० अब जे० सी० )  
--3 फरवरी, 1988।

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० एम० एस० नेगी (सं० 14200837 ए० अब जे० सी०) --1 फरवरी, 1988।

हवलदार एस० वी० फर्नांडीज (सं० 14276078 वाई० अब जे० सी०) --5 फरवरी, 1988।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार रमेश चन्द राणा (सं० 14201147 एच० अब जे० सी०) 6 मार्च, 1988।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी) ?

हवलदार एन० राजन पिल्लै (सं० 14201567 एच० अब जे० सी०) 4 फरवरी, 1988।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार करतार सिंह (सं० 6303463 के० अब जे० सी०)-- 2 फरवरी, 1988।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार नरिन्द्र सिंह (सं० 14201587 डब्ल्यू० अब जे० सी०) 15 फरवरी, 1988।

”(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सुधासू मोहन पाल (सं० 14276325 एस० अब जे० सी०) 18 फरवरी, 1988।”

” (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)।

#### (थल सेना विभाग)

सं० 1388, दिनांक 9-8-1988--निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमिश्नड अफसरों को पुनः नौकरी पर बहाल किया जाता है। रैंक और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है:--

#### नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर  
नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गोरख नाथ सिंह (जे० सी०-100760 एक्स), पहले ए० पी० टी० सी०, 11 नवम्बर, 1986।

नायब सूबेदार रूप सिंह (जे० सी०-70182 डब्ल्यू), पहले दि सिंह रेजिमेंट, 12 नवम्बर, 1986।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-89138 एफ), पहले सिगनल 11 अप्रैल, 1987।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-108070-एच), पहले ई एम ई, 4 मई, 1987।

नायब सूबेदार बदलु राम (जे० सी०-89760-पी), पहले ए एस सी, 4 मई, 1987।

नायब सूबेदार दौलत सिंह सपेया (जे० सी०-113706-एच) पहले सी एम पी, 4 मई, 1987।

नायब सूबेदार भास्करण पिल्लै, भक्तावलसलन पिल्लै (जे० सी०-131118 एक्स), पहले आर्टिलरी, 4 मई, 1987।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-109020-के), पहले आर्टिलरी 4 मई, 1987।

नायब सूबेदार मेहरबान सिंह रावत (जे० सी०-86568-ए), पहले बंगाल इंजीनियर ग्रुप, 6 मई, 1987।

नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी०-84300-के), पहले महार रेजिमेंट, 6 मई, 1987।

नायब सूबेदार सुरजन सिंह (जे० सी०-87690-एच), पहले बम्बे इंजीनियर ग्रुप -6 मई, 1987।

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (आर० वी०-7325-डब्ल्यू), पहले आर वी सी, 7 मई, 1987।

नायब सूबेदार कौसू नागाराजू (जे० सी०-124696-के), पहले ए पी टी सी, 7 मई, 1987।

#### (थल सेना विभाग)

सं० 1389 दिनांक 9 अगस्त, 1988 राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

#### नियमित सेना तोपखाना रेजिमेंट

सकसेटिव सूबेदार (ज़ी डी) के पद में

नायब सूबेदार पवार शिवाजी (जे० सी०-132683-एफ), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जे० सी०-128654-पी), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-129070-डब्ल्यू), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार आत्मा राम (जे० सी०-137171-वाई), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार सोदलामदन नाडार मुघुनाडार (जे० सी०-134749-एल)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार परमेश्वरन पिल्लै शिवदासन पिल्लै (जे० सी०-135081-वाई)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जे० सी०-138366-डब्ल्यू), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार माधवन नायर (जे० सी०-137729-एच), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार कोनानाथन पादिनजारेथिल, गोपाला कृष्णन (जे० सी०-144703-डब्ल्यू), 1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार जय प्रकाश नारायण (जे० सी०-119894-एल), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार भुरे लाल (जे० सी०-124025-ए)--1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जे० सी०-124027-एल), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार भूरीसिंह (जे० सी०-112083-एक्स), 01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार सनभुगाभूल कृष्णन (जे० सी०-134788-के), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-133981-के), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार वाचन सिंह (जे० सी०-15268-पी), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार गोपालन निलानान्तर् पिल्लै (जे० सी०-135089-एल), 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार दावा टसेरिंग सेरदा (जे० सी०-134665-एक्स), 1 मार्च, 1988।

- नायब सूबेदार वेद पाल (जे० सी० 134799 डब्ल्यू),  
1 मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार के० एन० गोपालन (जे० सी० 129812 एल),  
1 मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार मस्त राम (जे० सी० 112 92 वाई०),  
1 मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार राम प्रकाश (जे० सी० 120067 पी), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार रामथन सिंह (जे० सी० 127003 एम), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार मोहन सिंह विष्ट (जे० सी० 127046 एफ), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार ज्योत्सनादेव बनजोले (जे० सी० 134670 एच), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी० 130894 एल), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार राम प्रताप सिंह (जे० सी० 134659-के), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी० 133875 एल), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार रनवीर सिंह यादवा (जे० सी० 139254 एच), 1  
मार्च 1988।
- नायब सूबेदार वनाया वरथा राज (जे० सी० 147764 एम), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार थाटीसाटी थाथामा (जे० सी० 139291 डब्ल्यू), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार मोहिन्दर पाल (जे० सी० 1463 4 एल), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार हरेन्द्रा सिंह (जे० सी० 150449 एल), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार चक्रमत सुकुमारन (जे० सी० 139317 ए), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार गिरीजस रे (जे० सी० 145857 पी), 1  
मार्च, 1987।
- नायब सूबेदार सेव पूजन पांडे (जे० सी० 107544 एम), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार इन्दर सिंह रावेष (जे० सी० 159356 ए), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार सुचा सिंह (जे० सी० 138372 के), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार उदम सिंह (जे० सी० 140460 वाई) 1 मार्च 1988।
- नायब सूबेदार सुखवीर सिंह (जे० सी० 124499 एफ), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार कर्मचन्द (जे० सी० 10381 एच), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार इवारका नाथ (जे० सी० 128640 पी), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार धर्मवीर (जे० सी० 137694 एक्स), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार राम कुमार (जे० सी० 136284 पी), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार रंगअप्पा (जे० सी० 142101 के), 1 मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार गुलाब सिंह कुसवाह (जे० सी० 140443 वाई), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार गुरमित सिंह डिलन (जे० सी० 124026 एच) 1 मार्च 1988।
- नायब सूबेदार कर्म सिंह (जे० सी० 153672 एच), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार केसर सिंह (जे० सी० 132958 के), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी० 128663 डब्ल्यू), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार राम पाल सिंह (जे० सी० 1156ले4 एल), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी० 12 159 एफ), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार वटज वैल्य दत्तकुटी शंकरन (जे० सी० 132966  
एच), 1 मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार इन्दर जीत सिंह (जे० सी० 136251 के), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी० 132971 एन), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार बुध राम (जे० सी० 150346 पी), 1 मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जे० सी० 11 380 एम), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार शिवाजी कलासागर (जे० सी० 146767 ए), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार चन्दगी राम (जे० सी० 123957 ए), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार माडाई दामोदरन (जे० सी० 129653 वाई), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे० सी० 145880 एच), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जे० सी० 134715 एक्स), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार बुद्धि सिंह (जे० सी० 123541 एच), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी० 112191 एफ), 1  
मार्च, 1988।
- नायब सूबेदार अजमैर सिंह (जे० सी० 124349 एल), 1  
अप्रैल, 1988।
- नायब सूबेदार प्रधान सिंह जरियल (जे० सी० 109024 ए), 1  
अप्रैल, 1988।
- नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जे० सी० 109580 ए), 1  
अप्रैल, 1988।
- नायब सूबेदार रसील चन्द (जे० सी० 124090 ए), 1  
अप्रैल, 1988।
- नायब सूबेदार जयवीर सिंह वनिवाल (जे० सी० 120367 डब्ल्यू), 1  
अप्रैल, 1988।
- नायब सूबेदार माता दीन (जे० सी० 135161 डब्ल्यू), 1  
अप्रैल, 1987।
- नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी० 1462302 एफ), 1 अप्रैल 1987  
सम्पट्टेन्टिव सूबेदार (ए० आई० बी०) के पद में
- नायब सूबेदार ब्रह्मा नन्द (जे० सी० 147724 एम), 1  
मार्च, 1988।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी० 140205 एम) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार सुभर सिंह (जे० सी० 141401 बाई) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार सुनील कुमार भट्टाचार्य (जे० सी० 150356 बाई) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार शिवनाशयन (जे० सी० 150358 के) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार पाशा बहादुर पन (जे० सी० 154777 बाई) 1 मार्च, 1988।

मस्सटनटिष सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी० 124100 बाई) 1 अगस्त, 1987।

नायब सूबेदार राज सिंह (जे० सी० 145835 डब्ल्यू) 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार जय बहादुर सिंह यादव (जे० सी० 140225 ए) 1 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी० 143182 एफ) 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी० 124473 एम) 1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार भूप सिंह (जे० सी० 139412 एम) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह (जे० सी० 143808 एच) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी० 123518 पी) 1 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार जगत सिंह (जे० सी० 121370 एच) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार हजारा सिंह सुमान (जे० सी० 125734 एफ) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बुटा सिंह (जे० सी० 130906 पी) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बिशान सिंह (जे० सी० 134796 एम) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार मुनी लाल (जे० सी०-133930 डब्ल्यू), 1 अप्रैल, 1988

नायब सूबेदार गुरुमामी रामाचन्द्रन (जे० सी०-136123 एम), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार गुरप्रचन सिंह (जे० सी०-134807 के) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार करनिल सिंह (जे० सी०-135119 एफ), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार सावन सिंह (जे० सी०-135129 एफ), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार शोकार सिंह (जे० सी०-136262 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार भगवान दाम (जे० सी०-139454 बाई), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार मुन्गी राम (जे० सी०-146276 के), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार करम सिंह अमान (जे० सी०-150064 डब्ल्यू), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सरयन राय (जे० सी०-132671 एम), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार रतन चन्द (जे० सी०-137188 एम), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार रञ्जीत सिंह (जे० सी०-108725 के), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार राम चन्दर वर्मा (जे० सी०-119883 बाई), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-119809 के), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार शिवाजित बादीगर (जे० सी०-133892 एल), 01 अप्रैल, 1988

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-111900 बाई), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार पीयार सिंह (जे० सी०-126153 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार हरमिन्दर सिंह (जे० सी०-121339 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार सतदेव सिंह (जे० सी०-132210 एल), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार गविन्दर सिंह (जे० सी०-146238 एन), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार सदाशिव पाटिल (जे० सी०-140163 एल), 01 अप्रैल 1988

नायब सूबेदार पूणनन्द एम एम (जे० सी०-111555 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 1988

नायब सूबेदार राजन पलायुलाधिल (जे० सी०-127001) एफ) 01 अप्रैल, 1988

नायब सूबेदार मधु राम (जे० सी०-121468 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार अलाजर सामी नागामलाई (जे० सी०-130498 पी), 01 अप्रैल, 1988

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-145845 ए) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-129072 एफ), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-151934 पी), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार पेकमल (जे० सी०-135456 एम), 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार विश्वनाथ पवार (जे० सी०-139301 पी), 01 मई 1988।

## नायब सूबेदार के पद में

बी एच एम श्रीनिवास (सं० 1242142 वार्ड अग्र जे० सी० 174841 एम) --19 अगस्त, 1987।

बी एच एम प्रेमचन्द (सं० 1283951 एन अग्र जे० सी० 174842 पी) --11 सितम्बर, 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार बाबू खान (सं० 1231445 एन अग्र जे० सी० 174843 एफ) --5 सितम्बर, 1987।

हवलदार रणवीर सिंह (सं० 1282295 एल० अग्र जे० सी० 174844 ए) --05 सितम्बर, 1987।

हवलदार जी रामसुब्बू (सं० 14322538 डब्ल्यू अग्र जे० सी० 174845 एच) --10 सितम्बर, 1987।

हवलदार रणजीत सिंह (सं० 1297395 एन अग्र जे० सी० 174846 एल) --28 सितम्बर, 1987।

हवलदार प्रीतम सिंह (सं० 1253058 वार्ड अग्र जे० सी० 174847 एम) --19 नवम्बर, 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार तेजराम (सं० 14310860 डब्ल्यू अग्र जे० सी० 174848 डब्ल्यू) --30 सितम्बर, 1987।

हवलदार मोर सिंह (सं० 1273719 पी अग्र जे० सी० 174849 वार्ड) --13 अक्तूबर, 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर, 1987 से दी जाएगी)।

बी एच एम पूरन सिंह (सं० 1249473 एच० अग्र जे० सी० 174850 एन) --20 नवम्बर, 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर, 1987 से दी जाएगी)।

बी क्यू एम एच दामोदरन एस (सं० 14303193 एल अग्र जे० सी० 174851 डब्ल्यू) --19 अक्तूबर, 1987।

बी एच एम माविनबर बेक्या अम्पन्ना (सं० 1293572 एल अग्र जे० सी० 174852 वार्ड) --04 नवम्बर, 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्तूबर, 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार उषय वीर सिंह (सं० 1250211 वार्ड, अग्र जे० सी० 174853 एफ) --25 अक्तूबर 1987।

आर एच एम मोर सिंह (सं० 1285286 पी० अग्र जे० सी० 174854 के) --01 सितम्बर, 1987।

हवलदार करतार सिंह (सं० 14313835 एच अग्र जे० सी० 174855 एम) --01 दिसम्बर, 1987।

आर एच एम अमीन खन् (सं० 1275203 एल अग्र जे० सी० 174856 पी) --01 फरवरी 1988।

बी एच एम कालीवास (सं० 1275204 एन अग्र जे० सी० 174857 एफ) --1 फरवरी, 1988।

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं० 1243125 एल अग्र जे० सी० 174858 ए) --14 मार्च, 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जाएगी)।

बी एच एम रंगिलु राम (सं० 1281996 पी अग्र जे० सी० 174859 एच) --01 फरवरी, 1988।

बी० एच एच एच कंकनाला गोपय्या (सं० 124439 एम अग्र जे० सी० 174860 एफ) --01 फरवरी, 1988।

हवलदार बलकार सिंह (सं० 1288951 एम अग्र जे० सी० 174861 ए) --01 फरवरी, 1988।

हवलदार वनदेव सिंह (सं० 1288391 के अग्र जे० सी० 174862 एच) --01 फरवरी, 1988।

हवलदार मोहन लाल गर्मा (सं० 14301094 के अग्र जे० सी० 174863 एल) --1 फरवरी, 1988।

हवलदार राम मेहर (सं० 1240808 एन अग्र जे० सी० 174864 एन) --01 फरवरी, 1988।

हवलदार राय सिंह (सं० 1230688 एम अग्र जे० सी० 174865 डब्ल्यू) --01 मार्च, 1988।

हवलदार बोधन सिंह (सं० 1237235 के अग्र जे० सी० 174866 वार्ड) --01 मार्च, 1988।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं० 1241814 एन अग्र जे० सी० 174867 एफ) --01 अप्रैल, 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार एम नारायणन कुट्टी (सं० 1293188 के अग्र जे० सी० 174868 के) --01 मार्च, 1988।

हवलदार सर्व वयल (सं० 1239132 के अग्र जे० सी० 174869 एम) --3 मार्च, 1988।

हवलदार प्यारे लाल (सं० 8018981 पी अग्र जे० सी० 174870 एफ) --15 मार्च, 1988।

## नी वेता विभाग

सं० 1390 दिनांक 25-मई, 1988--राष्ट्रपति निम्नलिखित को उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से नियुक्त करते हैं:--

(क) श्री के के मोहन, वरिष्ठ डिजाइन अधिकारी ग्रेड-II (संश्लेषण) वरिष्ठ डिजाइन अधिकारी ग्रेड-I (संश्लेषण) के पद दिनांक 28 जनवरी, 1988 (पूर्वाह्न) से

(ख) श्री डी पी केशरी वरिष्ठ डिजाइन अधिकारी ग्रेड II (विद्युत) वरिष्ठ डिजाइन अधिकारी ग्रेड I (विद्युत) के पद पर दिनांक 04 मई, 1988 (पूर्वाह्न) से।

बी के ठाकुर  
उप निदेशक



## नौ सेना शाखा

सं० 1391, दिनांक 3-8-88--कामिक अध्यक्ष, नौ सेना मुख्यालय श्री ए० के० बीजर्जी सीनियर फोरमेन (कर्मशाला) को दिनांक 23 जून 1988 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न सहायक आयुक्त पूर्ति अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वे दोनों नाम के लिए परस्मादों होंगे।

सी० एम० करिभप्पा  
उपनिवेशक सिविलियन कामिक

## नौ सेना शाखा

सं० 1392, तारीख 3-5-88--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० एफ०/1907/नी० मु०/52-ए० एस०/बी० (एन-II) तारीख 13 जनवरी, 87 के अर्न्तगत इंजीनियरी शाखा (नेवल आर्किटेक्ट कोर) में कार्यकारी सब लेफ्टि० के रूप में निम्नलिखित नियुक्ति उनके नाम के सामने दी गई तारीख से करते हैं:--

## भारतीय नौसेना

(स्वायत्त कमीशन)

इंजीनियरी शाखा (नेवल आर्किटेक्ट कोर)

नाम	निजी सं०	कमीशन की तारीख
कुमार प्रशिवनी	41155-एच	18 अगस्त 1988

एस० जी० यादव  
कमांडर भा० नौ  
बी० बी० एम० पी० आर  
3 मई 88

## वायुसेना मुख्यालय

सं० 1393, दिनांक 26 जुलाई, 88

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित तारीख से पूर्व दिनांकित की जाती है:--

नाम एवं पदनाम	सहा० सिवि० पूर्व दिनांक न स्टाफ अधिकारी के ग्रेड में सहा० सिवि० पदोन्नति की मूल तारीख	स्टाफ अधिकारी के ग्रेड में परिशोधित पदोन्नति की तारीख
(1)	(2)	(3)

1. श्री हुकम चन्द्र गुप्ता, सी० एम०	31-3-78	7-3-78
2. श्री जयसलाल शर्मा, ए० सी० एम०	19-4-78	31-3-78
3. श्री के० आर० टुटेजा, ए० सी० एम०	29-5-78	10-4-78

5-224 GI/88

(1)	(2)	(3)	(4)
4. श्री पी० बी० खन्ना, ए० सी० एम०	23-6-78	4-5-78	
5. श्री आर० बी० गुप्ता, ए० सी० एम०	21-7-78	23-6-88	
6. श्री आर० बी० कपूर, ए० सी० एम०	7-3-79	3-10-78	
7. श्री त्रिलोक चन्द्र जैन, ए० सी० एम०	25-4-79	27-3-79	
8. कु० के० बी० मरोडे, ए० सी० एम०	25-4-79	27-3-79	
9. श्री मन्त्र स्वरूप गुप्ता, ए० सी० एम०	6-9-79	27-3-79	
10. श्री अमो चन्द्र कंजर, ए० सी० एम०	30-8-79	27-3-79	
11. श्री राम प्रताप मदन, ए० सी० एम०	30-8-79	27-3-79	
12. श्री जे० आर० आलूवालिया, ए० सी० एम०	30-8-79	27-3-79	
13. श्री मो० पी० अग्रवाल, सी० एम०	31-8-79	25-4-79	
14. श्री बी० एन० चौहान, सी० एम०	30-8-79	25-4-79	
15. श्री एम० आर० भटनागर, ए० सी० एम०	2-11-79	24-4-79	
16. श्री पी० बी० बीजा, ए० सी० एम०	1-1-80	25-4-79	
17. जमुना राम, सी० एम०	25-7-80	30-8-79	
18. श्री आर० एस० भाटिया, ए० सी० एम०	25-7-80	30-8-79	
19. श्री वयानन्द शर्मा, ए० सी० एम०	22-7-80	39-8-79	
20. श्री आर० पी० शर्मा, ए० सी० एम०	22-7-80	30-8-79	
21. श्री कालीचरण दास, सी० एम०	1-12-80	22-7-80	
22. श्री किशन लाल शर्मा, सी० एम०	1-1-81	22-7-80	
23. श्री हीरा सिंह यादव, ए० सी० एम०	30-12-80	22-7-80	
24. श्री मनोहर लाल वर्मान, सी० एम०	1-2-81	22-7-80	
25. श्री हुकम चन्द्र जैन, सी० एम०	30-12-80	22-7-80	
26. श्री कलीशम, ए० सी० एम०	31-12-80	22-7-80	
27. श्री एस० एन० एस० शान्तिन्य, ए० सी० एम०	30-12-80	22-7-80	
28. श्री बी० बी० पन्त, ए० सी० एम०	31-12-80	22-7-80	
29. श्री राम प्रकाश शर्मा, ए० सी० एम०	23-1-81	22-7-80	
30. श्री ए० पी० जोशी, ए० सी० एम०	23-1-81	22-7-80	
31. श्री एस० पी० घूद, ए० सी० एम०	23-1-81	22-7-80	
32. श्री आर० सिंह, ए० सी० एम०	2-3-81	22-7-80	
33. श्री मो० पी० सिधारी, सी० एम०	2-3-81	16-8-80	
34. श्री के० आर० जैन, ए० सी० एम०	2-3-81	16-8-80	
35. श्री विनेश चन्द्र, ए० सी० एम०	17-3-81	16-8-80	
36. श्री लछमन राम, सी० एम०	23-1-81	16-8-80	
37. श्री वेद प्रकाश नायर, सी० एम०	30-12-80	24-11-80	(अपराह्न)
38. श्री एस० एन० चमोली ए०, सी० एम०	2-3-81	24-11-80	
39. श्री बी० पी० श्रीवास्तवा, ए० सी० एम०	3-6-81	24-11-80	
40. श्री सुन्दर कुमार, ए० सी० एम०	27-4-81	30-12-80	
41. श्री वजीर सिंह, ए० सी० एम०	13-10-81	30-12-80	
42. श्री बृजलाल, ए० सी० एम०	1-5-81	30-12-80	
43. श्री ए० पी० शर्मा, ए० सी० एम०	15-10-81	30-12-80	

1	2	3	4	1	2	3	4
44.	श्री भगत सिंह, ए सी एस ओ	2-11-81	30-12-80	84.	श्री जे जी भवीन, ए सी एस ओ	1-3-83	14-10-82
45.	श्री रणधीर सिंह, ए सी एस ओ	2-11-81	30-12-80	85.	श्री कृष्ण लाल सोहन, ए सी एस ओ	1-3-83	14-10-82
46.	श्री एम आर कपूरबान, ए सी एस ओ	2-11-81	23-1-81	86.	श्री नन्द किशोर खन्ना, ए सी एस ओ	2-4-83	7-12-82
47.	मंगल राय चोपड़ा, ए सी एस ओ	2-11-81	23-1-81	87.	श्री गुरदेव सिंह, ए सी एस ओ	2-4-83	7-12-82
48.	श्री सी आर धवन, ए सी एस ओ	1-12-81	23-1-81	88.	श्री पिलकराज कपूर, ए सी एस ओ	1-3-83	7-12-82
49.	श्री पह्लाद सिंह, ए सी एस ओ	11-12-81	23-1-81	89.	श्री मंगल सेन, यादव, ए सी एस ओ	2-4-83	7-12-82
50.	श्री नोबत राम, ए सी एस ओ	1-1-82	2-3-81	90.	श्री आर के घर, ए सी एस ओ	31-1-84	1-1-83
51.	श्री प्रकाश देव, ए सी एस ओ	2-12-81	2-3-81	91.	श्री सीताराम शर्मा, ए सी एस ओ	31-1-84	1-1-83
52.	श्री जोगिन्दर सिंह, ए सी एस ओ	1-1-82	1-4-81	92.	श्री जोगिन्दर सिंह, ए सी एस ओ	21-12-87	1-3-83
53.	श्री कुलभूषण होंग, ए सी एस ओ	1-1-82	1-4-81	93.	श्री एस एस सक्सेना, ए सी एस ओ	31-1-84	2-4-83
54.	श्री के एल सेंट, ए सी एस ओ	14-1-82	1-4-81	94.	श्री ओ पी चोपड़ा, ए सी एस ओ	31-1-84	2-4-83
55.	श्री प्रीतमपाल सिंह आनन्द, ए सी एस ओ	1-2-82	27-4-81	95.	श्री एस सी बंसल, ए सी एस ओ	31-1-84	2-4-83
56.	श्री धमन लाल कपूरिया, ए सी एस ओ	1-2-82	27-4-81	96.	श्री जयरूप सिंह, ए सी एस ओ	31-1-84	2-4-83
57.	श्री सुरजीत सिंह, ए सी एस ओ	7-12-82	1-5-81	97.	श्री जगदीश चन्द्र, ए सी एस ओ	31-1-84	2-4-83
58.	श्री जसवन्त कुमार आनन्द, ए सी एस ओ	1-2-82	1-6-81	98.	श्री लखनराज शर्मा, ए सी एस ओ	31-1-84	2-5-83
59.	श्री शान्ति स्वरूप मलिक, ए सी एस ओ	1-1-82	13-10-81	99.	श्री भाई डी दीक्षित, ए सी एस ओ	20-2-84	20-5-83
60.	श्री पी पी बत्स, ए सी एस ओ	1-2-82	13-10-81	100.	श्री जगन्नाथ तय्यर, ए सी एस ओ	31-1-84	28-1-83
61.	श्री कुलवन्त सिंह, ए सी एस ओ	1-4-82	13-10-81	101.	श्री मोहिन्दर सिंह, ए सी एस ओ	31-1-84	28-10-83
62.	श्री वर्धन सिंह, ए सी एस ओ	19-3-82	13-10-81	102.	श्री सुन्दर सिंह झा, ए सी एस ओ	31-1-84	28-10-83
63.	श्री जनमई जय, ए सी एस ओ	1-4-82	13-10-81	103.	श्री मत्स्य प्रसाद, ए सी एस ओ	17-2-84	1-11-83
64.	श्री सी एस बालूकालिया, ए सी एस ओ	1-3-82	13-10-81	104.	श्री सुरेन्द्र सिंह, ए सी एस ओ	3-3-84	1-11-83
65.	श्री आर बी सूबुस्वामी, ए सी एस ओ	1-3-82	13-10-81	105.	श्री जीवन सिंह शर्मा, ए सी एस ओ	1-3-84	1-11-83
66.	श्री के एल बजाज, ए सी एस ओ	1-5-82	16-11-81	106.	श्री मानसिंह, ए सी एस ओ	1-3-84	1-11-83
67.	श्री भाई के सागर, ए सी एस ओ	1-5-82	16-11-81	107.	श्री इन्द्रजीत मैनी, ए सी एस ओ	11-4-84	31-1-84
68.	श्री गुरदयाल सिंह, ए सी एस ओ	7-12-82	1-12-81	108.	श्री जे पी कपूर, ए सी एस ओ	9-4-84	31-1-84
69.	श्री मोहिन्दर सिंह, ए सी एस ओ	7-12-82	1-12-81	109.	श्री जी एस सोहल, ए सी एस ओ	9-4-84	31-1-84
70.	श्री केदारनाथ दीक्षित, ए सी एस ओ	7-12-82	1-1-82	110.	श्री वासुदेव, ए सी एस ओ	9-4-84	31-1-84
71.	पी एस श्रीनिवास राघवन, ए सी एस ओ	1-1-83	1-1-82	111.	श्री सदन लाल शर्मा, ए सी एस ओ	9-4-84	31-1-84
72.	श्री सूवे सिंह शर्मा, ए सी एस ओ	1-1-83	1-2-82	112.	श्री जी के सैयदानी, ए सी एस ओ	1-5-84	31-1-84
73.	श्री संतसिंह हीरा, ए सी एस ओ	1-1-83	1-2-82	113.	श्री के एल बलोरी, ए सी एस ओ	6-6-84	31-1-84
74.	श्री इन्द्रजीत चोपड़ा, ए सी एस ओ	1-1-83	1-3-82	114.	श्री यू जी कोठारी, ए सी एस ओ	4-6-84	31-1-84
75.	श्री आर एन हरजई, ए सी एस ओ	1-1-83	1-6-82	115.	श्री आर एम चौहान, ए सी एस ओ	1-5-84	17-2-84
76.	श्री एम एल खरबन्दा, ए सी एस ओ	1-2-83	1-6-82	116.	श्री हेम सिंह, ए सी एस ओ	30-3-85	1-3-84 (अपरराह)
77.	श्री राम प्रालंग, ए सी एस ओ	1-2-83	1-6-82	117.	श्री के के बोसला, ए सी एस ओ	30-3-85	1-3-84
78.	श्री एम सी नाग, ए सी एस ओ	7-12-82	14-10-82	118.	श्री सुरिन्दर मोहन, ए सी एस ओ	30-3-85	1-3-84
79.	श्रीमती एम एम कौर, ए सी एस ओ	8-12-82	14-10-82	119.	श्री के सी घोष, ए सी एस ओ	30-3-85	9-4-84
80.	श्री विशान सिंह, ए सी एस ओ	1-1-83	14-10-82	120.	श्री तिलोकीनाथ चट्ट	15-9-86	9-4-84
81.	श्री भाई पी भटनगर, ए सी एस ओ	1-1-83	14-10-82	121.	श्री जे० सी गुप्ता, ए सी एस ओ	30-3-85	5-10-84
82.	श्री रज्जोध सिंह, ए सी एस ओ	1-3-83	14-10-82	122.	श्री चुनी लाल कुमार, ए सी एस ओ	12-9-86	5-10-84
83.	श्री के के वत्सा, ए सी एस ओ	1-2-83	14-10-82	123.	श्री केशव नन्द मेहता, ए सी एस ओ	12-9-86	5-10-84

1	2	3	4
124.	श्री जी० एस कनवल, ए सी एस ओ	12-9-86	20-11-84
125.	श्री शाम लाल, ए सी एस ओ	12-9-86	20-11-84
126.	श्री प्रकाश नारायण शुक्ला, ए सी एस ओ	12-9-86	30-3-85
127.	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, ए सी एस ओ	12-9-86	30-3-85
128.	श्री नारायण ठाकुर, ए सी एस ओ	12-9-86	30-3-85
129.	श्री रमेश चन्द्र, ए सी एस ओ	12-9-86	30-3-85
130.	श्री योगेन्द्र कुमार पालीवाल, ए सी एस ओ	12-9-86	30-3-85
131.	श्री एस० सी० सखदेवा, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
132.	श्री प्रसाद शर्मा, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
133.	श्री श्रीम प्रकाश, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
134.	श्री बनारसी लाल कपूर, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-8
135.	श्री द्वारका नाथ कोहली, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
136.	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
137.	श्री विक्रम सिंह नेगी, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
138.	श्री महेश चन्द्र शर्मा, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
139.	श्री लाला कृष्ण शर्मा, ए सी एस ओ	12-9-86	30-4-85
140.	श्री श्रीम सिंह, ए सी एस ओ	12-9-86	1-10-85
141.	श्री अमरनाथ रतन, ए सी एस ओ	12-9-86	1-10-85
141.	(ए) श्री गोपाल दाज, ए सी एस ओ	15-9-86	1-10-85
142.	श्री सुरजमल खरब, ए सी एस ओ	19-9-86	1-10-85
143.	श्री संसार चन्द, ए सी एस ओ	12-9-86	1-10-85
144.	श्री यशपाल बक्शी, ए सी एस ओ	15-9-86	1-10-85
145.	श्री कबेरू सिंह, ए सी एस ओ	12-9-86	1-10-85
146.	श्री धनी (राम कछवाया राजपूत) ए सी एस ओ	12-9-86	1-10-85
147.	श्री एम पी सिंह, ए सी एस ओ	12-9-86	1-11-85
148.	श्री सत्यपाल, ए सी एस ओ	12-9-86	1-7-86
149.	श्री नरोत्तम बंसल, ए सी एस ओ	3-12-86	12-9-86
150.	श्री बख्तावर सिंह, ए सी एस ओ	3-12-86	12-9-86
151.	श्री एन के संगल, ए सी एस ओ	3-12-86	12-9-86
152.	श्री मूलचन्द, ए सी एस ओ	6-12-87	12-9-86

2. सम्बन्धित अधिकारियों की पूर्व दिनांकन एवं पदोन्नति की वास्तविक दिनांक के बीच की अवधि को, सभी उद्देश्यों के लिये उनकी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में की गई सेवा मानी जायेगी।

वायु सेना मुख्यालय

सं० 1394, दिनांक 26 जुलाई, 1988 --- 1. निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में उनके प्रागे अंकित तिथि से सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है :---

नाम	पदोन्नति की तारीख
1. श्री जोगिन्दर नाथ	22-07-88
2. श्री पी डी शर्मा	30-12-80
3. श्री आर पी सहगल	30-12-80
4. श्री सालिग राम शर्मा	19-03-82
5. श्री सी एल सहगल	14-10-82
6. श्री के सी सक्सेना	14-10-82
7. श्री जे के शर्मा	01-05-84
8. श्री राम प्रकाश शर्मा	01-05-84
9. श्री ए जे इलंगो	01-10-85

के० पी० धामस  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

( वायु शाखा )

संख्या 1395, दिनांक 5 अगस्त 1988---राष्ट्रपति वायु सेना अनुदेश 48/75 के पैरा 9 तथा संशोधित वा से अनुदेश 5/81, 11/81 तथा 5/82 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित को शाखा रूपान्तरण प्रदान करते हैं :---

भारतीय वायु सेना

(भूतपूर्व एयरमैन कैडेटों को फ्लाइट अफसर के रूप में, केवल वेतन के लिये दो वर्ष की पूर्व तारीख सहित)

प्रशासन शाखा

(27885) जे डब्ल्यू ओ पद्मराज पांडुरंग इन्दालकर, (बी सी-18402), तथा

(238744) वारण्ट अफसर रामबीर सिंह, (बी सी-18414)--- 20 सितम्बर, 1986 से

परिभारिकी शाखा

(226740) वारण्ट अफसर दलीप चन्द कालरा (बी सी-18403) तथा

(252586) जे डब्ल्यू ओ हुकम सिंह राही (बी सी-18407)--- 20 सितम्बर 86 से

लेखा शाखा

(277872) जे डब्ल्यू ओ कैप्टन पीटर डियू (बी सी-18399)--- 20 सितम्बर 86 से

शिक्षा शाखा

(612329) वारण्ट अफसर ब्रज किशोर साहू (बी सी-18393)--- 20 सितम्बर, 1986 से।

## प्रशासन शाखा

(277259) वाज अमरीक सिंह (19000), (272402) जे० डब्ल्यू० ओ० चिट्टीलापिअली थामस थामस (19003), (252632) जे० डब्ल्यू० ओ० पदिनजरा पुषानविद बासुदेवन (19005), (259865) जे० डब्ल्यू० ओ० बल्लूरु रमाई (19006), (267285) जे० डब्ल्यू० ओ० ओम प्रकाश (19007), (255589) जे० डब्ल्यू० ओ० सेबास्टेन रोसरी (19008) तथा (263058) जे० डब्ल्यू० ओ० निर्मल सिंह (19010)—19 सितम्बर, 1987 से।

## लेखा शाखा

(279106) जे० डब्ल्यू० ओ० बसुदेव सेन (18992) तथा (252266) जे० डब्ल्यू० ओ० रतन कुमार मुखोपाध्याय (18999)—19 सितम्बर 1987 से।

## परिभारिकी शाखा

(258572) जे० डब्ल्यू० ओ० हरनाम सिंह चौहान (18995), (253899) जे० डब्ल्यू० ओ० जोगिन्दर सिंह (19002) तथा (252545) जे० डब्ल्यू० ओ० रतन सिंह रावत (19004) तथा (258080) जे० डब्ल्यू० ओ० सोमनाथ शर्मा (19011)—19 सितम्बर, 1987 से।

## मीसम विज्ञान शाखा

(244423) जे० डब्ल्यू० ओ० मुसाफिर सिंह यादव (18998)—19 सितम्बर, 1987 से।

वउ० बालागोपालन,  
स्क्वाड्रन लीडर,

## (वायु शाखा)

सं० 1396 दिनांक 10 अगस्त, 1988:—राष्ट्रपति वायुसेना अनुदेश 30/74 के पैरा 9 तथा संघोधित वा से अनु 6/81, 10/81 तथा 4/82 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित की शाखा कमीशन प्राप्त करते हैं:—

## भारतीय वायुसेना

## वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)

भूतपूर्व एयरमैन कडेटों को फ्लाईंग अफसर के रूप में दो वर्ष पूर्व तारीख तक केवल वेतन के लिये

(237726) जे० डब्ल्यू० ओ० शूदी कन्डीयल माधवन (18365) तथा (232523) वारण्ट अफसर केवल कुमार सेठ (18375) — 19 जुलाई, 1986 से।

## वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

भूतपूर्व एयर मैन कडेट को फ्लाईंग अफसर के रूप में दो वर्ष पूर्व तारीख तक केवल वेतन के लिये

(228663) वारण्ट अफसर प्रीतम सिंह कालरा (18357) तथा (229305) जे० डब्ल्यू० ओ० अर्जुन लिंगा गोदर (18362)—19 जुलाई, 1986 से।

## (वायु शाखा)

सं० 1397 दिनांक 22 जुलाई, 1988:—राष्ट्रपति निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:—

## भारतीय वायुसेना

## उड़ान शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की विंग कमांडर के मूल रैंक में

एम० एस० हुंडन (10102) उड़ान (पायलट)—30 अगस्त, 1985।

संयुक्त वरिष्ठता सूची में इनका नाम विंग कमांडर एम० सी० अय्यन (10098) उड़ान (पायलट) और विंग कमांडर आर० एस० दत्ता (10104) उड़ान (पायलट) के बीच आयेगा।

के० एम० दामोदरन,  
सहायक निदेशक कार्मिक,  
(अफसर) 2 (ए)

## (वायु शाखा)

सं० 1398 दिनांक 9 अगस्त, 1988:—को प्रकाशित राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने लिखी तारीख से फ्लाईंग अफसर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं:—

## भारतीय वायु सेना

## प्रशासन शाखा

पायलट अफसर वी मलिक (18133), एन० चण्डल (18140); डी० शर्मा (18143); संजय (18144) एस० रंगीमनी (18155); वी० एस० राव (18166) —06 दिसम्बर 1987।

## लेखा शाखा

पायलट अफसर एस० सेठ (18162)—06 दिसम्बर, 1987।

वी० बालागोपालन,  
स्क्वाड्रन लीडर,  
सहा० निदेश० का ग्राफ०-3 (डी)

## शुद्धि-पत्र

## (थल सेना विभाग)

सं० 1400 दिनांक 9 अगस्त, 1988:—रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 335 दिनांक 01 मार्च, 1988 में, भारत के राजपत्र सं० 03 दिनांक 16 जनवरी, 1988 के शीर्षक "नियमित सेना", उपशीर्षक, तोपखाना-रेजिमेंट' के अन्तर्गत:

## नायब सूबेदार के पद में

के स्थान पर हवलदार सुमेर सिंह (सं० 1293160 के० अब जे० सी० 171018 पी०), —19 मार्च, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च, 1987 से दी जायेगी)।

पढ़ा जाये— हवलदार सुमेर सिंह (सं० 1293160 के० अब जे० सी०-171018 पी०)—19 मई, 1987।\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च 1987 में दी जायेगी)।

के स्थान पर— बी० एच० एम० दिवान सिंह (सं० 1298949 एन० अब जे० सी०-171034 एच०), 01 अगस्त, 1987।

पढ़ा जाये— बी० एच० एम० दिवान सिंह (सं० 1298949 एन० अब जे० सी०-171034 एम०)—01 अगस्त, 1987।

के स्थान पर— वी० एच० एम० जिले सिंह (सं० 1283881 ए अब जे० सी०-171100 के)—30 मार्च, 1987।

पढ़ा जाये— वी० एच० एम० जिले सिंह (सं० 1283881 ए अब जे० सी०-171100 के), 30 मार्च 1987।

के स्थान पर— वी० एच० एम० जमना सिंह (सं० 1247199 एएस० अब जे० सी०-171102 पी०)—30 मार्च, 1987।

पढ़ा जाये— वी० एच० एम० जमना सिंह (सं० 1247199 एएस० अब जे० सी०-171102 पी०)—30 मार्च, 1987।

MINISTRY OF DEFENCE  
SECTION IV

New Delhi, the 3rd September 1988

No. 1360, dated 2nd August, 1988.—The President is pleased to appoint the following Grade 'A' officers of CSSS Cadre, Ministry of Defence, to officiate as Private Secretaries in the up-grade posts in the Pay Scale of Rs. 3000—4500 on ad-hoc basis for the further period upto 11-10-1988 or till empanelled officers become available or till further orders, whichever is earlier :—

1. Shri O. P. Bahal
2. Shri B. K. Khanna
3. Shri H. L. Maini
4. Shri M. L. Dargan.

No. 1361, dated 1st August, 1988.—On completion of tenure/expiry of leave granted to him, the services of Shri K. Srinivasan, IAS (KL : 65), Joint Secretary, Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Government of Kerala with effect from the forenoon of 1st August, 1988.

No. 1362, dated 5th August, 1988.—Dr. V. Kumar, Director, War Studies Division, Ministry of Defence, expired on 24-7-1988.

G. B. WADAWADIGI, Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION  
D.R.D.S.

No. 1363, dated 4th August, 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishment and with effect from the date shown against their names :—

- Shri K. Sekar CVRDE, Avadi, Madras 15-12-87 (FN).  
Shri H. S. Sawhney DRDL, Hyderabad 30-10-87 (FN).  
Shri V. Balamurugan CVRDE, Avadi, Madras 11-12-87 (FN).  
Shri M. Senthil DRDL, Hyderabad 30-11-87 (FN).  
Shri T. Madhu LRDE, Bangalore 30-12-87 (FN).  
Shri B. Srinivasa Rao IAT, Pune 20-01-88 (FN).  
Kum. Latha Somasundaram CVRDE, Avadi, Madras 09-12-87 (FN).  
Kum. Sangeeta Goel IRDE, Dehradun 21-12-87 (FN).  
Shri Rahul Bhattacharya DRDE, Gwalior 27-01-88 (FN).  
Kum Anuradha Velamuri DRDL, Hyderabad 16-12-87 (FN).  
Shri V. S. Shrikanth DRDL, Hyderabad 02-11-87 (FN).  
Shri P. Janardhana Rao CVRDE, Avadi, Madras 28-12-87 (FN).  
Shri G. Madhusudhan Reddy CVRDE, Avadi, Madras 21-12-87 (FN).  
Shri Harish Kumar Gupta SPL, Delhi 07-12-87 (FN).  
Shri U. R. Gautam LRDE, Bangalore 07-01-88 (FN).  
Shri V. Siva Kumar DRDL, Hyderabad 01-02-88 (FN).  
Shri Muralidhar Chaturvedula DRDL, Hyderabad 01-02-88 (FN).

Shri T. Hemaprakash Reddy DFRL, Mysore 12-02-88 (FN).

Shri Tilak Singh IAT, Pune 15-12-87 (FN).

Shri K. V. Rajasekharan Nair NCML, Bombay 11-01-88 (FN).

Shri Susheel Kumar Verma DEAL, Dehradun 23-11-87 (FN).

Shri Anil Dutt Semwal DFRL, Mysore 27-11-87 (FN).

Shri K. Venkata Ramana DRDE, Gwalior 08-01-88 (FN).

Kum. D. Anuradha DRDL, Hyderabad 03-11-87 (FN).

Shri Pradeep Kumar DRDE, Gwalior 01-01-88 (FN).

Shri R. D. Navindgi GTRE, Bangalore 07-12-87 (FN).

Shri B. A. Rajeevalochanam GTRE, Bangalore 24-11-87 (FN).

Shri Ajith Kumar K. NPOL, Cochin 23-11-87 (FN).

Shri Sabu Sebastian M. NPOL, Cochin 30-11-87 (FN).

Shri Dhulipalla Sudheer NPOL, Cochin 08-12-87 (FN).

NARSINGH DASS, Asstt. Dir. (Personnel)

No. 1364, dated 1st August, 1988.—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri R. S. Dubey, Accounts Officer, Defence Materials & Stores Research & Development Establishment, Kanpur, to be officiating Senior Accounts Officer in the same establishment with effect from 22-9-87 (F/N).

Shri AK Bansal, Foreman, Directorate of Standardisation, New Delhi is to be Officiating Junior Scientific Officer in the same office with effect from 27 May 1988 (FN).

Shri MD. Pardeshi, Chief D' man, RDE(E), Pune to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—18-3-88 (FN).

Shri DB Sakpal, Foreman, RDE(E), Pune to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—18-3-88 (FN).

Shri AN Thakar, Foreman, RDE(E), Pune to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri VG Zingade, SSA, RDE(E), Pune to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri VS Shinde, SSA, RDE(E), Pune, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri SD Ladkat, SSA, RDE(E), Pune, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri VM Dange, SSA, RDE(E), Pune, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri HR Khadilkar, SSA, RDE(E), Pune, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri Sardul Singh, SSA, DSC, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—30-5-88 (FN).

Shri AK Satsangi, SSA, DSC, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—30-5-88 (FN).

Shri Man Singh, SSA, DSC, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—30-5-88 (FN).

Smt. Krishna Kohli, SSA, DSC, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—30-5-88 (FN).

Shri Brij Mohan, SSA, DSC, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—30-5-88 (FN).

Shri Madan Lal, SSA, DSC, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—30-5-88 (FN).

Shri Shyam Sunder, SSA, SPL, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri RK Goswami, SSA, SPL, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri LK Nagpal, SSA, SPL, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri DV Singh, SSA SPL, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri SV Galagale, SSA, DRDO (CC), Pune, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri R Gandhi, Foreman, DLRL, Hyderabad, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri AK Kain, SSA, DIPAS, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Smt. CC Sabnis, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri Iqbal Singh, SSA Dte of Engg. R & D Orgn, New Delhi to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri BB Umapp, SSA, IAT, Pune to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri YN Nagaraja, SSA, ADE, Bangalore to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri Inder Pal, SSA, SPL, Delhi, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri KC Jena, SSA, PEE, Balasore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri B Raut, SSA, PEE, Balasore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri PK Senapati, SSA, PEE, Balasore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri RK Mohanty, SSA, PEE, Balasore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri M Padhi, SSA, PEE, Balasore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Smt. Hamsa F. Augustin, SSA, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri HS Krishna Murthy, Foreman, LRDE, Bangalore to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri MV Srinidhi, Foreman, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—15-3-88 (FN).

Shri K Jagannath, Foreman, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri MR Sathyanarayana Rao, Foreman, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—16-3-88 (FN).

Shri MA Manikutty, Chief D' Man, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri VS Karanth, Foreman, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri E Venugopal, Foreman, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri O Gopalan Nair, Foreman, LRDE, Bangalore, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—14-3-88 (FN).

Shri Ramesh Kotwani, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri M T Companywala, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri R Subhash, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri Rajiv Dayal, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—6-6-88 (FN).

Shri C M Sabnis, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Dr. S N Gaonkar, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Smt. L Gopalakrishnan, SSA, NCML, Bombay to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—1-6-88 (FN).

Kum. S C Sankholkar, SSA, NCML, Bombay, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

Shri B K Singh, SSA, Gun Development Team Jabalpur, to be Offg. Junior Scientific Officer in the same Estt—27-5-88 (FN).

J. B. P. DUBEY, Dy. Director (Pers)

No. 1365, dated 22nd July 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

Shri K. RAGHU RAM, Junior Scientific Officer, DRDL, Hyderabad to be officiating scientist 'B' in the same establishment with effect from 29-2-88 (FN).

Shri V. V. S. NAIDU, Junior Scientific Officer, DRDL, Hyderabad to be officiating Scientist 'B' in the same establishment with effect from 29-2-88 (FN).

Shri M. SATYANARAYANA RAJU, Junior Scientific Officer, DRDL, Hyderabad to be officiating Scientist 'B' in the same establishment with effect from 29-2-88 (FN).

Shri S. C. HEHGAL, Junior Scientific Officer, IRDE, Dehradun to be officiating Scientist 'B' in the same establishment with effect from 20-6-86 (FN).

Shri V. K. GOPINATHAN, Junior Scientific Officer, DFRL, Mysore to be officiating Scientist 'B' in the same establishment with effect from 29-2-88 (FN).

NARSINGH DASS, Asstt. Director (Pers.)

(DEPTT. OF DEFENCE PRODN. & SUPPLIES)

No. 1366, dated 12th August 1988.—On transfer from Heavy Vehicle Factory, Avadi, the President is pleased to appoint Shri S. C. MALHOTRA, Dy. General Manager as Deputy Planning Officer (ASV) in the Directorate of Planning & Coordination, Deptt. of Defence Production & Supplies with effect from the forenoon of 19th July, 1988, on deputation basis.

R. C. SHARMA, Under Secy.

**DIRECTORATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT &  
PRODUCTION (AIR)**

**DEFENCE AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE  
SERVICE**

No. 1367, dated 12th August 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri R S Kardam, to be temporary Senior Scientific Officer (Grade-II in OGRI, DTD&P (Air), Ministry of Defence, Kanpur on probation for a period of two years with effect from 27-05-88 (FN).

Shri M Rajakannu, to be temporary Senior Scientific Officer Grade-II in Office of the TLO, DTD&P (Air), Ministry of Defence, Calcutta on probation for a period of two years with effect from 31-05-88 (FN).

No. 1368.—Shri M. S. Avadhanulu, Deputy Chief Scientific Officer, OCRI (Air Armament), DTD&P (Air), Ministry of Defence, Trichy, permitted to retire voluntarily with effect from 14-7-1988 (AN) and transferred to Pension Establishment from the same date.

M. S. CHOPRA, Desk Officer

**ARMY HEADQUARTERS  
(GS BRANCH)**

No. 1369, dated 29th July 1988.—Shri Gurdev Singh Mshay, STA, is promoted to the grade of Junior Research Officer (Gp. 'B'-Gazetted) w.e.f. 01-01-84 and will be entitled for pay and allowances of the higher post w.e.f. 01-01-84.

Promotion notified vide DGN No. 89615/Oftrs/CAO/A-7 dated 04-07-84 may be treated as cancelled.

**ARMY BRANCH  
(MS BRANCH)**

No. 1370, dated 4th August 1988.—Shri RP Kandrow, Stenographer Grade 'C', MS Branch is appointed, on temporary basis, as Stenographer Grade 'B' of AFHQ Stenographers' Service with effect from 1-7-88 for a period upto and including 31-12-88 or till persons from the Select List become available, whichever is earlier.

2. His appointment is purely on temporary basis and he can be reverted without notice for administrative reasons.

**ARMY HEADQUARTERS  
(AG's Br.)**

No. 1371, dated 20th July 1988.—The Competent Authority has appointed following Steno Gde 'C' (Group B Non-Gazetted) to Steno Gde 'B' (Group 'B' Gazetted) on temporary basis w.e.f. 1-7-88 for a period upto and including 31-12-88 or till persons from the select list become available, whichever is earlier :—

- (a) Sh. P. N. Bahl,
- (b) Sh. C. L. Wadhwa,
- (c) Sh. M. H. Gopal.

Auth :—CAO/p-2 Note No. A/26668/CAO/P-2 dt. 15-1-88.

**(ARMY BRANCH)**

**RESEARCH & DEVELOPMENT ORGN.**

No. 1372 dated 1st August 1988.—On attaining the age of superannuation, Sh. A. N. Talwar, SPA, R&D Organisation, retired from Government service with effect from 31-7-88 (AN) and transferred to Pension Establishment with effect from 01-8-88.

**(ARMY BRANCH)**

No. 1373, dated 2nd August 1988.—The following appointment is made :—

**DIRECTORATE OF STANDARDISATION**

Shri R. P. Pulyani, Stenographer Grade 'C' to be Stenographer Grade 'B' (SPA) on temporary basis under Rule T2(3) in the AFHQ Stenographer service w.e.f. 01-07-88 to 31-12-88 or till persons from the select list become available whichever is earlier.

K. P. THOMAS, Up Mukhya Prashasan Adhikari (A)

**(ARMY BRANCH)**

No. 1374, dated 4th July 1988.—The President is pleased to appoint Maj Gen JP Gupta (IC-6231) as Col Comdt of Army Service Corps with effect from 9 Jun 88 (FN).

**(ARMY BRANCH)**

No. 1375, dated 4th August 1988.—The President is pleased to appoint Lt Gen Gorakh Nath (IC-6529), AVSM as Col Comdt of Army Service Corps with effect from 9 Jun 88 (FN).

PJ SAXENA, SCSO, AMS(X)

**(ARMY BRANCH)**

No. 1376, dated 8th April 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

To be 2 Lts w.e.f. 08 Jun 85

Sunil Issar (IC-42749L), AC, Karanjit Singh (IC-42750A), EME, Santosh Kumar Nandal (IC-42751H), Inf, Subhash Yadav (IC-42752L), Artv, Bansi Ponnappa C (IC-42753N), Inf, Ashwet Kumar Nath (IC-42754W), Sigs, Pawan Kumar Saini (IC-42755Y), Mech Inf, Vikhvat Marwaha (IC-42756P), EME, Virender Singh Malik (IC-42757K), Inf, Manendra Janak Kumar (IC-42758M), Engrs, Swaran Kumar Lama (IC-42759P), Inf, Ganesh S Nirmal (IC-42760K), EME, Kishav Aswal (IC-42761M), Engrs, Omesh Yadav (IC-42762P), FME, Rajeev Nehra (IC-42763Y), ASC, Pan-ka! Chouhan (IC-42764A), Engrs Mathews John Jacob (IC-42765H), Mech Inf, Raiesh Puri (IC-42766T), FME, Anil Hooda (IC-42767N), AC, Salim Asif (IC-42768W), Inf, Ajit Singh Yadav (IC-42769Y), EME, Gagandeep S Panalch (IC-42770N), AC, Sanjay Singh (IC-42771W), Artv, Mukul Singhal (IC-42772Y), AOC, Sushil Kumar Sharma (IC-42773F), Inf, Pranav Kumar Javswal (IC-42774K), Inf, Jairam Kumar (IC-42775M), Engrs, Poreddy Venkat Reddy (IC-42776P), Inf, Ravi R Patil (IC-42777X), Artv, Rakesh Singh Shekhawat (IC-42778A), Mech Inf, Yogesh Kapoor (IC-42779H), AC, Atul Kumar Singh (IC-42780X), Inf, Ujhas V Talur (IC-42781A), Artv, Deepak Obhrai (IC-42782H), Artv, Sanjay Kumar Verma (IC-42783T), Inf, Santram Keshari Mahapatra (IC-42784M), Inf, Rency P Jacob (IC-42785W), Inf, Surinder Yadav (IC-42786Y), ASC, Ved Prakash Sharma (IC-42787F), Sigs, Jagdeep Kumar Goutam (IC-42788K), Artv, Ajay S Shekhawat (IC-42789M), AC, Harit Pant (IC-42790F), Inf, Ashwini Cheema (IC-42791K), Inf, Ajay Kumar Suri (IC-42792M), Artv, Rajiv Bhola (IC-42793A), Engrs, Suchindra Kumar MV (IC-42794X), Inf, Jalaj Bhola (IC-42795A), Sigs, KC Panchanathan (IC-42796H), Engrs, Anubir Singh Chahil (IC-42797H), Inf, Balbir Singh (IC-42798N), Sigs, Sanjay Anand (IC-42799W), Artv, Randhir Mazumdar (IC-42800A), Inf, Balieer Singh Sandhu (IC-42801M), Inf, Bimil Chandra Khanduri (IC-42802L), Artv, Hafiz Khan (IC-42803N), Artv, Narnot Singh Rajurohit (IC-42804W), ASC, Ratan Kumar (IC-42805Y), Artv, Sangam Kumar Jha (IC-42806F), Inf, Jeewan Singh Rajurohit (IC-42807K), Inf, Praveen Bahuguna (IC-42808

M), Engrs, Kishor Chand S (IC-42809P), Mech Inf, Sanjo VK (IC-42810K), Arty, Bharat Singh Shekhawat (IC-42811M), Inf, Rakesh Sharma (IC-42812P), Arty, CV Ajay (IC-42813X), Inf, Baram Narayan Dubey (IC-42814A), ASC, Manas Kumar Das (IC-42815H), Inf, Kuldeep Singh (IC-42816L), Arty, Sudhir Paliwal (IC-42817N), Arty, Hitesh Kohli (IC-42818W), Inf, Dayanand Sewal (IC-42819Y), Arty, Satender Koshal (IC-42820N), Inf, Sharad Shukla (IC-42821W), Sigs, Kapoor Singh (IC-42822Y), ASC, Jagrant Singh Pandher (IC-42823F), Inf, Prashantkumar V Vada-  
 vangi (IC-42824K), Sigs, Sharad Shukla (IC-42826P), Arty, Alok Gupta (IC-42827X), AC, Jasbir Singh (IC-42828A), Arty, Jayesh Gopal Midha (IC-42829H), Inf, Ajay Chowdhry (IC-42830X), Inf, Rupinder Singh (IC-42831A), Arty, Prabhat Kumar (IC-42832H), Inf, Nanduri Venkata Sayee Sudhakar (IC-42834N), Engrs., Xavier MT (IC-42835W), Inf, Girish Chandra Sharma (IC-42836Y), Sigs, Gurvinder Singh Bhandari (IC-42837F), Arty, P R Murali (IC-42838K), Arty, Bethi Surender Reddy (IC-42839M), Arty, Sanjay Singh (IC-42840F), Engrs, Narinder Singh Dahiya (IC-42841K), Inf, Sushil Sharma (IC-42842M), Inf, Ravi Jhaldiyal (IC-42843P), Inf, Krishana Singh Mahar (IC-42844Y), AOC, Ananta Venkata Rajasekhar Rao M (IC-42846H), Inf, K Ramananda Acharya (IC-42847L), Inf, Ravi (IC-42848N), Arty, Narendra Singh (IC-42850I), Arty, Pradipta Narayan Mohapatra (IC-42851N), Inf, Ashish Jindal (IC-42852W), Mech Inf, Jawed Husain (IC-42854F), ASC, Deepak Kumar (IC-42855K), ASC, Chappa Seshagiri (IC-42856M), Arty, Gurvir Singh Kahlon (IC-42857P), Inf, Ravindra D Hendale (IC-42858X), Inf, Joy Choudhury (IC-42859A), Inf, Shivanand G Mane (IC-42860P), Arty, Manoj Kumar (IC-42861X), Inf, Yashpal Singh Mor (IC-42862A), Inf, M Satish Raj (IC-42864L), AC, Bawa Swaran Singh (IC-42865N), Arty, Vinod Kumar Sharma (IC-42866W), AC, Dharmender Gupta (IC-42867Y), Inf, Harish Pathria (IC-42868F), Inf, Ravi Malhoira (IC-42869K), Sigs, Biraj Sahay (IC-42870Y), Arty, Raj Vijay Rohlania (IC-42871F), Arty, Pradeep Kumar Chowdhry (IC-42872K), AOC, Sanjay Chouhan (IC-42874P), Engrs, Sanjeev Kumar Chhikara (IC-42875X), Inf, Vikram Ahojja (IC-42876A), Sigs, S Nanda Kumar (IC-42877H), Inf, Arvind Mohan (IC-42878L), Sigs, Rajeev Puri (IC-42879N), Inf, Anil Verma (IC-42880H), Inf, Sanjay Rihani (IC-42881L), Engrs, Prakash S Patil (IC-42882N), Inf, Rupinder Singh Ratra (IC-42883W), Arty, A D Tensinch Refus Gnanasir (IC-42884Y), Sigs, Sanjay Thakur (IC-42885F), Inf, Girijesh Kumar Sharma (IC-42886K), Inf, Pradeep Kumar Chahal (IC-42887M), Inf, Ajay Gupta (IC-42888P), AC, Surinder Singh Phougat (IC-42890M), Inf, Birinder Katoch (IC-42892X), Arty, Nisar Ahmed Seethi (IC-42893A), Inf, Piyush Agarwal (IC-42894H), Arty, Raj Kumar Jha (IC-42895L), AOC, Jagadeesh S Karegoudar (IC-42896N), Arty, Mavuleti Mallikarjuna Varma (IC-42898Y), Arty, Sahukara Balachandrudu (IC-42899F), Engrs, Budhi Prasad Thapa (IC-42900L), Arty, Vinod Taneja (IC-42901N), Arty, Surinder Pal Singh Brar (IC-42903Y), Arty, Nawab Singh Ghuman (IC-42904F), Inf, Vineet Prabhat Kumar (IC-42905K), AOC, Digamber Singh Pokhariya (IC-42907P), Inf, Harish Chandhok (IC-42909A), Arty, Neel Christopher Ellis (IC-42910P), Mech Inf, Avnish Kapur (IC-42911X), Arty, Ram Deo Singh (IC-42912F), Engrs, Ram S Gabri (IC-42914L), Inf, Raj Vijayendra Singh (IC-42915N), ASC, Katragadda Madhava Rao (IC-42916W), Inf, Ramesh Kumar (IC-42917Y), Arty, Nisheerh Kumar Rai (IC-42918F), ASC, Manoj Kumar (IC-42919K), Arty, Binu Varghese (IC-42920Y), Sigs, Ramesh Yadav (IC-42921F), Inf, Aadesh, Chonra (IC-42923M), Inf, Rohit Shashi Kumar Mohile (IC-42924P), Engrs, Binoy Mathai (IC-42925X), EME, Bhaskar Kalita (IC-42926A), Inf, Amrendra Pandey (IC-42927H), Sigs, Ishwar G Doddamani (IC-42928I), Inf, Dushvant Kumar (IC-42929N), Arty, Jitender Singh Dalal (IC-42932N), Inf, Sanjay Joshi (IC-42933W), ASC, Rajinder Singh (IC-42934Y), Inf, Rakesh Kumar (IC-42935F), Inf, Izajullah Ansari (IC-42936K), Inf, Mahenderjit Singh Dahiva (IC-42937M), Inf, Sunil Misra (IC-42938P), Sigs, Sharat Sharma (IC-42939X), Engrs, Azad Singh (IC-42940M), Arty, Sunil A Patil (IC-42941P), Mech Inf, S S Rajan (IC-42942X), Arty, Sudhir Kumar Shukla (IC-42943A), Inf, Anup Singh Chahar (IC-42944H), Inf, Sudhanshu Sharma (IC-42945L), EME, M V Shashidhar (IC-42946N), Arty, Suresh Singh (IC-42947W), AOC, Ashok Kumar Singh (IC-42948X), Inf, Rakesh Kumar Singh (IC-42949F), Sigs, Thomas Kuttu Joseph (IC-42950-W), Inf, Jasbir Singh Garah (IC-42951Y), ASC, Chaniet S Ganba (IC-42952F), Inf, Ghanta Ratendra Prasad (IC-42953K), Arty, Pramod Kumar A (IC-42954M), Inf, Jarnal Singh (IC-42955P), Arty, Sanil Kumar RI (IC-42956X), Arty, Shashidhar VN (IC-42957A), Inf, Hari Mohan Iyer S (IC-42958N), Arty, Pramod J Ninan (IC-42959L), Arty, Avinash Thakur (IC-42960A), Arty, Rajive Thakur (IC-42961H), AOC, Narender Kumar Chamola (IC-42962I), Engrs, Ram Prasad Upadhaya (IC-42963N), Arty, Sukhdeep Singh Randhava (IC-42964W), AC, Vineet Kishore (IC-42965Y), Arty, Puchigolla Sankar (IC-42966F), Arty, Ramji Bhai Chaudhary (IC-42969P), Inf, Rajinder Singh (IC-42971M), Inf, Rahul Pande (IC-42972P), Inf, Suresh Kumar (IC-42973X), Engrs, Mohan Singh (IC-42975H), AOC, Pritpal Singh Julka (IC-42976L), Arty, Gururaj Gopinath Pamidi (IC-42977N), Mech Inf, A K Ravindran (IC-42978W), Arty, Sudhir Kumar Yadav (IC-42980N), ASC, Dinkar Devji Pandere (IC-42981W), Inf, Prithpal Singh Chandok (IC-42982Y), AOC, Santhosh Joseph (IC-42984K), Inf, Dinesh Kumar (IC-42986P), Inf, K S Ram Mohan (IC-42987X), Inf, Padam Bahadur Gurung (IC-42988A), Inf, Mahipal Singh (IC-42989H), Inf, Sharwan Singh Ranot (IC-42990X), Inf, Vivek Bhatnagar (IC-42991-A), Sigs, Atul Krishan Sharma (IC-42992H), Sigs, Kunwar Virendra Singh Thanua (IC-42993L), ASC, Abhimanyu Sikka (IC-42994N), Arty, Ajay Kumar Gupta (IC-42995W), Inf, Gajendra Kumar Vidyarthi (IC-42996Y), Inf, Babu Lal (IC-42997F), EME, S Ram (IC-42998K), Engrs, Marindra Tripathi (IC-42999M), AOC, Subodh Garg (IC-43000N), ASC, Harjinder Singh Singha (IC-43002Y), ASC, Sanjay Sehgal (IC-43003F), Engrs, Biswajit Sinha (IC-43005M), Inf, Rakesh D Bahuguna (IC-43006P), Arty, Vishwa Jeet Singh (IC-43007X), Inf, Amrendra Narayan (IC-43009H), Arty, Bhubnesh Kumar Tyagi (IC-43010X), Inf, Sunil Kumar Sharma (IC-43011A), Arty, Pradeep LC (IC-43012-H), Arty, Shiv Kumar Singh (IC-43013L), Inf, Gautam Kalita (IC-43014N), Inf, Balveer Singh Rathore (IC-43015-W), Arty, Satyender Singh Dalal (IC-43017F), Inf, Pravesh Kumar Sharma (IC-43018K), Sigs, Virendra Taneja (IC-43019M), Sigs, Gulam Singh Rawat (IC-43021K), Inf, Gur Avtar Singh (IC-43023P), Mech Inf, Jaydevsingh Rana (IC-43024X), Arty, Pramod Singh Nain (IC-43026H), AOC, Sudershan Bhardwaj (IC-43027L), AC, Amar Kumar Sinha (IC-43028N), Inf, Vinod Kumar Chounal (IC-43029W), Inf, Amrik Singh (IC-43031N), Inf, Jagat Mohan Singh (IC-43032W), Arty, Gorantla Nagaraja Raghu Ram (IC-43033Y), Arty, Neeraj Shrivastava (IC-43034L), Inf, Rajiv Verma (IC-43035K), Arty, Vivek Swaroop Bhatnagar (IC-43036M), Arty, Davinder Yadav (IC-43037P), Inf, Anantha Krishnan Ramanathan (IC-43039A), Inf, Man Bahadur Pun (IC-43040P), Inf, Aseem Bhatt (IC-43042A), Inf, Sunil Kumar Katyal (IC-43043H), Sigs, Raj Kumar Rana (IC-43044L), Inf, Bikram Singh (IC-43045N), Arty, Narinder Jit Singh (IC-43046W), Inf, Gopalakrishnan Nafr K (IC-43047Y), Inf, S Sivadasan Nair (IC-43048F), Inf, Yashpal Bahara (IC-43049K), Mech Inf, Birender Singh Yadav (IC-43050Y), Inf, Arun Kumar Pandey (IC-43052K), ASC, Virender Kumar Dhir (IC-43053M), Inf, Vinod Kumar Ghale (IC-43056A), Inf, Mediseti V Kesava Rao (IC-43057H), Arty, Ashok Kumar Singh (IC-43058I), Inf, Dilli Prasad Gurung (IC-43061L), Arty, Amitabh Bose (IC-43062N), Arty, A S Prabhakar (IC-43067M), Arty, Sunil Kumar Verma (IC-43070M), Arty, Swamy Clement (IC-43071P), ASC, Raman Malik (IC-43072X), Inf, Rakesh Raina (IC-43073A), Inf, P Krishna Swamy (IC-43074H), AC, Sukhdeep Bhalla (IC-43075L), Arty, Sanjeev Dubey (IC-43078Y), ASC, Satpreet Singh (IC-43079F), Inf, Gurpreet Singh Bawa (IC-43081Y), Mech Inf, Rashid Ahmed Khan (IC-43082F), Arty, Joginder Singh (IC-43086X), Inf, Abhaya Bhatnagar (IC-43088M), AC, Hitesh Bhatnagar (IC-43089J), Engrs, Ramphal (IC-43092L), Arty, Sanjeev Kumar Singh (IC-43093N), EME, Shamsher Singh Mann (IC-43094W), Inf, Surender Singh Kadian (IC-43095Y), Inf, Inder Jeet Singh Chawla (IC-43096F), Arty, Kapil Kumar Srivastava (IC-43097K), Arty, Vishva Nath Bhardwaj (IC-43099P), Inf, Ashok S Pawar (IC-43100Y), Inf, Tenjarla Siva Subrahmanya Prasad (IC-43101F), Sigs, Deepinder Singh (IC-43102K), AOC, Ravi Chowdhary N (IC-43104P), ASC, Sunil Kant Bhardwaj (IC-43105X), Arty, Sanjay Mohan (IC-43106A), Arty, Vineet Kumar Shoree (IC-43107H), Arty, Sandeep Kumar Roy (IC-43109N), Arty, Polamarasetty Joseph Lawrence (IC-43110H), Arty, Mahandrasinh J Jhala (IC-43111L), Inf, Jhama Singh Gurung (IC-43114Y), AC, Sanjay Kumar Nagpal (IC-43116K), Arty, Ashok Malik (IC-43119X), Engrs, Boso K Joseph (IC-43120M), Arty, P Sriganesh (IC-43121F), Arty, Nilesh Lavji Karia (IC-43122X), Inf, L D V Prasad Rao (IC-43124H), Engrs, Alok Kumar Chakrabarti (IC-43125L), Sigs, Pardeep Sofat (IC-43126N), Inf, George KY (IC-43130W), Sigs, Anil Chawla (IC-43132F), Engrs, Prafulla Kumar Mishra (IC-43135P), Arty, Surendra Singh Rathore



(IC-43136X), Inf, Sanjay Rawat (IC-43137A), ASC, Rajendran Nair (IC-43138H), Arty, Anil Sibal (IC-43139L), Arty, Sanjay Kothari (IC-43141H), Arty, Antony Joseph (IC-43142J), Inf, Kumud Ranjan Rajkumar (IC-43143N), Inf, Sanjay Kumar Datta (IC-43144W), Inf, Jai Singh (IC-43145Y), ASC, Anil Kumar Sharma (IC-43148M), Inf, V Kannan (IC-43149P), AOC, Gyanendra Pal Singh (IC-43151M), AOC, Krishna Saran Swami (IC-43152P), Sigs, Rajesh Kumar N (IC-43154Y), EME, Suresan VP (IC-43155M), Mech Inf, Kanwal Jit Singh (43156L), Inf, Deepak Chaudhary (IC-43158W), Inf, Rahul Sehgal (IC-43160H), ASC, Harjeet Singh (IC-43161W), Arty, Tikaji (IC-43162-Y), Inf, Prabodh Kumar Pathak (IC-43163F), Inf.

LT COL S C JOSHI, AMS 8B

No. 1377, dated 9th August 1988.—The President is pleased to make the following promotion:—

**REGULAR ARMY**

Maj Gen to be Lt Gen

Suraj Prakash (MR-660) AMC/PC, 1-1-88.

Lt Col to be Col

AJP Urmil (MR-2120) AMC/PC, 11-2-87

M Singh (NTR-16118) AMC/NT, 18-1-88 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 1-12-87.

Wg Cdr (Lt Col) to be Gp Capt (Col)

S C Luthra (12899) (MR-1902) AMC/PC, 4-6-87 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

N B Amresh (12464) (MR-1863) AMC/PC, 9-2-87 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

K K Mishra (6485) (MR-1898) AMC/PC, 9-2-87 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

K p Hedge, BSM (7253) (MR-1858) AMC/PC, 9-2-87 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

P N Das (MR-1895) AMC/PC, 9-2-87 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

H R GARG (7031) (MR-1904) AMC/PC, 12-1-87 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

V Singh (6054) (MR-1443) AMC/PC, 31-12-86 (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

V K Seth (7254) (MR-1864) AMC/PC, 26-12-86, (with notional seniority) without effect on pay and pension from 5-12-86.

Surg Cdr (Lt Col) to be Surg Capt (Col)

P C M Mehta (75384-A) (MR-3100) AMC/PC, 11-1-88.

(Lt Col to be Col)

V G Laghate (MR-2388) AMC/PC, 17-12-87.

MAJ. GEN. V. K. TEWARI, Dy DGAFMS

No. 1378, dated 8-8-1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Lt to be Capt.

A Bhatnagar (IC-37608) Arty, 15th Jul 1986.

Bhagwat Dayal (IC-37538) EME, 15th Jul 1986.

2/Lt to be Lt

Amit Timothy (IC-40991), Inf, Neeraj Sharma (IC-41000) Arty, P K Sharma (IC-41001) Inf, P C Patnaik (IC-41005) Arty, Sanjeev Batra (IC-41006) Inf, Albert Rav 6—224GI/88

(IC-41011) EMES, A K Sharma (IC-41012) Inf, M J Tiwari (IC-41014) Arty, I P S Walia (IC 41016) AOC, Rajan Kadyan (IC-41020) ASC, C G Nandanani (IC-41024) Inf, S K Tomar (IC-41032) EME, M R Jagadale (IC-41035) Arty, Manoj Venglet (IC-41040) AOC, 24 Dec 84.

H S Madan (SS-31568) Inf, Uma Kant Gupta (SS-31569) Engrs, Ramchandran Nair (SS-31576) Inf, P K Bharti (SS-31578) Arty, Tanwinder Singh (SS-31585) AC, D. S. Gusain (SS-31588) Inf, Mayank Kumar Singh (SS-31592) Engrs, S. Suragimath (SS 31599) Arty, A K Sachdeva (SS-31610) Inf, V S Raghuvanshi (SS 31612) Inf, Rajiv Sablok (SS-31617) AC, Uma Kant Singh (SS-31618) Inf, Amarit Singh (SS-31621) Arty, Sunil Manchanda (SS-31630) Sigs, M K Yadav (SS-31632) Arty, Virinder Manhas (SS 31634) Inf, Sudhir Thapa (SS-31636) Sigs, J S Rendhawa (SS 31640) EME, Arun Singh Rathore (SS-31642) Arty, 27 Aug 85.

Sunil Prem (IC-41850) Engrs, Jagdev Singh (IC-41851) AOC, Shiv Kumar Rai (IC-41852) Arty, Lalit Joshi (IC-41853) Inf, G S Rathore (IC-41854) Inf, M C Mishra (IC-41855) AOC, Navin Anuja (IC-41856) Engrs, Rajvirendra Singh Khurb (IC-41857) Inf, C P Cariappa (IC-41858) Inf, S Radhakrishnan (IC-41859) Engrs, Santanu Dayal (IC-41860) Inf, Rajesh Sood (IC-41861) EME, Salit Sharan (IC-41863) Inf, R Sitaramaiah (IC-41864) EME, M N Devaya (IC-41867) Engrs, R V Singh (IC-41868) EME, Arvind Bhatia (IC-41869) Inf, Anil Joshi (IC-41870) Engrs, Paramjit Singh Dhillon (IC-41871) Engrs, Arun Sehgal (IC 41874) EME, Paul VP (IC-41875) Inf, Arvind Singh (IC 41876) Arty, R S Deswal (IC 41877) Inf, G S Sanghera (IC 41879) AC, Mahindra Singh Yadava (IC-41880) Arty, A J S Virk (IC 41882) Inf, Rakesh Nair (IC-41883) ASC, Sandeep Malhotra (IC 41884) AC, U Suresh Kumar (IC-41885) Inf, Gobinder Singh Grewal (IC-41886) Engrs, Prabodh Sharan Rana (IC-41887) Sigs, Rajiv Misra (IC-41888), Arty, Y S Ganesh (IC-41889) Arty, C Mohan R (IC 41890) Arty and Ajay Kumar Roy (IC-41891), Inf, 9 Jun 86.

T. Thomas (IC-41982) Engrs, Mukesh Sanguri (IC-41983) Inf, S C Tripathi (IC-41984) Inf, J S Salothia (IC-41985) AC, H K Jain (IC-41989) Arty, Sunil Kumar (IC-41991) Inf, R M Sharma (IC-41993) Arty, Arun Joshi (IC-41994) Engrs, Mem Tshering (IC-41995) Ashok K Yadav (IC-41996) ASC, N K Dabas (IC-41997) Inf, Sanjay Sah (IC-41998) Arty Laove Verma (IC-41999) Inf, P H Vardhan (IC-42001) M/Inf, A K Singh (IC-42002) Inf, A K Gandotra (IC 42003) Sigs, R P Kalja (IC 42004) Inf, N S Shekhawat (IC 42005) ASC, Jagrup Singh (IC-42006) Inf, Rajesh Kakkar (IC-42007) EME, Sanjay Verma (IC-42008) Inf, Rampal Singh (IC-42009) Inf, M S Gayakwad (IC-42010) Inf, S C Dhuli (IC 42013) Sigs, S G Mathew (IC-42014) Inf, Rattan Singh (IC-42018) AOC, S P Manohar (IC 42019) Sigs, Arbindan (IC-42020) Arty, K. Ashis Rao (IC-42021) M/ Inf, R K Gupta (IC 42022) Arty, U S Hanamshet (IC-42024) Inf, R S Bains (IC-42025) Inf, A S Chhria (IC-42026) Inf, R Ravi (IC-42027) Inf and R S Phaugat (IC 42028) AC, 9 Jun 86.

Suresh Chand (IC-41938) ASC, S C Katoch (IC-41944) AOC, D Bhattacharjee (IC-41945) Sigs, Sadanand Singh (IC-41946) Inf, D C Mazumdar (IC-41947) Arty, Has Mukh Patel (IC-41948) Inf, Abhijit Mukherji (IC-41950) Arty, Raju Chauhan (IC-41951) Inf, Sanjeev Chowdhry (IC-41952) Arty, L S Singh (IC 41953) Inf, Lalit Belwal (IC-41954) Arty, Mohan Lal Aswal (IC-41955) AOC, Mohan Kumar (IC-41956) EME, Om Singh (IC-41957) Engrs, Sanjay Arora (IC-41958) Arty, A K Channan (IC-41960) Arty, Sanjay Verma (IC-41962) Inf, Deepak Sharma (IC-41963) Sigs, Anurag Shukla (IC-41964) Inf, B S Kaira (IC-41965) EME, Balakrishna N (IC-41966) Sigs, K V Mathew (IC-41967) Engrs, D S Mor (IC-41968) Arty, K J Babu (IC 41969) Inf, Anupam Sharma (IC-41970) AC, D K Sinha (IC-41971) ASC, Mohinder Singh (IC-41972) ASC, R L Sharma (IC-41973) Inf, C K Agrawal (IC-41974) Arty, Anil Chatta (IC-41975) Inf, D S Suhag (IC 41977) Inf, J P Patla (IC-41978) Inf, P K Pattanayak (IC-41979) Engrs, K N Radhakrishnan (IC-41980) Engrs and P B Chaudhuri (IC-41981) Arty, 9 Jun 86.

J K Chhetri (IC 42164) Inf, Shamsul Hudha (IC 42167) M/Inf, S C Kohar (IC 42170) Arty, D S Shishodia (IC 42172) Inf, Satyendra Kumar (IC 42175) ASC, Sukhbir Singh Gill (IC 42176) Inf, M K Sharma (IC 42177) Sigs, M Jeet

Singh Tiwana (IC 42179) Arty, Aja Tomar (IC 42182) Inf, Jagbir Singh (IC 42184) Arty, R S Yadav (IC 42185) ASC, Y P S Sahu (IC 42190) Inf, S N Satyarthi (IC 42191) Arty, Yashvir Singh (IC 42196) Inf, B Shyam Sunder (IC 42199) Sigs, Dalvinder Singh (IC 42200) Arty, M Salvamani (IC 42201) Engrs, Shaibal Dutt (IC 42202) Inf, C S Sundaram (IC 42205) Arty, Narinder Singh (IC 42206) Inf, S Dutt (IC 42207) AC, Dharam Vir Singh (IC 42208) Inf, V S Pol (IC 42215) Arty, D C Rai (IC 42222) Arty, Chakradhar Raut (IC 42225) Sigs, R K Bhatia (IC 42229) Inf, A E Rai (IC 42231) ASC, D S Kadyan (IC 42233) Inf, G R K S Sareen (IC 42235) Inf and Suresh Kumar Rana (IC 42238) Arty, 9 Jun 86.

S P S Malhotra (IC 41892) Inf, P G Pawar (IC 41893) Inf, S S Dhankhar (IC 41894) Inf, Thomas Joseph (IC 41895) Arty, Rajindra V Desai (IC 41896) Inf, Y K Chahar (IC 41897) Inf, G S Basra (IC 41898) Arty, S S Multani (IC 41899) Engrs, Sunil Singh (IC 41900) M/Inf, Rajiv Bhardwaj (IC 41902) Engrs, N N Singh (IC 41903) Inf, Amarjit Singh (IC 41904) AOC, Sudhir Bahl (IC 41908) AC, S K Sharma (IC 41910) EME, T K Chawla (IC 41912) Arty, P R Jathawade (IC 41913) Inf, Pritam Bishnoi (IC 41914) Sigs, Rohit Kapoor (IC 41915) Engrs, K J Singh (IC 41917) Inf, Ravi K. (IC 41918) Arty, A N Baidur (IC 41920) Engrs, T Rabindra (IC 41921) Arty, Arjun Singh (IC 41922) Arty, U S Mitharwal (IC 41923) ASC, Sanjeev Grover (IC 41924) Arty, Anand N Thakur (IC 41925) Engrs, A H Chauhan (IC 41926) M/Inf, Shivender Singh (IC 41927) Inf, R S Bhadauria (IC 41929) Inf, R K Singh (IC 41930) Arty, B S Gangwar (IC 41931) Inf, S P Goswami (IC 41934) Arty, Kuldeep Singh (IC 41936) Inf, and M S Yadav (IC 41937) Inf, 9 Jun 1986

C B Muthy (IC 42081) Engrs, A S Ruhail (IC 42083) Inf, Anil Raj (IC 42088) Arty, V K S Patil (IC 42089) Engrs, Rajeev Sahni (IC 42091) Inf, Siman P T (IC 42094) Inf, Mohan Das K (IC 42095) Inf, B V Bhabani Prasad (IC 42099) Sigs, R G Adisare (IC 42102) Inf, R B Dolli (IC 42103) Inf, V S Harchand (IC 42109) Inf, Sanjeev Bhatia (IC 42111) Arty, R S Shukla (IC 42112) Engrs, Surendra Sharma (IC 42113) Engrs, S P Shukla (IC 42114) Engrs, Kuriakose A K (IC 42116) Inf, Shaji Kuriachan (IC 42123) Arty, G D Krishnaji (IC 42124) Arty, D K Sasan (IC 42126) Arty, A N Singh (IC 42128) Inf, L S Ramulu (IC 42130) Arty, G K Nair VP (IC 42131) Arty, K J M Roy (IC 42133) Inf, L K Tiwari (IC 42135) AC, H N Jadhav (IC 42137) ASC, R S Verma (IC 42139) EME, Bavu S (IC 42141) Arty, R Gopalakrishnan (IC 42142) Inf, J P Sinha (IC 42144) Arty, Janki Pant (IC 42150) EME, Deva Kumar R N (IC 42155) Inf, Sunjoy Kaushal (IC 42156) Inf, R Ravi Narayan (IC 42157) Arty, A K Chauhan (IC 42159) AC, and Radhakrishnan N (IC 42162) Inf, 9 Jun 86.

P G Rajendran (SL 3314), P S Jaggi (SL 3315), Paras Ram (SL 3316) Puran Chand (SL 3317), S P Awasthi (SL 3318), C A Jose (SL 3319), D M Shariff (SL 3320), Sadhu Singh (SL 3321), Ram Partap (SL 3327), B N Tiwari (SL 3328), Baldev Singh (SL 3329), Kartar Singh (SL 3330), Rajinder Kumar Katoch (SL 3331), Raghunath Singh (SL 3332), Shakti Lal (SL 3333), Attar Singh (SL 3334), Dillbagh Singh (SL 3335), S P Singh (SL 3336), George Vaidiank (SL 3337), Kuldip Singh (SL 3338), M Bharath Bushan (SL 3339), Shankara Pillai (SL 3340), S S Bhandari (SL 3341), S S R Namana (SL 3342), B M Tiwari (SL

3343), P K Sharma (SL 3344), Tarlok Singh (SL 3345), K (Kapal Krishnan K P (SL 3346), D S Panna (SL 3347), 29 Jul 87.

#### ARMY BRANCH

No. 1372, dated the 9th August 1988.—The President is pleased to retire the undermentioned officer on attaining the age of superannuation :—

#### REGULAR ARMY (PERMANENT COMMISSION)

AVM J Vasudeva (15857) (MR-885) AMC/PC, 31-7-87 (AN).

Air Cdr MA Saleem (4843) (MR-978) AMC/PC, 30-9-86 (AN).

Wg Cdr K N Dhar (5539) (MR-2137) AMC/PC, 31-3-85 (AN).

V. K. TEWARI, Maj Gen. Dy DGAFMS

No. 1380, dated the 4th July 1988.—The President is pleased to permit Lt Gen Daljit Singh (IC ) (Retd) to relinquish the appointment of Col Comdt of the Army Service Corps with effect from 31 Jul 87 (AN).

No. 1381, dated the 4th July 1988.—The President is pleased to permit Lt Gen JN Singh (IC ) PVSM (Retd) to relinquish the appointment of Col Comdt of the Army Service Corps with effect from 31 Dec 87 (AN).

PJ SAXENA  
SCSO  
AMS(X)

No. 1382, dated the 5th August 1988.—The undermentioned officer forfeits service as shown against his name by sentence of the GCM :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

IC-43372 2/Lt MK Yadav, Arty.—To forfeit six months service for the purpose of promotion, 14 Sep 1987.

DH PARAB  
Lt Col  
AMS-8A

No. 1383, dated the —The President is pleased to make the following appointment :—

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### TO BE 2/LIEUTENANTS ON PROBATION

The undermentioned is granted Short Service Commission (on probation) for a period of 5 years wef 26 Aug 82 under the provision of special Army Instruction 11 of 64 as amended. His Short Service Commission (on probation) is confirmed from the same date consequent on the completion of the probationary period :—

Sudhir Tripathi (SS 31433Y) AC with seniority next below 2/Lt Sanjeev Kumar (SS 31261P) Inf, whose name appeared in the Gazette of India No. 2019 dated 11 Sep 86.

SC JOSHI  
Lt Col  
AMS 8B

No. 1384, dated the 27th July 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**  
**SHORT SERVICE COMMISSION**  
**2/LT TO BE LT**

Virender Singh Yadav (SS 31318) Engrs. J V Singh M (SS 31320) Inf, Ravindran V (SS 31333) AC, Santanu Ghose (SS 31334) Inf, Joginder Singh (SS 31340), AC, Parwaz Hussain (SS 31344) M/Inf, Suresh Kumar K C (SS 31349) AOC, S S Prasad Singh (SS 31356) Arty, Dalbir Singh (SS 31371) Inf, P K Mahanty (SS 31377) Sigs, Nikhil Kumar Singh (SS 31379) Engrs, Om Prakash Narain (SS 31392) Inf, K K Sutradhar (SS 31394) Inf, John Michael (SS 31395) Arty, R B Lyall (SS 31398) AC, Rajnish Kumar (SS 31405) Engrs, Bijoy Kumar Nandi (SS 31418) Arty, Atul Chaturvedi (SS 31419) Arty, V V Ratnaparkhi (SS 31420) Arty, 12 Mar 85.

Anurag Srivastava (SS 31438) Inf, Veerendra Mohan (SS 31439) Inf, Rajeev Kumar (SS 31444) Inf, Subhash Chandra (SS 31446) Inf, Anil Khanna (SS 31458) Engrs, G P Vasant (SS 31459) Arty, Deepak Bhandari (SS 31479) Inf, Rakesh Chaudhary (SS 31481) Inf, Pranav Kumar (SS 31482) Inf, Raghavan V S (SS 31493) AC, Surat Singh Gill (SS 31496) Arty, R K Bhandari (SS 31501) Inf, Sundeep Kohli (SS 31512) AOC, Charanjit Singh (SS 31519) Arty, Ramesh Chander Sharma (SS 31521) Inf, Sanjeev Kumar (SS 31529) Inf, Rajiv Parashar (SS 31530) EME, Harinder Pal Singh (SS 31535) Arty, Y S Pathania (SS 31552) Arty, Rajeev Parwar (SS 31554) M/Inf, Utpal Kumar Bhuvan (SS 31555) Inf, Prakash Dharan (SS 31556) Inf, I S Sachdeva (SS 31557) Inf, H S Phagura (SS 31558) M/Inf, Amrit Pal Singh Gill (SS 31560) ASC, A N Soni (SS 31566) AC, 27 Aug 85.

No. 1385, dated the 29th July 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**  
**ARMY ORDANCE CORPS**

To be Substantive Subedar Major Amn Tech

Paid Acting Sub Maj Amn Tech Kulwant Singh Dewani (JC-64361A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Maj Amn Tech Lachhman Ram (JC-66463P), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Major Clerk GD

Paid Acting Sub Maj Ck GD Shyam Baboo Singhal (JC-80595N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Maj Ck GD Bonkur Sivanagi Reddy (JC-81705K), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Major Clerk Stores

Paid Acting Sub Maj Ck S Prov Onkar Singh (JC-73935H), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Maj Ck S Prov Satya Pal (JC-73939Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Maj Ck S Cont Divakaran PK (JC-74953X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Maj Ck S Prov Nandan Singh Bisht (JC-76582Y), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Major SK Tech

Paid Acting Sub Maj Skt GS&C Roop Narain Choubey (JC-72220A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Maj Skt GS&C Yad Ram Sharma (JC-72227K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Maj Skt MT Bhupal Singh (JC-72229P), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Major SH GD

Paid Acting Sub Maj SH GD Gurbachan Singh (JC-81394F), 01 Apr 88.

No. 1386, dated the 20th July 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**  
**CORPS OF ENGINEERS**  
**BENGAL ENGINEER GROUP**

To be Sub Maj

Sub Bije Pal Singh (JC-74640Y), 1st Feb 1988.

To be Sub Maj Ck

Sub Ck Sewa Singh (JC-79295N), 1st Jun 1987.

Sub Ck Rama Shankar Pandey (JC-81881F), 1st Oct 1987.

Sub Ck Bansi Ram Sharma (JC-81848K), 1st Oct 1987.

To be Sub

Nb Sub Bhagwan Lal Shah (JC-130527X), 1st Oct 1987.

Nb Sub Dilla Lal (JC-129715N), 1st Oct 1987.

Nb Sub Rameshwar Prasad (JC-132186X), 1st Jan 1988.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-128347L), 1st Jan 1988.

Nb Sub Bahadur Singh (JC-128742L), 1st Jan 1988.

Nb Sub Chander Pal Singh (JC-130536A), 1st Jan 1988.

Nb Sub Dinesh Kumar Sharma (JC-130545F), 1st Jan 1988.

Nb Sub Harjinder Singh (JC-130544Y), 1st Jan 1988.

Nb Sub Raj Pal (JC-132991F), 1st Jan 1988.

Nb Sub Mani Chand (JC-128348A), 1st Jan 1988.

Nb Sub Gopal Singh Bisht (JC-128360F), 1st Jan 1988.

Nb Sub Maghar Singh (JC-128349H), 1st Feb 1988.

Nb Sub Major Singh (JC-128350Y), 1st Feb 1988.

Nb Sub Ram Datt (JC-130525N), 1st Feb 1988.

Nb Sub Raj Deo Singh (JC-128736X), 1st Feb 1988.

Nb Sub Diwan Singh (JC-130532K), 1st Feb 1988.

Nb Sub Sardar Singh (JC-130528F), 1st Feb 1988.

Nb Sub Ram Lal (JC-128744W), 1st Feb 1988.

To be Sub SKT

Nb Sub SKT Prem Lal (JC-121172X), 1st Feb 1988.

To be Sub Svy

Nb Sub Svy Charanjit Singh (JC-98367N), 1st Dec 1987.

Nb Sub Svy Jagdev Singh (JC-98370N), 1st Jan 1988.

Nb Sub Svy Hardev Singh (JC-100829W), 1st Feb 1988.

To be Sub Maj

Sub Darshan Singh (JC-74844L), 1st Mar 1988.

Sub Ram Vyas Singh (JC-74451P), 1st Apr 1988.

To be Sub Maj Ck

Sub Ck Agayakar Singh (JC-69125H), 1st Feb 1988.

To be Sub

Nb Sub Puran Singh Negi (JC-130551P), 1st Jan 1988.

Nb Sub Harchand Singh Brar (JC-128351A), 1st Mar 1988.

Nb Sub Nanda Ballabh Chahali (JC-128352H), 1st Mar 1988.

Nb Sub Manager Singh (JC-130533M), 1st Mar 1988.

Nb Sub Ajmer Singh Gill (JC-128353L), 1st Mar 1988.

Nb Sub Baldev Singh (JC-129718M), 1st Mar 1988.

A. S. RAO, Under Secy.

Nb Sub Ramji Dass (JC-128354N), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Sukhdev Singh (JC-133399Y), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Man Singh (JC-128358K), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Din Dayal Singh (JC-130542N), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Gurcharan Singh (JC-128355W), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ram Khilawan (JC-156695P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Surat Singh (JC-130535Y), 1st Mar 1988.

*To be Sub SKT*

Nb Sub SKT Chuni Lal (JC-121136M), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub SKT Madan Lal Sharma (JC-121171P), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub SKT Sanatan Nayak (JC-121193N), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub SKT Ram Naresh Singh (JC-121137P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub SKT Bachan Singh Sajwan (JC-121173A), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub SKT Jiwan Ram (JC-121176N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub SKT Ignace Tigga (JC-121140P), 1st Apr 1988.

*To be Sub Svy*

Nb Sub Svy Jai Singh Malik (JC-100830L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Svy Pratap Singh (JC-100832W), 1st Apr 1988.

*To be Nb Sub*

Hav Bhairab Datt (No. 1401796X now JC-171463N), 14th Aug 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17th Nov 1985 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (No. 1445697P now JC-171464W), 12th Aug 1987.%

Hav Sudarshan Ram (No. 1401187N now JC-171465Y), 24th Aug 1987.%

Hav Tarsem Singh (No. 1440936P now JC-171466F), 8th Sep 1987.%

Hav Nand Kishor Singh (No. 1440976W now JC-171467K), 22nd Aug 1987.%

Hav Ram Naresh Pandey (No. 1441050K now JC-171468M), 5th Sep 1987.%

Hav Rattan Singh Dosad (No. 1450562X now JC-171469P), 21st Aug 1987.%

Hav Har Lal (No. 1441812M now JC-171470K), 27th Aug 1987.%

Hav Hari Kishan (No. 1442095W now JC-171471M), 22nd Aug 1987.%

Hav Gupteshwar Singh (No. 1443333K now JC-171472P), 18th Aug 1987.%

Hav Bhagat Singh Negi (No. 1441831X now JC-171473X), 12th Aug 1987.%

Hav Om Parkash (No. 1446812W now JC-171474A), 23rd Sep 1987.%

Hav Laxman Singh (No. 1401344P now JC-171475H), 15th Sep 1987.%

Hav Kishor Kumar (No. 1442473K now JC-171476L), 8th Sep 1987.%

Hav Shugan Chand (No. 1445965N now JC-171477N), 18th Aug 1987.%

Hav Daya Nand (No. 1447053N now JC-171478W), 14th Aug 1987.%

Hav Kanwar Singh (No. 1447596A now JC-171479Y), 31st Aug 1987.%

Hav Purshotam Prasad (No. 1402333R now JC-171480N), 9th Sep 1987.%

Hav Jagdish Prasad (No. 1448381M now JC-171481W), 22nd Aug 1987.%

Hav Narayan Chand (No. 1402502N now JC-171482Y), 18th Aug 1987.%

Hav Sipahi Prasad Singh (No. 1448860P now JC-171483P), 17th Aug 1987.%

Hav Parma Nand (No. 1444941Y now JC-171484K), 22nd Aug 1987.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jul 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Satrugan Singh (No. 1449041K now JC-171485M), 3rd Oct 1987.@

Hav Dungar Singh (No. 1449910F now JC-171486P), 3rd Oct 1987.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

*To be Nb Sub Clk (S)*

Hav Clk (S) Hridal Narain Singh (No. 1441513N now JC-171487X) 21st Sep 1987.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

*To be Nb Sub SKT*

Hav SKT Bachan Singh (No. 1447876N now JC-171488A) 25th Sep 1987.\*\*

Hav SKT Naurang Singh (No. 1447820F now JC-171489H), 26th Sep 1987.\*\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

*To be Nb Sub Svy*

Hav Svy Jagir Singh (No. 1436327N now JC-171490X), 20th May 1987.%%

%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th May 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Dilbag Singh (No. 1447878Y now JC-171491A), 22nd Sep 1987.@@

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

*To be Nb Sub*

Hav Ashwani Kumar (No. 1401873F now JC-171492H), 19th Nov 1987.\*

Hav Bachan Singh (No. 1450006F now JC-171493L), 3rd Oct 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Munshi Ram (No. 1402480Y now JC-171494N), 12th Jan 1988.%

Hav Yogindra Nath Singh (No. 1450301K now JC-171495W), 7th Jan 1988.%

Hav Paramjit Singh (No. 1444579P now JC-171496Y), 1st Jan 1988.%

Hav Girish Chandra Joshi (No. 1446556M now JC-171497F), 1st Jan 1988.%

Hav Parson Singh Yadav (No. 1402272H now JC-171498K), 4th Jan 1988.%

Hav Sat Narain Khanda (No. 1447719F now JC-171499M), 31st Dec 1987.%

Hav Dinesh Chander Lohani (No. 1447980F now JC-171500W), 1st Jan 1988.%

Hav Lallan Singh (No. 1448793P now JC-171501Y), 1st Jan 1988.%

Hav Balwant Singh (No. 1445496W now JC-171502F), 31st Dec 1987.%

Hav Bhupal Datt (No. 1402147Y now JC-171503K), 1st Jan 1988.%

Hav Tika Singh (No. 1402196F now JC-171504M), 31st Dec 1987.%

Hav Chander Bahadur Chhetri (No. 5839053L now JC-171505P), 1st Jan 1988.%

Hav Pritam Singh (No. 1447547X now JC-171506X), 28th Dec 1987.%

Hav Ram Pal Singh (No. 1448554A now JC-171507A), 31st Dec 1987.%

Hav Janardan Singh (No. 1449079F now JC-171508H), 2nd Jan 1988.%

Hav Hem Chandra (No. 1449248X now JC-171509L), 1st Jan 1988.%

Hav Bharat Singh (No. 1449656H now JC-171510A), 4th Jan 1988.%

Hav Bir Singh (No. 1449909M now JC-171511H), 2nd Jan 1988.%

Hav Hari Narayan Singh (No. 1449978H now JC-171512L), 7th Jan 1988.%

Hav Mahabal Singh (No. 1450140N now JC-171513N), 26th Dec 1987.%

Hav Ram Singh (No. 1450141P now JC-171514W), 1st Jan 1988.%

Hav Dip Chand Ram (No. 1450188A now JC-171515Y), 31st Dec 1987.%

Hav Ram Binod Singh (No. 1450371H now JC-171516F), 31st Dec 1987.%

Hav Amar Nath (No. 14504474X now JC-171517K), 31st Dec 1987.%

Hav Hem Singh (No. 1450395M now JC-171518M), 26th Dec 1987.%

Hav Sardar Singh Bhist (No. 1450509M now JC-171519P), 1st Jan 1988.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Balwant Singh (No. 1444838M now JC-171520K), 6th Jan 1988.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav SKT Baldev Singh (No. 1448037H now JC-171521M), 9th Nov 1987.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

Hav SKT Shio Bachan Singh (No. 1448155W now JC-171522P), 25th Dec 1987.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Sv Chandra Singh Ghugtyal (No. 1447942L now JC-171523X), 6th Jan 1988.\*\*

\*\*)(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

#### To be Nb Sub

Hav Birendra Singh (No. 1402165F now JC-171524A) 21st Oct 87.™

™(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jul 1987 without effect on pay and allowances).

Hardial Singh Gill (No. 1446851P) now JC-171525H) 9th Oct 87.%

Hav Khushal Singh (No. 1402517N now JC-171526L) 5th Oct 87.%

Hav Bijay Bahadur Singh (No. 1449823N now JC-171527N) 30th Sep 87.%

Hav Adya Prasad Singh (No. 1450196Y now JC-171528W) 7th Oct 87.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

#### To be Nb Sub SKT

Hav SKT Satya Nand Tiwari (No. 1447911L now JC-171529Y) 26th Oct 87.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

#### To be Nb Sub Clk (S)

Hav Clk (S) Rajendra Singh (No. 1447129H now JC-171530N) 31st Oct 87.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 87 without effect on pay and allowances).

#### BOMBAY ENGINEER GROUP

##### To be Subedar Major GD

Sub Dagadu Hol (JC-74433M) 1st July 1987.

Sub Ashfaq Ahmad (JC-76863P) 1st Dec 1987.

Sub Surat Singh (JC-76415H) 1st Jan 1988.

Sub Dattaram Bhosle (JC-76870L) 1st Jan 1988.

##### To be Subedar Major Clk GD

Sub Venu Gopalan Nair (JC-71557W) 1st Dec 1987.

Sub T J Verkey (JC-65429F) 1st Jan 1988.

Sub Hari Gopal Singh (JC-67966M) 1st Feb 1988.

Sub Bakhtawar Singh (JC-64644F) 1st Feb 1988.

Sub Purusottam Sahoo (JC-71450F) 1st Mar 1988.

Sub G Varghese (JC-72627W) 1st Mar 1988.

Sub Lal Singh (JC-72873F) 1st Mar 1988.

Sub Makhan Singh (JC-62691A) 1st Sep 1987.

Sub Madan Mohan (JC-64621A) 1st Sep 1987.

Sub Rajan TM (JC-72648M) 1st Apr 1988.

Sub Shantaram Shinde (JC-74435X) 1st Apr 1988.

Sub Salvindar Singh Sehgal (JC-74436A) 1st May 1988.

Sub Darwar Singh Kanwal (JC-72882F) 1st May 1988.

##### To be Subedar GD

Nb Sub Raoji Ghule (JC-101551M) 1st Aug 1987.

##### To be Subedar Clk GD

Nb Sub Mohd Iqbal Khan (JC-106173H) 1st Nov 1987.

Nb Sub Gurmit Singh (JC-121257N) 1st Apr 1988.

Nb Sub Kailash Rai Sharma (JC-121259Y) 1st May 1988.

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-121260N) 1st May 1988.

Nb Sub Ujagar Singh (JC-121103F) 1st May 1988.

Nb Sub Malkiat Singh (JC-122782W) 1st May 1988.

Nb Sub Shripati Bolave (JC-116414F) 1st May 1988.

Nb Sub Babu Bhol (JC-106175W) 1st Jan 1988.

Nb Sub Chhabil Dass Bishnoi (JC-106176W) 1st Jan 1988.

Nb Sub Hari Patil (JC-121039P) 1st Feb 1988.

Nb Sub Chhotey Lal Sharma (JC-116412A) 1st Feb 1988.

Nb Sub Joginder Dass (JC-116413H) 1st Feb 1988.

Nb Sub Sudhakar (JC-124297A) 1st Mar 1988.

Nb Sub Rajinder Singh (JC-119780A) 1st Mar 1988.

Nb Sub Maha Nand Rohilla (JC-121256L) 1st Mar 1988.

Nb Sub Avtar Singh (JC-121049Y) 1st Mar 1988.

Nb Sub Pandu Nalawade (JC-121040K) 1st Mar 1988.

## (To be Nb Sub (GD))

Hav Ajit Singh (No 1564706P now JC-171595F) 25th Aug 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Chandrakant Shinde (No 1531297M now JC-171596K) 22nd July 1987.@

Hav Parshuram Pandey (No 1564983A now JC-171597M) 5th Aug 1987.@

Hav Dev Raj (No 1536334Y now JC-171598P) 31st Aug 1987.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Raghunath Singh (No 1537766A now JC-171599X) 6th Aug 1987.@@

Hav Mohammed Hadish (No 1539694A now JC-171600F) 6th Aug 1987.@@

Hav Sunder (No 1536366F now JC-171601K) 20th Aug 1987.@@

Hav Mohan Singh (No 1565008Y now JC-171602M) 24th Aug 1987.@@

Hav Kulwarn Singh (No 1533427H now JC-171603P) 24th Aug 1987.@@

Hav Baban Kirjat (No 1565137Y now JC-171604X) 24th Aug 1987.@@

Hav Sukhdev Singh (No 1564168M now JC-171605A) 24th Aug 1987.@@

Hav Malkit Singh (No 1530548Y now JC-171606H) 25th Aug 1987.@@

Hav Mam Chand (No 1565128X now JC-171607L) 25th Aug 1987.@@

Hav Prakash Singh (No 1565597A now JC-171608N) 25th Aug 1987.@@

Hav Chanan Singh (No 1537668A now JC-171609W) 27th Aug 1987.@@

Hav Bajrang Lal Meena (No 1539065H now JC-171610L) 29th Aug 1987.@@

Hav Tarsem Singh (No 1533412A now JC-171611N) 29th Aug 1987.@@

Hav Ranjit Singh (No 1565016X now JC-171612W) 31st Aug 1987.@@

Hav Amar Nath (No 1565274X now JC-171613Y) 3rd Aug 1987.@@

Hav Avtar Singh (No 1537340Y now JC-171614F) 9th Sep 1987.@@

Hav Prem Singh (No 1536179H now JC-171615K) 9th Sep 1987.@@

Hav Vasant Yedake (No 1535987N now JC-171616M) 9th Sep 1987.@@

Hav Ajaib Singh (No 1541158W now JC-171617P) 9th Sep 1987.@@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st July 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Tukaram Atil (No 1538164Y now JC-171618X) 24th Aug 1987.\*\*

Hav Mukhtiar Sheikh (No 1538691A now JC-171619A) 9th Sep 1987.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Nathaji Jadhav (No 1541736A now JC-171620P) 12th Oct 1987.@@@

Hav Devi Singh (No 1541185A now JC-171621X) 12th Oct 1987.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (SKT)

Hav Kunhaiya Prasad Pandey (No. 1530342F now JC-171622A), 18th Aug 1987\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Bhujra Singh (No. 1521509M now JC-171623H), 29th Aug 1987@.

Hav Parmeshwar Hiratti (No. 1531615L now JC-171624D), 2nd Sep 1987@.

Hav Raghunath Singh (No. 1531569I now JC-171625N), 17th Sep 1987@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st July 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Rama Pati Sharma (No. 1531586F now JC-171626W), 29th Aug 1987\* @.

\* @ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1987 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (Cik GD)

Hav Sudhakar Pannase (No. 1538488K now JC-171627Y), 10th Sep 1987\*.

Hav Gan Chand (No 1539047A now JC-171628F), 26th Sep 1987\*.

Hav Hakan Singh (No. 1538749M now JC-171629K), 1st Oct 1987\*.

Hav Charan Singh (No. 1539051H now JC-171630Y), 1st Oct 1987\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25th July 1987 without effect on pay and allowances).

## MADRAS ENGINEER GROUP

## To be Sub Maj GD

Sub GD Peddineedi Srinivasulu Naidu (JC-72579F), 01st Jan 88.

Sub GD Boni Papa Rao (JC-72574H), 01st Jan 88.

Sub GD PM Thomas (JC-73369N), 01st Feb 88.

Sub GD SP Periva Thambi (JC-72892M), 01st Feb 88.

Sub GD T Srinivasulu (JC-72894X), 01st Mar 88.

## To be Sub Maj SKT

Sub SKT Uchintala Nageswara Rao (JC-96619W), 01st Feb 88.

Sub SKT Padmanabhan Nair Vijayanathan Nair (JC-96627P), 01st Mar 88.

## To be Sub Cik GD

Nb Sub Cik Manickam Velmurugan (JC-98267A), 01st Jan 88.

Nb Sub Cik Periyathambi Venkat Raman (JC-95780Y) 01st Feb 88.

Nb Sub Cik Vanchiprayil Sankaran Mohan Kumar (JC-96447M), 01st Mar 88.

Nb Sub Cik Thunuguntla Vithal Nath (JC-98268I), 01st Mar 88.

Nb Sub Cik Chinganda Chinnappa Chengappa (JC-96416M), 01st Mar 88.

## To be Sub GD

Nb Sub GD Hosdrugkanhangad Venkatesha (JC-106872N), 01st Nov 87.

Nb Sub GD Robert John (JC-108889A), 01st Feb 88.

Nb Sub GD Menimnet Masilamani Duraiswamy (JC-109347H), 01st Feb 88.

## To be Sub Maj GD

Sub GD C Loganathan (JC-73370H), 01st Apr 88.

## To be Sub Maj Ck

Sub Ck Parathy Valappil Govindan (JC-69166M), 01st Apr 88.

Sub Ck Ramavvan Paramasivan (JC-69228F), 01st Apr 88.

## To be Sub Ck (GD)

Nb Sub Ck K Bhaskaran (JC-95165F), 01st Nov 87.

Nb Sub Ck Malempati Krishnamurthy (JC-96453A), 01st Feb 88.

Nb Sub Ck Mariappan Radha (JC-98269N), 01st Mar 88.

Nb Sub Ck Perineanazhi Kunnath Bhaskaran (JC-96415K), 01st Apr 88.

Nb Sub Ck Velu Ganapathi (JC-96450M), 01st Apr 88.

Nb Sub Ck Dhoolipala Venkata Ramanayya (JC-06426W), 01st Apr 88.

Nb Sub Ck Sivarama Pillai MV (JC-99473Y), 01st Apr 88.

Nb Sub Ck Gadilli Nagamani (JC-98646F), 01st Apr 88.

Nb Sub Ck Doraiswami Padmanaban (JC-97198L), 01st Apr 88.

Nb Sub Ck Naniunda Murthi Ramalingam (JC-97201A), 01st Apr 88.

## To be Nb Subs

Hav Murugesan Chandrasekaran (No. 1357179M now JC-171531W), 01st Mar 87.

Hav Doraisamy Viswanathan (No. 1351680H now JC-171532X), 01st May 87.

Hav Govindaraju Shanmugam (No. 1350485Y now JC-171533F), 01st Jul 87.

Hav Daniel Joe Kamalnathan (No. 1352076K now JC-171534K), 30th Jul 87\*.

Hav Rama Unnikrishna Kurup (No. 1355192X now JC-171535M), 05th Sep 87%.

Hav Chellakkal Varughese Thomas (No. 1356927H now JC-171536P), 01st Aug 87.

Hav Sathyanarayanan Sriramachandran (No. 1349472P now JC-171537X), 01st Aug 87.

Hav Muthu Thangesvaran (No. 1351703Y now JC-171538A), 01st Aug 87.

Hav Kandasamy Muthukrishnan (No. 1356549P now JC-171539H), 01st Aug 87.

Hav Raju Natarajan (No. 1356044Y now JC-171540X), 01st Aug 87.

Hav Kuppaswamy Anbazhagan (No. 1357692N now JC-171541A), 01st Aug 87.

Hav A Palani (No. 1358675A now JC-171542H), 01st Aug 87.

Hav K Rajamanickam (No. 1359522H now JC-171543L), 01st Aug 87.

Hav Chacko NV (No. 1358509M now JC-171544N), 01st Aug 87.

Hav Pandur Pydi Naidu (No. 1352097X now JC-171545W), 01st Aug 87.

Hav Karimula Shaik (No. 1352604H now JC-171546Y), 01st Aug 87.

Hav Dhanapal Vijayan (No. 1352049A now JC-171547F), 01st Aug 87.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jul 87 without effect on pay and allowances).

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 87 without effect on pay and allowances).

Hav Sankara Narayanan Ariyanan (No. 1357352L now JC-171548K), 01st Aug 87.

Hav Kalavai Annamalai Sivaprakasam (No. 1353525A now JC-171549M), 18th Aug 87%.

Hav Dhanapal Umasankaran (No. 1354056P now JC-171550F), 01st Aug 87.

Hav Chinnasamy Balasundaram (No. 1353523P now JC-171551K), 01st Aug 87.

Hav Mahadeva Naicker Devarai (No. 1353530L now JC-171552M), 01st Aug 87.

Hav Narayanan Kannan (No. 1357044L now JC-171553P), 01st Aug 87.

Hav Harindran Othavoth (No. 1360742L now JC-171554X), 01st Aug 87.

Hav Mookkaiyah Ramasamy (No. 1350303A now JC-171555A), 01st Aug 87.

Hav M Xavier (No. 1362487W now JC-171556H), 01st Aug 87.

Hav Gajje Parvathalu (No. 1357244F now JC-171557L), 01st Sep 87.

Hav Mastan Vali (No. 1357783X now JC-171558N), 20th Oct 87@.

Hav Thottathil Balan (No. 1354363M now JC-171559W), 02nd Oct 87@.

Hav Vadlamuri Tatabbai (No. 1354559A now JC-171560L), 01st Sep 87.

Hav M Mathiyalakan (No. 1359201L now JC-171561N), 01st Sep 87.

Hav Shaik Khasim (No. 1344622W now JC-171562W), 08th Sep 87@.

Hav Sadayan Natarajan (No. 1350937W now JC-171563Y), 13th Sep 87.

Hav Gangadharam Mani (No. 1354068K now JC-171564F), 01st Oct 87.

Hav G Alagumalai (No. 1359051A now JC-171565K), 01st Oct 87.

Hav Kannan Kanniappan (No. 1357049K now JC-171566M), 01st Oct 87.

Hav Ronur Naravanappa Muni Venkattappa (No. 1351871M now JC-171567P), 01st Oct 87.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 87 without effect on pay and allowances).

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 87 without effect on pay and allowances).

Hav/Cik Antony Vincent Aloysius Michael Xavier (No. 1348288X now JC-171568X), 01 Jul 87.

Hav /Cik Swaminathan Arokiadass% (No. 1350401A now JC-171569A), 01 Jul 87\*.

Hav/Cik Kunhikannan Kuttipurath (No. 1350664Y now JC-171570P), 01 Oct 87.

Hav/Cik Ankalagi Bhimappa Ramalingappa% (No. 1350671P now JC-171571X), 01 Oct 87@.

Hav/Cik Parakkat Vasudevan (No. 1350745Y now JC-171572A), 01 Oct 87.

Hav/Cik Gangadharan Pillai Appukuttan Nair% (No. 1347368H now JC-171573H), 01 Oct 87@.

Hav/Cik Athisivan Subbiah (No. 1347522W now JC-171574L), 01 Nov 87.

Hav/Cik Puliyamkodan Chemmaran Ramakrishnan (No. 1350578N now JC-171575N), 16 Nov 87%.

Hav/Cik Thankappan V (No. 1347347M now JC-171576W), 03 Nov 87%.

Hav/Clk Pappachen KV (No. 1347655M now JC-171577-Y), 03 Nov 87£.

Hav/Clk Muthusamy Santharam (No. 1357101F now JC-171578F), 01 Nov 87.

To be Nb Sub/SKsT

Hav/SKT Unnikrishnan Sankethathil (No. 1350851X now JC-171579K), 01 Oct 87.

Hav/SKT Ramamirtham Gopinath (No. 1350902A now JC-171580Y), 23 Oct 87§.

Hav/SKT Krishnan Thankappan (No. 1351204K now JC-171581F), 01 Nov 87.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 87 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Sep 87 without effect on pay and allowances).

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 87 without effect on pay and allowances).

§(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 87 without effect on pay and allowances).

% (Accelerated promotion).

To be Nb Sub Clks

Hav/Clk Guddapati Lingaiah (No. 1342530L now JC-171582K), 01 Jul 87.

Hav/Clk Baleal Velu Divakaran (No. 1347643X now JC-171583M), 07 Oct 87\*.

Hav/Clk Periasamy Duraipandian (No. 1350686L now JC-171584P), 01 Aug 87.

Hav/Clk Narayanan Nair Rajasekharan Nair (No. 1350259F now JC-171585X), 01 Sep 87.

Hav/Clk Muradan Palackal Gopalan Muraleedharan Pillai (No. 1350363P now JC-171586A), 12 Sep 87.

Hav/Clk Gunda Jagannadham (No. 1347649Y now JC-171587H), 20 Sep 87@.

Hav/Clk Duraisami Thangaraju (No. 1347105K now JC-171588L), 15 Sep 87.

Hav/Clk Chinnakulandi Govindaraj (No. 1350384L now JC-171589N), 15 Sep 87.

Hav/Clk Subba Reddiar Perumal (No. 1350376M now JC-171590H), 15 Sep 87.

Hav/Clk Kaliyikkal Gopala Pillai Manikantan Nair (No. 1350591X now JC-171591L), 01 Oct 87.

Hav/Clk Narayanan Edacherry (No. 1350605M now JC-171592N), 01 Oct 87.

To be Nb Sub SKsT

Hav/SKT Pushpangadan Puthan Veetil (No. 1349973P now JC-171593W), 01 Sep 87.

Hav/SKT Chinthamani Chandran (No. 1350467W now JC-171594Y), 01 Oct 87.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 87 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15 Sep 87 without effect on pay and allowances).

#### MES MILITARISED CADRE

(To be Sub Maj)

Sub Suresh Chandra Sharma (JC-51861Y), 01st Nov 1987.

Sub Satya Paul Sharma (JC-31467M), 01st Nov 1987.

Sub B K Narayana Setty (JC-42585A), 01st Nov 1987.

Sub Krishan Kumar Khatri (JC-48821M), 01st Nov 1987.

Sub Shaik Modin Saheb (JC-49370K), 01st Nov 1987.

Sub Srinivasa Murthy (JC-54101F), 01st Nov 1987.

Sub Iqbal Mohamad (JC-82275X), 01st Nov 1987.

Sub James Cherian (JC-81481P), 01st Nov 1987.

Sub Masilamani Koilpitchai (JC-54084M), 01st Dec 1987.

Sub Sangiah Muthuramalingam (JC-65407K), 01st Dec 1987.

Sub Nandiga Srinivasa Rao Nagendra Rao (JC-54155H), 01st Jan 1988.

Sub Balagopalan Pulappetta Madathil (JC-54156L), 01st Jan 1988.

Sub Narayanan Chirukandeth (JC-70500P), 01st Jan 1988.

Sub Madhu Sudan Singh (JC-77571Y), 01st Jan 1988.

Sub Parminder Singh Hattar (JC-79287F), 01st Jan 1988.

(To be Subedar)

Nb Sub Makhan Singh (JC-95482H), 01st Aug 1987.

Nb Sub Tejpal Singh (JC-99419L), 01st Oct 1987.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-99489K), 01st Oct 1987.

Nb Sub Subhash Chander Kapoor (JC-51416A), 01st Oct 1987.

Nb Sub Achuthan Pillai Gopala Pillai (JC-65644N), 01st 1987.

Nb Sub Marangadath Rajagopalan (JC-65820A), 01st Oct 1987.

Nb Sub Nanjunda Swamy (JC-66348P), 01st Oct 1987.

Nb Sub Chakkara Kottungal Padmanabhan (JC-67347P), 01st Oct 1987.

Nb Sub Peala Nanja Rangan (JC-70052N), 01st Oct 1987.

Nb Sub Kanakkassery Raman Kutty Bharathan (JC-70053W), 01st Oct 1987.

Nb Sub V M Narayanan Namboodiri (JC-71487H), 01st Oct 1987.

Nb Sub Anna Rao (JC-73140P), 01st Oct 1987.

Nb Sub Kannat Velu Unny (JC-79251H), 01st Oct 1987.

Nb Sub Kochu Kutty Pappachan (JC-85532P), 01st Oct 1987.

Nb Sub Punniamuthoo Johnson (JC-89071N), 01st Oct 1987.

Nb Sub Geo Verughese (JC-94152X), 01st Oct 1987.

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-93676M), 01st Oct 1987.

Nb Sub Abdul Aziz N (JC-123940M), 01st Oct 1987.

Nb Sub Yadavalli Sreerama Neelakhanta Sastri (JC-92695L), 01st Oct 1987.

Nb Sub Vijay Bahadur Singh (JC-92696N), 01st Oct 1987.

Nb Sub Charan Dass Phull (JC-95496H), 1st Oct 1987.

Nb Sub Narain Singh (JC-93683H), 01st Oct 1987.

Nb Sub Basavaneppa Goudar (JC-122914Y), 01st Oct 1987.

Nb Sub Jarnail Singh (JC-123941P), 01st Oct 1987.

Nb Sub Om Prakash Rawat (JC-121240A), 01st Oct 1987.

Nb Sub Harcharan Singh (JC-122918P), 01st Oct 1987.

Nb Sub Paramjit Singh (JC-121212N), 01st Oct 1987.

Nb Sub Mehanga Singh (JC-121217M), 01st Oct 1987.

Nb Sub Joginder Singh (JC-86977N), 01st Oct 1987.

Nb Sub Prem Singh (JC-57830P), 01st Oct 1987.

Nb Sub Tirath Ram (JC-54363X), 01st Oct 1987.



Nb Sub Sohan Singh (JC-59048L), 01st Oct 1987.  
 Nb Sub Ram Singh (JC-64944H), 01st Oct 1987.  
 Nb Sub Rangaswamy Chinnappan (JC-123936K), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Math Mallayya Madivalayya (JC-65620K), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Popat Salunkhe (JC-86628K), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Devi Singh (JC-86712K), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Harish Chander Sharma (JC-86622H), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Tribhuvan Nath Upadhyay (JC-86664P), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Kartar Singh (JC-86737W), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Nagarajan (JC-86395N), 01st Nov 1987.  
 Nb Sub Rishi Kumar (JC-64951Y), 01st Jan 1988.

(To be Nb Sub)

Hav Ram Krishna (1449968Y Now JC-171453K), 15th Sep 1987.\*  
 Hav K. Kaliappan (1360656N Now JC-171454M), 19th Sep 1987.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12th June 1987 without effect on pay and allowances).  
 Hav Bagga Singh (1440629X Now JC-171455P), 11th Aug 1987.\*\*  
 Hav Baldev Singh (1441686L Now JC-171456X), 19th Sep 1987.\*\*  
 Hav Ram Rattan (1448342P Now JC-171457A), 21st Sep 1987.\*\*  
 Hav Neyyala Damodara (1349416W Now JC-171458H), 19th Sep 1987.\*\*  
 Hav Nasimuddin Khan (1531649Y Now JC-171459I), 11th Sep 1987.\*\*  
 Hav Shanker Dass (1532069W Now JC-171460A), 04th Sep 1987.\*\*  
 Hav Gulzar Ram (1531284P Now JC-171461H), 17th Sep 1987.\*\*  
 Hav Balkrishnan Sharma (1535959F Now JC-171462L), 12th Aug 1987.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24th June 1987 without effect on pay and allowances).

HARISH CHANDRA, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 1387, dated 9-8-1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Corps of Signals

To be Sub (GD)

Nb Sub Ram Naryan (JC-141180X), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Bhanu Gopal Patnaik (JC-141200A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Bishwanath Singh (JC-141201H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Jagir Singh (JC-146087A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Kuldip Rai (JC-141202L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Jit Singh (JC-104637W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Madan Singh (JC-125549N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Durga Parahad (JC-135308F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Rajinder Singh Gill (JC-137333Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Annda Tomake (JC-140273A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Soma Lal Choudhari (JC-135384N), 1st Apr 1988.

Nb Sub Mohan Singh (JC-140294W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Mahander Singh Yadav (JC-141171W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Thomas Y (JC-140297K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Mohan Singh (JC-141185W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Kumaran Fzhuthu Pillil (JC-141187F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Niwas Verma (JC-146074H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-141194X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gopal Singh (JC-146088H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Satyanarain Singh (JC-146091H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ernest Nanoo (JC-146092), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Autar (JC-146093N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Surya Prasad Pathak (JC-146094W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Avtar Singh (JC-146095Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Aji Ram Sharma (JC-146096F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Harish Chandra Singh (JC-146097K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Lahari Chaube (JC-146101F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gopinathan Nair P n (JC-150114W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Swaroop Bana (JC-146102K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Das (JC-150115Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Bansidhar Mina (JC-146103M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Harsaran Lal Sharma (JC-146104P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Mugut Rai Jadhav (JC-146106A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Om Prakash (JC-150116F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Shatrughna Prasad Choudhary (JC-146108L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Brij Lal Katwal (JC-146109N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Radha Krishna Vishwakarma (JC-146110W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Kanwar (JC-150117K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Radhey Shyam Chaturvedi (JC-146111L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sham Parkash (JC-146112N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Baldev Singh (JC-146114Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-146115F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sangat Singh Shan (JC-150118M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Janak Raj Markanda (JC-146116K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Mata Deen (JC-146117M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Kugalur Arumugha Mudaliar Senniappan (JC-146119X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Prahlad Kamla (JC-146120M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Shanker Lal Shah (JC-146121P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Prayag Datt Joshi (JC-146123A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sulakhan Singh (JC-146124), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Amar Singh (JC-146125L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ratinder Kumarf Dey (JC-150120K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gian Chand Banial (JC-146121W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Malkiat Singh Verma (JC-150122P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Kripal Singh (JC-146128Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Muni Raj Tyagi (JC-146129F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Bir Singh (JC-146131Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Jairam Jathar (JC-150123X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Mangesh Sail (JC-150124A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gopal Nath Rai (JC-150126L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Dalip Singh Verma (JC-150128W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Hanvant Singh (JC-150129Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Attar Singh Thakur (JC-146132F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Anand Prakash (JC-146134M), 1st May 1988.  
 Nb Sub Sunder Singh (JC-150131W), 1st May 1988.  
 Nb Sub Dhanna Lal (JC-146135P), 1st May 1988.  
 Nb Sub Ram Chandrika Upadhyay (JC-150132Y), 1st May 1988.  
 Nb Sub Sheo Kumar Singh (JC-146137A), 1st May 1988.  
 Nb Sub Ginder Singh (JC-146139L), 1st May 1988.  
 Nb Sub Ram Kumar Yadava (JC-150134F), 1st May 1988.  
 Nb Sub Devi Singh (JC-146140A), 1st May 1988.  
 Nb Sub Vasudevan CC (JC-150135M), 1st May 1988.  
 Nb Sub Kishan Singh (JC-150136P), 1st May 1988.  
 Nb Sub Shiv-Munti Mishra (JC-146141H), 1st May 1988.  
 Nb Sub Piara Lal (JC-146142L), 1st June 1988.  
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-150139H), 1st June 1988.  
 Nb Sub Dalbir Singh Verma (JC-146143N), 1st June 1988.  
 Nb Sub Kolar Veetil Padmasanan (JC-150141A), 1st June 1988.  
 Nb Sub Singan Arumugam (JC-146144W), 1st June 1988.  
 Nb Sub Bachan Singh (JC-150142H), 1st June 1988.  
 Nb Sub Abraham T A (JC-146145Y), 1st June 1988.  
 Nb Sub Mahanand Tiwari (JC-146146F), 1st June 1988.  
 Nb Sub Ramesh Chander (JC-146147K), 1st June 1988.  
 Nb Sub Ganesh Ram (JC-146148M), 1st June 1988.  
 Nb Sub Jagdish Prasad Yadava (JC-150143L), 1st June 1988.  
 Nb Sub Harbans Singh (JC-146149P), 1st June 1988.

## To be Sub (OP Spec)

Nb Sub Sarv Singh (JC-133206M), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub G Musal Reddy (JC-133207P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Raja Ram Sharma (JC-133208X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Velayudhan Pillai Vijaya Chandra Kumar (JC-133209A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Murari Prasad Shrivastwa (JC-133210P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Prem Dass (JC-133563P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Parkash Sharma (JC-133213H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sheik Ismail (JC-135234X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Subash Chander (JC-133214L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Om Prakash (JC-129985H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Bhupinder Pal (JC-133217Y), 1st Apr 1988.

Nb Sub Jagdish Chander (JC-133218F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Vadakke Kunnimel Ramachandran (JC-133220Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Rattan Chand (JC-133221F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Hari Singh Yadava (JC-133222K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Uttam Chand (JC-133223M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gopala Pillai Jagan Nathan Nair (JC-133224P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Pramoda Nand Mishra (JC-135367N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Vasant Shinde (JC-133225X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Balakrishnan Pillai KG (JC-133226A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ramswarth Sah Sudhansu (JC-133227H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Prabodh Jha (JC-133229N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Khandagale Bhanudas (JC-133564X), 1st Apr 1988.

## To be Sub (Clerk GD)

Nb Sub Kundal Lal (JC-125936H), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Jai Karan Sharma (JC-117893K), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Randhir Singh (JC-117894M), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Pan Singh (JC-117895P), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Narayanan Sahadevan (JC-118043M), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub K Prakashan (JC-117896X), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Thomas Philipose (JC-118044P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Prem Singh Longia (JC-122001X), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Naresh Prasad Sharma (JC-117898H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub KK Unnikrishnan Nair (JC-117899L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sakal Dip Rai (JC-117900P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Karunakaran Erakkathil (JC-117902A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Moti Lal (JC-122002A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Mathai Abraham (JC-122005N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Ratan Lal (JC-125600H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Pritam Singh (JC-125937L), 1st Apr 1988.

## To be Sub (SKT)

Nb Sub Mari Muthu Nagappan (JC-137324X), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Mahadeo Singh (JC-135377X), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub K Bhaskaran Nair (JC-137325A), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Suresh Chandra (JC-137326H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Baleshwar (JC-135379H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Mohan Chandra Joshi (JC-135380X), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ram Lal (JC-135381A), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub VM Parameswaran Pillai (JC-137327L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ramachandran K. (JC-137328N), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ram Chandra Singh (JC-137329W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Genda Singh (JC-137331N), 1st May 1988.  
To be Sub (OP Ciph)

Nb Sub Sukhdeo Prasad Yadav (JC-104664A), 1st Apr 1987.

Nb Sub Kumar Saini (JC-113583F), 1st Feb 1988.

Nb Sub VR Damodra Kurup (JC-113584K), 1st Feb 1988.

Nb Sub Om Parkash (JC-113586F), 1st Mar 1988.

Nb Sub Hawa Singh (JC-113589H), 1st Mar 1988.

Nb Sub Phillip PM (JC-116031Y), 1st Apr 1988.

Nb Sub Triloki Sabai Rastogi (JC-113591A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Balkrishan Dwivedi (JC-113592H), 1st Apr 1988.

Nb Sub Thomas VJ (JC-113593L), 1st Apr 1988.

Nb Sub Rami Chand (JC-116032F), 1st Apr 1988.

Nb Sub Banarsi Dass Sharma (JC-113596Y), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ilam Singh (JC-116033K), 1st Apr 1988.

Nb Sub Sunil Datt Bhardwaj (JC-116034M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Kitab Singh Geroh (JC-113599M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ramaswamy Manickam (JC-113600W), 1st Apr 1988.

Nb Sub R Ranga Samy (JC-118046A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Bhuwan Chandra Joshi (JC-118047H), 1st Apr 1988.

Nb Sub Benkal Katramodi Govardhana (JC-117847P), 1st Apr 1988.

Nb Sub Dibakar Datt (JC-126759A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Vijay Bhan Singh (JC-74120N), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ajmer Singh (JC-98005M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Shiva Datt Mishra (JC-113531L), 1st Apr 1988

Nb Sub Thambannan Padmanabhan Kuttappan (JC-113590X), 1st Apr 1988.

Nb Sub Kesab Chandra Pal (JC-125901M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Bimal Chandra Singh (JC-117848X), 1st May 1988.

Nb Sub Bajrang Singh (JC-118048A), 1st May 1988.

Nb Sub Kalyan Singh (JC-113546N), 1st Apr 1987.

To be Sub (GD)

Nb Sub Prem Singh (JC-121961K), 1st Apr 1987.

Nb Sub Mahavir Singh (JC-135334H), 1st Aug 1987.

Nb Sub Deo Datt (JC-140278Y), 1st Oct 1987.

Nb Sub Rajendra Singh Kushwaha (JC-140308L), 1st Dec 1987

Nb Sub Kunju Panickan Ramesan (JC-140309N), 1st Dec 1987.

Nb Sub Hari Chand (JC-140310H), 1st Dec 1987.

Nb Sub Tilak Raj (JC-140320M), 1st Jan 1988.

To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub Ramakant Shastri (JC-117889F), 1st Jan 1988.

To be Sub (Yeoman of Signals)

Nb Sub Lallan Prasad Singh (JC-113490M), 1st Apr 1988.

8—224 GI/88

Nb Sub Parma Ram Pathania (JC-113491P), 1st Apr 1988.

Nb Sub Gurnam Singh (JC-116019X), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ravail Singh (JC-113492X), 1st Apr 1988.

Nb Sub Sirsabesa Sundra Ganesan (JC-113493A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Rajendra Prasad Yadava (JC-113494H), 1st Apr 1988.

Nb Sub Amarjit Singh (JC-113495L), 1st Apr 1988.

Nb Sub Sainudeen M (JC-118083N), 1st Apr 1988.

Nb Sub Subba Naicker Durai Sam (JC-118084W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Krishna Deo Kumar Singh (JC-118085Y), 1st Apr 1988.

Nb Sub Kushal Singh (JC-118086F), 1st Apr 1988.

Nb Sub Gian Chand Verma (JC-118087K), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ishar Dass (JC-117957K), 1st Apr 1988.

Nb Sub Jai Pal Singh Raghava (JC-117958M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Surjit Singh Rana (JC-118088M), 1st Apr 1988.

To be Sub (Foreman of Signals)

Nb Sub Gajraj Baurasi (JC-98023P), 1st Apr 1988.

Nb Sub Sadhu Ram (JC-118074M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Harchand Singh Sandhar (JC-126875H), 1st Apr 1988.

Nb Sub Puranchandra Mahapatra (JC-126907A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Gopal Singh (JC-126909L), 1st Apr 1988.

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-126911H), 1st Apr 1988.

Nb Sub Shamarno Desai (JC-126912L), 1st Apr 1988.

Nb Sub Kedar Nath Gupta (JC-126914W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Vadsola Lalji (JC-126916F), 1st Apr 1988.

Nb Sub Varghese Kattuparambil Joseph (JC-126910A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ghasita Ram (JC-129956N), 1st Apr 1988.

Nb Sub Bijendra Singh (JC-129957W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Sakpal Laxman Ganpat (JC-129959F), 1st Apr 1988.

Nb Sub Devendra Nath Dhar Dubey (JC-133110K), 1st Apr 1988.

Nb Sub Khadge Vinayak Pandurang (JC-129961Y), 1st Apr 1988.

Nb Sub R Guru Swamy (JC-133111M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Kamal Singh (JC-135215M), 1st Apr 1988.

Nb Sub Gulab Singh (JC-129962F), 1st Apr 1988.

Nb Sub Lamber Singh (JC-133113X), 1st Apr 1988.

Nb Sub Ramesh Kumar Dhadwal (JC-133114A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Raman Perumal Swamy (JC-129963K), 1st Apr 1988.

To be Nb Sub (Y of S)

Hav Parbhu Ram (No. 14284756H now JC-173610K), 13th Dec 1987.

Hav Hira Lal Sah (No. 14285682I now JC-173611M), 5th Feb 1988\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Dull Chand Yadav (No. 14216947Y now JC-173612P), 1st Feb 1988\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav China Rosaiah Murukutla (No. 14215101L now JC-173613X), 5th Jan 1988\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Kamla Prasad Verma (No. 14217393X now JC-173614A), 18th Jan 1988\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (F of S)

Hav Amar Singh (No. 14291979H now JC-173615H), 12th Feb 1988\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chand Lalotra (No. 14280614K now JC-173616L), 11th Jan 1988%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Anop Singh Shekhawat (No. 14286523A now JC-173617N), 25th Jan 1988%%

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Tajarata Chaudhary (No. 14216388A now JC-173618W), 14th Jan 1988%%%

%%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Vinod Kumar (No. 14292513M now JC-173619Y), 25th Jan 1988%%%

%%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Pawan Kumar (No. 14219776H now JC-173620N), 21st Jan 1988%%%

%%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Shambhu Nath Pandey (No. 14216154W now JC-173621W), 21st Jan 1988@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Op Ciph)

Hav Mauji Ram (No. 14276471F now JC-173622Y), 12th Jan 1988@@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdev Kumar (No. 14206012P now JC-173623F), 31st Dec 1987@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Qawi Raza (No. 14200041K now JC-173624K), 5th Feb 1988@@@@

@@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Sugathan K (No. 14279188Y now JC-173625M), 6th Feb 1988@@@@@

@@@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav M M Mathew (No. 14276970W now JC-173626P), 1st Feb 1988.

To be Nb Sub (Op Spec)

Hav Amarjit Singh Chahal (No. 6312651M now JC-173627X), 5th Dec 1987£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Rattan Singh (No. 6312727F now JC-173628A), 16th Dec 1987££

££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Singh (No. 6313813Y now JC-173629H), 24th Jan 1988£££

£££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Nath Sharma (No. 6316330M now JC-173630X), 28th Dec 1987££££

££££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Singh (No. 6285343A now JC-173631A), 16th Jan 1988£££££

£££££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Pal Singh Dhillon (No. 6309304H now JC-173632H), 9th Jan 1988&

& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Jagan Nath Prasad (No. 6309612H now JC-173633L), 7th Jan 1988&&

&& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Pratap Singh (No. 6326356P now JC-173634N), 19th Jan 1988&&&

&&& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Narendra Kumar Yadav (No. 14202030W now JC-173635W), 21st Jan 1988&&&&

&&&& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Lakhan Kishor Pandey (No. 6307738K now JC-173636Y), 11th Jan 1988&&&&&

&&&&& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav T. Radhakrishnan (No. 6310579H now JC-173637F), 7th Jan 1988.\*

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Satya Narayan (No. 6311316W now JC-173638M), 11th Jan 1988.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Inder Singh (No. 6311862H now JC-173639M), 17th Feb 1988\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (No. 6313267X now JC-173640F), 3rd Feb 1988\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Boota Ram Kundloss (No. 6327884I now JC-173641K), 19th Jan 1988\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav PRC Raju (No. 14275413L now JC-173642M), 9th Jan 1988"

" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Gaya Prasad (No. 6325824X now JC-173643P), 20th Jan 1988"

" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 6312162F now JC-173644N), 23rd Jan 1988""

"" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav M Singh Jakhar (No. 6317215Y now JC-173645A), 11th Jan 1988""

"" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Brij Pal Singh (No. 6309764K now JC-173646H), 4th Jan 1988.££££

“(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Daya Ram (No. 6317230N now JC-173647L), 25th Jan 1988%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Balwan Singh Malik (No. 14277112A now JC-173648N), 11th Jan 1988%%

%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Singh (No. 1427728P now JC-173649W), 5th Jan 1988%%%

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Singh Chauhan (No. 6326428N now JC-173650L), 18th Jan 1988%%%

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Pal Singh (No. 6305573X now JC-173651N), 8th Feb 1988%%%

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav S Ramaiah (No. 6307082A now JC-173652W), 6th Jan 1988@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Surya Narayana (No. 14277308N now JC-173653Y), 7th Jan 1988.@@

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Srinivas Sarma (No. 14202377H now JC-173654F), 4th Feb 1988.@@@

@@@(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Tak Chand (No. 6316359P now JC-173655K), 25th Jan 1988.@@@

@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Tara Chand (No. 6314144X now JC-173656M), 12th Jan 1988.@@@@

@@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav P Kumar Panda (No. 6316577N now JC-173657P), 15th Jan 1988.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh Pundir (No. 14201402K now JC-173658X), 22nd Jan 1988.££

££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav S C Hajra (No. 14277132N now JC-173659A), 15th Feb 1988.£££

£££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Nand Kishore Saini (No. 14203396A now JC-173660P), 24th Feb 1988.££££

££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav B Madan Bhavi (No. 14277570W now JC-173661X), 2nd Feb 1988.££££

££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Beeram Lal (No. 14278036L now JC-173662A), 30th Jan 1988.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Purushothaman Nair CN (No. 14278058K now JC-173663H), 23rd Jan 1988.&&

&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Vasu C (No. 14278060F now JC-173664L), 20th Jan 1988.&&&

&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav S D Prasad (No. 14204912W now JC-173665N), 23rd Jan 1988.&&&&

&&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (SKT)

Hav Diwani Lal Shah (No. 14204869A now JC-173666W), 21st Jan 1988.&&&&

&&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Dayanand Morey (No. 14204504I now JC-173667Y), 25th Jan 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Kirofi Mal (No. 13919656A now JC-173668F), 11th Feb 1988.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Chandra (No. 14204653Y now JC-173669K), 1st Feb 1988.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav KGR Krishna Kurup (No. 14205332M now JC-173670Y), 12th June 1987.\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ved Parkash (No. 6316416J now JC-173671F), 23rd Jan 1988.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Gandharv Singh (No. 6307201L now JC-173672K), 29th Jan 1988."

"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav K B Chhetri (No. 6306840A now JC-173673M), 25th Nov 1987.""

- ""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Raj Pal (No. 6309739L now JC-173674P), 21st Dec 1987. ""
- ""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Ram Awatar (No. 6312965N now JC-173675X), 30th Dec 1987. ""
- ""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Sudhir Kumar Das (No. 6317426F now JC-173676A), 16th Jan 1988. ""
- ""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Vasant Dalavi (No. 6313919L now JC-173677H), 7th Jan 1988. %
- %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav N C Sharma (No. 630469P now JC-173678L), 1st Dec 1987. % %
- Hav Ratin Kishan (No. 6325786M now JC-173679N), 11th Jan 1988. % %
- %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Prakash Chand (No. 6309578N now JC-173680H), 2nd Feb 1988. % % %
- %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Krishan Chand (No. 6285170N now JC-173681L), 12th Feb 1988. % % % %
- %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Surinder Mohan (No. 6307247N now JC-173682N), 18th Jan 1988. % % % % %
- %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Moneal Singh (No. 6324961K now JC-173683W), 4th Jan 1988. @
- @(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Vikramaditya (No. 6310635W now JC-173684Y), 15th Jan 1988. @@
- Hav Vikramaditya Katiyar (No. 6310635W now JC-173694Y), 15th Jan 1988. @@
- @@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Rajendra Prasad Rai (No. 6309490K now JC-173685F), 5th Jan 1988. @@@
- @@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Gorakh Nath Tripathi (No. 6325456N now JC-173686K), 12th Jan 1988. @@@@
- @@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Gurbax Lal (No. 6312125N now JC-173687M), 8th Jan 1988. @@@@@
- @@@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Piara Singh Panchi (No. 6325074K now JC-173688P), 29th Jan 1988. £
- £(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Gian Singh (No. 6307788P now JC-173689X), 5th Jan 1988. £ £
- £ £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Amar Singh (No. 6312722H now JC-173690M), 12th Jan 1988. £ £ £
- £ £ £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Virendra Singh (No. 6326143F now JC-173691P), 12th Feb 1988. £ £ £ £
- £ £ £ £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Baldev Singh (No. 6312910K now JC-173692X), 6th Jan 1988. £ £ £ £ £
- £ £ £ £ £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Rup Singh (No. 14278145X now JC-173693A), 5th Feb 1988. &
- &(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Ramesh Bhandirge (No. 14278167W now JC-173694H), 8th Jan 1988. & &
- & & (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Ram Karan (No. 14278241M now JC-173695L), 28th Jan 1988. & & &
- & & & (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Bhumi Dev (No. 14205243P now JC-173696N), 19th Jan 1988. & & & &
- & & & & (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Nain Singh (No. 14205197L now JC-173697W), 11th Feb 1988. & & & & &
- & & & & (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Ram Chander Sharma (No. 6307183N now JC-173698Y), 1st Feb 1988. \*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Gajraj (No. 14205309A now JC-173699F), 2nd Feb 1988. \*\*
- \*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav G S Randhawa (No. 6314593M now JC-173700L), 11th Jan 1988. \*\*\*
- \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Dec 1987 without effect on pay and allowances).
- Hav Priithi Chand (No. 6323351L now JC-173701N), 3rd Feb 1988. \*\*\*\*
- \*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).
- Hav Mahinder Singh Yadav (No. 6306620W now JC-173702W), 3rd Feb 1988. \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).
- Hav Ram Swroop (No. 14206993A now JC-173703Y), 2nd Feb 1988 "
- "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).
- Hav Mewa Singh (No. 14280773L now JC-173704F), 1st Feb 1988. ""

- ""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Kailash Singh (No. 14280923W now JC-173705K), 23rd Feb 1988. ""
- """"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Ran Singh Verma (No. 14208216W now JC-173706M), 2nd Feb 1988. """"
- """"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav S Subahan (No. 14208178L now JC-173707P), 17th Feb 1988. """"
- """"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Khajan Singh (No. 6303495M now JC-173708X), 8th Feb 1988.%
- % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Shri Krishan Rohilla (No. 6316532N now JC-173709A), 10th Mar 1988.% %
- % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Baldev Singh (No. 6303989W now JC-173710P), 8th Feb 1988.% % %
- % % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Marippa Kamaichi (No. 6317209L now JC-173711X), 1st Mar 1988.% % % %
- % % % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav A C Deb Nath (No. 6312040X now JC-173712A), 1st Feb 1988.% % % % %
- % % % % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Dilbag Singh Pathania (No. 6325774X now JC-173713H), 26th Feb 1988.@
- @(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Shivaji Shinde (No. 6312741N now JC-173714L), 19th Feb 1988.@@
- @@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Kuldip Singh (No. 6315700P now JC-173715N), 8th Feb 1988.@@@
- @@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Ram Avtar (No. 6316692N now JC-173716W), 5th Feb 1988.@@@@
- @@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Om Prakash (No. 6303494K now JC-173717Y), 27th Feb 1988.@@@@@
- @@@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Amrik Singh (No. 6317075X now JC-173718F), 22nd Feb 1988.£
- £(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav KRS Shankara (No. 6317325N now JC-173719K), 6th Feb 1988.££
- ££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Bhagmal Singh (No. 14275629M now JC-173720Y), 11th Feb 1988.£££
- £££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Karu Balu Samy (No. 6310505N now JC-173721F), 1st mar 1988.££££
- ££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Rangji Singh (No. 14200316M now JC-173722K), 25th Feb 1988.£££££
- £££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav C D Jha (No. 14200796F now JC-173723M), 2nd Feb 1988&
- &(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav P D Bhardwaj (No. 14276075L now JC-173724P), 3rd Feb 1988&&
- &&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav M M S Negi (No. 14200837A now JC-173725X), 1st Feb 1988.
- Hav S V Fernandez (No. 14276078Y now JC-173726A), 5th Feb 1988&&&
- &&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Ramesh Chand Rana (No. 14201147H now JC-173727H), 6th Mar 1988&&&&
- &&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav N Rajan Pillai (No. 14201567H now JC-173728L), 4th Feb 1988&&&&&
- &&&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Kartar Singh (No. 6303463K now JC-173729N), 2nd Feb 1988\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Narinder Singh (No. 14201587W now JC-173730H), 15th Feb 1988\*\*
- \*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).  
 Hav Sudhansu Mohan Paul (No. 14276352L now JC-173731L), 18th Feb 1988\*\*\*
- \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).
- No. 1388, dated 9-8-88.—The undermentioned Ex-JCOs are re-employed on the active list in the rank and from the dates specified :—

## REGULAR ARMY

## DEFENCE SECURITY CORPS

. In the rank of Naib Subedars

- Naib Subedar Gorakh Nath Singh (JC-100760-X), Formerly APTC 11th Nov 1986.
- Naib Subedar Rup Singh (JC-70182-W), Formerly The Sikh Regt 12th Nov 1986.
- Naib Subedar Surjit Singh (JC-89138-F), Formerly Signals 11 Apr 1987.
- Naib Subedar Om Prakash (JC-108070-H), Formerly EMB 04 May 1987.
- Naib Subedar Badlu Ram (JC-89760-P), Formerly ASC 04 May 1987.
- Naib Subedar Daulat Singh Sapaya (JC-113706-H), Formerly CMP 04 May 1987.
- Naib Subedar Bhaskaran Pillai Bhaktavalsalan Pillai (JC-131118-X), Formerly Artillery 04 May 1987.
- Naib Subedar Dharam Singh (JC-109020-K), Formerly Artillery 04 May 1987.

Naib Subedar Dharam Singh (JC-109020-K), Formerly Artillery 04 May 1987.

Naib Subedar Meharban Singh Rawat (JC-86568-A), Formerly Bengal Engineer Group 06 May 1987.

Naib Subedar Hanuman Singh (JC-84300-K), Formerly Mahar Regt 06 May 1987.

Naib Subedar Surjan Singh (JC-87690-H), Formerly Bombay Engineer Group 06 May 1987.

Naib Subedar Rajbir Singh (RV-7325-W) (Now JC-) Formerly RVC 07 May 1987.

Naib Subedar Kosooru Nagaraju (JC-124696-K), Formerly APTC 07 May 1987.

No. 1389, dated 9th August 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

### REGULAR ARMY

#### REGIMENT OF ARTILLERY

##### To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Pawar Shivaji (JC-132683F), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Gurmit Singh (JC-128654P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ram Singh (JC-129070W), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Atma Ram (JC-137171Y), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Sodalamadan Nadar Muthunadar (JC-134749L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Parameswaran Pillai Sivaddasan Pillai (JC-135081-Y), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Jagbir Singh (JC-138366W), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Madhavan Nair (JC-137729H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Konnanath Padinjarethil Gopala Krishnan (JC-144703W) 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Jai Prakash Narain (JC-119894I), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Bhure Lal (JC-124025A), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Vikram Singh (JC-124027L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Bhuri Singh (JC-112083X), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Shanmugavel Krishnan (JC-134788K), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Gobind Singh (JC-133981K), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Bachan Singh (JC-152680P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Gopalan Neelankanta Pillai (JC-135089L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Dawa Tshering Sherda (JC-134665X), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ved Pal (JC-134799W), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub K N Gopalan (JC-129812L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Mast Ram (JC-112092Y), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ram Prakash (JC-120067P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ramdhan Singh (JC-127003M), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Mohan Singh Bisht (JC-127046F), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Appasaheb Vanjole (JC-134670H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Baldev Singh (JC-130894L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ram Pratap Singh (JC-134659K), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Dharam Singh (JC-133875L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Ranvir Singh Yadava (JC-139254H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Kannaih Varatha Raj (JC-146764M), 1st Mar 1988.

Nb Sub Thatiseti Thathamma (JC-139291W), 1st Mar 1988.

Nb Sub Mohinder Pal (JC-146304L), 1st Mar 1988.

Nb Sub Harendra Singh (JC-150449L), 1st Mar 1988.

Nb Sub Chakkamat Sukumaran (JC-139317A), 1st Mar 1988.

Nb Sub Girijesh Rae (JC-145857P), 1st Mar 1988.

Nb Sub Sheo Pujan Pandey (JC-107544M), 1st Mar 1988.

Nb Sub Inder Singh Ravesh (JC-159356A), 1st Mar 1988.

Nb Sub Sucha Singh (JC-138372K), 1st Mar 1988.

Nb Sub Udhm Singh (JC-140460Y), 1st Mar 1988.

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-124499F), 1st Mar 1988.

Nb Sub Karam Chand (JC-110381P), 1st Mar 1988.

Nb Sub Dwarka Nath (JC-128640P), 1st Mar 1988.

Nb Sub Dharambir (JC-137694X), 1st Mar 1988.

Nb Sub Ram Kumar (JC-136284P), 1st Mar 1988.

Nb Sub Rangappa (JC-142101K), 1st Mar 1988.

Nb Sub Gulab Singh Kushwab (JC-140443Y), 1st Mar 1988.

Nb Sub Gurmit Singh Dhillon (JC-124026H), 1st Mar 1988.

Nb Sub Karam Singh (JC-153672H), 1st Mar 1988.

Nb Sub Kasar Singh (JC-132958K), 1st Mar 1988.

Nb Sub Baldev Singh (JC-128663W), 1st Mar 1988.

Nb Sub Ram Pal Singh (JC-115604L), 1st Mar 1988.

Nb Sub Hanuman Singh (JC-120159F), 1st Mar 1988.

Nb Sub Vatakka Veluthe-Dath Kutty Sankaran (JC-132966-H), 1st Mar 1988.

Nb Sub Inderjit Singh (JC-136251K), 1st Mar 1988.

Nb Sub Hanuman Singh (JC-132971N), 1st Mar 1988.

Nb Sub Budh Ram (JC-150346P), 1st Mar 1988.

Nb Sub Bajrang Singh (JC-110380M), 1st Mar 1988.

Nb Sub Shivaji Kalasagar (JC-146767A), 1st Mar 1988.

Nb Sub Chandgi Ram (JC-123957A), 1st Mar 1988.

Nb Sub Madayi Damodaran (JC-129653Y), 1st Mar 1988.

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-145880H), 1st Mar 1988.

Nb Sub Ram Kumar Singh (JC-134715X), 1st Mar 1988.

Nb Sub Budhi Singh (JC-123541H), 1st Mar 1988.

Nb Sub Kartar Singh (JC-112191F), 1st Mar 1988.

Nb Sub Ajmer Singh (JC-124349L), 1st Apr 1988.

Nb Sub Pardhan Singh Jarial (JC-109024A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Balbir Singh (JC-109580A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Rasil Chand (JC-124090A), 1st Apr 1988.

Nb Sub Jaivir Singh Beniwal (JC-120367W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Mata Din (JC-135161W), 1st Apr 1987.

Nb Sub Sarda Singh (JC-146230F), 1st Apr 1987.

##### To be Substantive Sub (AIG)

Nb Sub Brahma Nand (JC-147714M), 1st Mar 1988.

Nb Sub Baldev Singh (JC-140205M), 1st Mar 1988.

Nb Sub Sumer Singh (JC-141401Y), 1st Mar 1988.

Nb Sub Sunil Kumar Bhattachariya (JC-150356Y), 1st Mar 1988.

Nb Sub Shiv Narain (JC-150358K), 1st Mar 1988.

Nb Sub Pesh Bahadur Pun (JC-154777Y), 1st Mar 1988.

##### To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Joginder Singh (JC-124100Y), 1st Aug 1987.



Nb Sub Raj Singh (JC-145835W), 1st Jan 1988.  
 Nb Sub Jang Bahadur Singh Yadav (JC-140225A), 1st Jan 1988.  
 Nb Sub Preetam Singh (JC-143182F), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Surjit Singh (JC-124473M), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Bhoop Singh (JC-139412M), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Prahlad Singh (JC-143806H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Jangir Singh (JC-123518P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Jagat Singh (JC-121370H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Hazara Singh Ghuman (JC-125734F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Buta Singh (JC-130906P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Bishan Singh (JC-134796H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Muni Lal (JC-133930W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gurusamy Ramachandran (JC-136123M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gurbachan Singh (JC-134807K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Karnail Singh (JC-135119X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sawan Singh (JC-135129F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Onkar Singh (JC-136262W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Bhagwan Dass (JC-139454Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sunka Ram (JC-146276K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Karam Singh Agan (JC-150064W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sarwan Ram (JC-132671M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Rattan Chand (JC-137188M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-108725K), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Ram Chander Verma (JC-119883Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Amar Singh (JC-119899X), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Shivajat Badiger (JC-133892L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-111900Y), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Piar Singh (JC-126153W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Harninder Singh (JC-121339W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sutdev Singh (JC-132210H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Swinder Singh (JC-146238N), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Sadashiv Patil (JC-140163L), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Purna Nand SM (JC-111555W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Rajan Palayullathil (JC-127001F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Madu Ram (JC-121468W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Alagar Samy Nagamalal (JC-130498P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Hari Singh (JC-145845A), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Baldev Singh (JC-129072F), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Jagir Singh (JC-151934P), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Perumal (JC-135456M), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Vishwanath Pawar (JC-139301P), 1st May 1988.

To be Nb Sub

BHM Shri Niwas (No 1242142Y now JC-174841M) 19th Aug 1987.  
 BHM Prem Chand (No 1283951N now JC-174842P) 11th Sep 1987.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 01st Sep 1987 without effect on pay and allowances).  
 Hav Babu Khan (No 1231445N now JC-174843X) 05th Sep 1987.  
 Hav Randhir Singh (No 1282295L now JC-174844A), 05th Sep 1987.  
 Hav G Rama Subbu (No 14322538W now JC-174845H) 10th Sep 1987.

Hav Ranjit Singh (No 1297395N now JC-174846L) 28th Sep 1987.

Hav Pritham Singh (No 1253058Y now JC-174847N) 19th Nov 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 28th Sep 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Tej Ram (No 14310860W now JC-174848W) 30th Sep 1987.

Hav Sher Singh (No 1273719P now JC-174849Y) 13th Oct 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 01st Oct 1987 without effect on pay and allowances).

BHM Puran Singh (No 1249473H now JC-174850N) 20th Nov 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 01st Oct 1987 without effect on pay and allowances).

BQMH Damodaran S (No 14303193L now JC-174851W) 19th Oct 1987.

BHM Mavinavar Venkappa Appanna (No 1293572L now JC-174852Y) 04th Nov 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 21st Oct 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Uday Vir Singh (No 1250211Y now JC-174853F) 25th Oct 1987.

RHM Sher Singh (No 1285286P now JC-174854K) 01st Dec 1987.

Hav Kartar Singh (No 14313835H now JC-174855M) 01st Dec 1987.

RHM Amin Chand (No 1275203L now JC-174856P) 01st Feb 1988.

BHM Kali Dass (No 1275204N now JC-174857X) 01st Feb 1988.

Hav Harendra Singh (No 1243125L now JC-174858A) 14th Mar 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 01st Feb 1988 without effect on pay and allowances).

BHM angilu Ram (No 1281996P now JC-174859H) 01st Feb 1988.

BHM Kankanala Sleshaiah (No 1244039M now JC-174860X) 01st Feb 1988.

Hav Balkar Singh (No 1288951X now JC-174861A) 01st Feb 1988.

Hav Baldev Singh (No 1288394K now JC-174862H) 01st Feb 1988.

Hav Mohan Lal Sharma (No 14301094K now JC-174863L) 01st Feb 1988.

Hav Ram Mehar (No 1240808N now JC-174864N) 01st Feb 1988.

Hav Rai Singh (No 1230688M now JC-174865W) 01st Mar 1988.

Hav Bodhan Singh (No 1237235K now JC-174866Y) 01st Mar 1988.

Hav Surendra Singh (No 1241814N now JC-174867F) 01st Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 01st Mar 1988 without effect on pay and allowances).

Hav M Narainan Kutty (No 1293188K now JC-174868K) 01st Mar 1988.

Hav Sarb Dial (No 1239132K now JC-174869M) 03rd Mar 1988.

Hav Pyare Lal (No 8018981P now JC-174870F) 15th Mar 1988.

T. B. NAIR, Desk Officer.

## (NAVY BRANCH)

No. 1390, dated 25th May, 1988.—The President is pleased to make the following promotions from the dates shown against their names :—

(a) Shri K. K. Mohan, Senior Design Officer, Grade-II (Construction)—to be Senior Design Officer, Grade-I (Construction) wef 28th January, 1988 (Forenoon).

(b) Shri D. P. Keshri, Senior Design Officer, Grade-II (Electrical)—to be Senior Design Officer, Grade-I (Electrical) wef 4th May, 1988 (Forenoon).

V. K. THAKUR, DDOP (OA&R)

## (NAVY BRANCH)

No. 1391, dated 3rd August, 1988.—The Chief of Personnel, Naval Headquarters is pleased to appoint Shri AK Banerjee, Senior Foreman (Factory) as Officiating Assistant Armament Supply Officer with effect from 23 June 1988 (Forenoon).

2. He will be on probation for a period of two years.

C. M. CARIAPPA, Commander, IN  
Dy. Director of Civilian Personnel

## (NAVY BRANCH)

No. 1392, dated 3rd May, 1988.—The President is pleased to make the following appointment as Ag SLT in the Engineering Branch (Corps of Naval Architects) under the Ministry of Defence letter OF/1907/NHQ/52-US/D(N-II) dated 13 Jan 87 from date shown against his name :—

## INDIAN NAVY

(Permanent Commission)

## ENGINEERING BRANCH (COPS OF NAVAL ARCHITECTS)

Name, Personal Number and Date of Commission

Kumar Ashwani, 41155-H, 18 Aug 86.

S. D. YADAV, Commander  
Dy. Director of Manpower & Recruitment

## AIR HEADQUARTERS

No. 1393, dated 26th July 1988.—The appointment to the grade of Assistant Civilian Staff Officer of the following officer of AFHQ Civil Service are antedated as indicated against their names :—

Sl. No.	Name & Present designation	Original date of promotion to the gde of ACSO	Revised date of promotion to the ACSO Gde after antedation
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Hukam Chand Gupta, CSO	31-03-78	07-03-78
2.	Rattan Lal Garg, ACSO	19-04-78	31-03-78
3.	Kanwala Ram Tuteja, ACSO	29-05-78	10-04-78
4.	PC Khanna, ACSO	23-06-78	04-05-78
5.	RD Gupta, ASCO	21-07-78	23-06-78
6.	RA Kapoor, ASCO	07-03-79	30-10-78

1	2	3	4
	S/Shri		
7.	Trilok Chand Jain, ACSO	25-04-79	27-03-79
8.	Kum. KD Sarodo, ACSO	25-04-79	27-03-79
9.	Madan Swarup Gupta, ACSO	06-09-79	27-03-79
10.	Amin Chand Kanwar, ACSO	30-08-79	27-03-79
11.	Ram Avtar Madan, ACSO	30-08-79	27-03-79
12.	J. R. Ahluwalia, ACSO	30-08-79	27-03-79
13.	O.P. Aggarwal, CSO	31-08-79	25-04-79
14.	B. S. Chauhan, CSO	30-08-79	25-04-79
15.	M.R. Bhatnagar, ACSO	02-11-79	25-04-79
16.	PC Bhabra, ACSO	1-01-80	25-04-79
17.	J. muna Ram, CSO	25-07-80	30-08-79
18.	R.S. Bhatia, ACSO	25-07-80	30-08-79
19.	D. Yamand Sharma, ASCO	22-07-80	30-08-79
20.	R.P. Sharma, ASCO	22-07-80	30-08-79
21.	Blank		
22.	Kelichanan Das, CSO	01-12-80	22-07-80
23.	Krishan Lal Sharma, CSO	01-01-81	22-07-80
24.	Hira Singh Yadav, ACSO	30-12-80	22-07-80
25.	Manohar Lal Dorgan, CSO	01-02-81	22-07-80
26.	Hukam Chand Jain, CSO	30-12-80	22-07-80
27.	Kali Ram, ACSO	31-12-80	22-07-80
28.	S.N.S. Sandilya, ACSO	30-12-80	22-07-80
29.	B. D. Pant, ACSO	31-12-80	22-07-80
30.	Ram Parkash Sharma, ACSO	23-01-81	22-07-80
31.	A.P. Joshi, ASCO	23-01-81	22-07-80
32.	S.P. Sood, ACSO	23-01-81	22-07-80
33.	Dian Singh, ASCO	02-03-81	22-07-80
34.	O.P. Tewari, CSO	02-03-81	16-08-80
35.	K.R. Jain, ACSO	02-03-81	16-08-80
36.	Dinesh Chandra, ACSO	17-03-81	16-08-80
37.	Lachman Das, CSO	23-01-81	16-08-80
38.	Ved Parkash Nayyar, CSO	30-12-80/	24-11-80
	(AN)		
39.	S.N. Chamoli, ACSO	02-03-81	24-11-80
40.	V.P. Srivastava, ACSO	03-06-81	24-11-80
41.	Sunder Kumar, ACSO	27-04-81	30-12-80
42.	Dalip Singh, ACSO	13-10-81	30-12-80
43.	Blank		
44.	Brij Lal, ACSO	01-05-81	30-12-80
45.	A. P. Verma, ACSO	15-10-81	30-12-80
46.	Bhagat Singh, ACSO	02-11-81	30-12-80
47.	Blank		
48.	Randhir Singh, ACSO	02-11-81	30-12-80
49.	L. R. Kapuruwan, ACSO	02-11-81	23-01-81
50.	Mangat Rai, Chopra, ACSO	02-11-81	23-01-81
51.	C. R. Dhawan, ACSO	01-12-81	23-01-81
52.	Prohlad Singh, ACSO	11-12-81	23-01-81
53.	Nauhat Ram, ACSO	01-01-82	02-03-81
54.	Prakash Dev, ACSO	02-12-81	02-03-81
55.	Jogindor Singh, ACSO	01-01-82	01-04-81
56.	Kul Bhushan Hora, CSO	01-01-82	01-04-81

1	2	3	4	1	2	3	4
	S/Shri						
57.	Kanhiya Lal Seth, ACSO	14-01-82	01-04-81	109.	Sunder Singh Ahuja, ACSO	31-01-84	28-10-83
58.	Pritpal Singh Anand, ACSO	01-02-82	27-04-81	110.	Satya Prasad, ACSO	17-02-84	01-11-83
59.	Chaman Lal Kapuria, ACSO	01-02-02	27-04-81	111.	Surender Singh, ACSO	03-03-84	01-11-83
60.	Shri Prasad Sharma, ACSO	12-09-86	30-04-85	112.	Jiwan Singh Sharma, ACSO	01-03-84	01-11-83
61.	Surjit Singh, ACSO	07-12-82	01-05-81	113.	Man Singh, ACSO	01-03-84	01-11-83
62.	Jaswant Kumar Anand, ACSO	01-02-82	01-06-81	114.	Inderjit Maini, ACSO	11-01-84	31-01-84
63.	Shanti Saroop Malik, ACSO	01-01-82	13-10-81	115.	Jagadish Prasad Kapoor, ACSO	09-04-84	31-01-84
64.	P.P. Vats, CSO	01-02-82	13-10-81	116.	Gurdev Singh Sohal, ACSO	09-04-84	31-01-84
65.	Kalwant Singh, ACSO	01-04-82	13-10-81	117.	Vas Dev, ACSO	09-04-84	31-01-84
66.	Darshan Singh, ACSO	19-03-82	13-10-81	118.	Madan Lal Sharma, ACSO	09-04-84	31-88-84
67.	Janmai Jaj, ACSO	01-04-82	13-10-81	119.	Gobind K. Mothwanl, ACSO	01-05-84	31-01-84
68.	C.S. Ahluwalia, ACSO	01-03-82	13-10-81	120.	K. N. Balodi, ACSO	06-06-84	1-01-84-
69.	R. B. Muthuswamy, ACSO	01-03-82	13-10-81	121.	Upendra Datt Kothari, ACSO	04-06-84	31-01-84
70.	K.L. Bajaj, ACSO	01-05-82	16-11-81	122.	Rajendra Singh Chauhan, ACSO	01-05-84	17-02-84
71.	I. K. Sagar, ACSO	01-05-82	16-11-81	123.	Hom Singh, ACSO	30-03-85	01-03-84
72.	Gurdial Singh, ACSO	07-12-82	01-12-81		(AN)		
73.	Mohinder Singh, ACSO	07-12-82	01-12-81	124.	K.K. Khosla, ACSO	30-03-85	01-03-84
74.	Kedar Nath Dixit, ACSO	07-12-82	01-81-82	125.	Surinder Mohan, ACSO	30-03-85	01-03-84
75.	P.S. Srinivasa Raghavan, ACSO	01-01-83	01-01-82	126.	Kani Chandra Ghosh, ACSO	30-03-85	09-04-84
76.	Sube Singh Sharma, ACSO	01-01-83	01-02-82	127.	Triloki Nath Bhatt, ACSO	15-09-86	09-04-84
77.	Sant Sigh Hira, ACSO	01-01-83	01-02-82	128.	Blank		
78.	Inderjit Chopra, CSO	01-01-83	01-03-82	129.	Blank		
79.	Blank			130.	J. C. Gupta, ACSO	30-03-85	05-10-84
80.	R.N. Sharjai, ACSO	01-02-83	01-06-82	131.	Chuni Lal Kumar, ACSO	12-09-86	05-10-84
81.	M.L. Kharbanda, CSO	01-02-83	01-06-82	132.	Keshav Nand Metha, ACSO	12-09-86	05-10-84
82.	Sri Ram Alang, ACSO	01-02-83	01-06-82	133.	G.S. Kanwal, ACSO	12-09-86	28-11-84
83.	N. C. Nag, ACSO	07-12-82	14-10-82	134.	Sham Lal, ACSO	12-09-86	20-11-84
84.	Smt. Mann Mohan Kaur, ACSO	08-12-82	14-10-82	135.	Parkash Narain Shukla, ACSO	12-09-86	30-03-85
85.	Shri Bishan Singh, ACSO	01-01-83	14-10-82	136.	Ramesh Chand Agarwal, ACSO	12-09-86	30-03-85
86.	I.P. Bhatnagar, ACSO	01-01-83	14-10-82	137.	Narain Thakur, ACSO	12-09-86	30-03-85
87.	Ranjodh Singh, ACSO	01-03-83	14-10-82	138.	Ramesh Chandra, ACSO	12-09-86	30-03-85
88.	K.K. Dutta, ACSO	01-02-83	14-10-82	139.	Yogendra Kumar Paliwal, ACSO	12-09-86	30-03-85
89.	J. G. Bhasin, ACSO	01-03-83	14-10-82	140.	S.C. Sachdeva, ACSO	12-09-86	30-04-85
90.	Krishan Lal Sausan, ACSO	01-03-83	14-10-82	141.	Om Parkash, ACSO	12-09-86	30-04-85
91.	Blank			142.	Banarsi Lal Kapur, ACSO	12-09-86	30-04-85
92.	Blank			143.	Dwarka Nath Kohli, ACSO	12-09-86	30-04-85
93.	Nand Kishore Khanna, ACSO	02-04-83	07-12-82	144.	Ravindra Kumar Sharma, ACSO	12-09-86	30-04-85
94.	Gurdev Singh, ACSO	02-04-83	07-12-82	145.	Vikram Singh Negi, ACSO	12-09-86	30-04-85
95.	Tilak Raj Kapoor, ACSO	01-03-83	07-12-82	146.	Mahesh Chandra Srivastava, ACSO	12-09-86	30-04-85
96.	Mangal Singh Yadav, ACSO	02-04-83	07-12-82	147.	Lila Krishan Sharma, ACSO	12-09-86	30-04-85
97.	R. K. Dhar, ACSO	31-01-84	01-01-83	148.	Blank		
98.	Sita Ram Sharma, ACSO	31-01-84	01-01-83	149.	Pritam Singh, ACSO	12-09-86	01-10-85
99.	Joginder Singh, ACSO	21-12-87	01-03-83	150.	Amar Nath Rattan, ACSO	12-09-86	01-10-85
100.	Swarup Narain Saxena, ACSO	31-10-84	02-04-83	151.	Gopal Dass, ACSO	15-09-86	01-10-85
101.	Om Parkash Chopra, ACSG	31-01-84	02-04-83	152.	Suraj Mal Kharab, ACSO	19-09-86	01-10-85
102.	S. C. Bansal, ACSO	31-01-84	02-04-83	153.	Sansar Chand, ACSO	12-09-86	01-10-85
103.	Jagrup Singh, ACSO	31-10-84	02-04-83	154.	Yash Pal Bakshi, ACSO	15-09-86	01-10-85
104.	Jagdish Chander, ACSO	31-01-84	02-04-83	155.	Kacheru Singh, ACSO	12-09-86	01-10-85
105.	Lekh Raj Sharma, ACSO	31-01-84	02-05-83	156.	Dhani Ram (Kachhwaya Rajput), ACSO	12-09-86	01-10-85
106.	I.D. Dixit, ACSO	20-02-84	02-05-83	157.	M. P. Singh, ACSO	12-09-86	01-11-83
107.	Jagan Nath Nayyar, ACSO	31-01-84	28-10-83				
108.	Mohinder Singh ACSO	31-01-84	28-10-83				

1	2	3	4
	S/Shri		
158.	Satya Paul, ACSO	12-09-86	01-07-86
159.	Narot Mal Bansal, ACSO	03-12-86	12-09-86
160.	Bakhtawar Singh, ACSO	03-12-86	12-09-86
161.	Nirmal Kumar Sangal, ACSO	03-12-86	12-09-86
162.	Mool Chand, ACSO	06-11-87	12-09-86

2. The period between the date of ante-dation and actual date of promotion rendered by the concerned officials would be treated as service rendered as Assistant Civilian Staff Officer for all purposes.

KP THOMAS

Deputy Chief Administrative Officer

#### AIR HEADQUARTERS

No. 1394, dated 26th July, 1988.—The following Assistants are promoted as Assistant Civilian Staff Officers in the AFHQ Civil Service with effect from dates mentioned against their names :—

- Shri Joginder Nath, 22-07-80.
- Shri PD Sharma, 30-12-80.
- Shri RP Sehgal, 30-12-80.
- Shri Salig Ram Sharma, 19-03-82.
- Shri CL Saigal, 14-10-82.
- Shri KC Saxena, 14-10-82.
- Shri Jugal Kishore Sharma, 01-05-84.
- Shri Ram Prakash Sharma, 01-05-84.
- Shri Ram Prakash Sharma, 01-05-84.

KP THOMAS, Up Mukhya Prashasan Adhikari

#### (AIR BRANCH)

No. 1395, dated 5th August, 1988.—The President is pleased to grant Branch Commission to the undermentioned under the provisions of para 9 of AFI 48/75 as amended vide AFI 5/81, 11/81 and 5/82.

#### INDIAN AIR FORCE

(EX-AIRMEN CADETS TO BE FLYING OFFICER WITH TWO YEARS ANTE-DATE FOR PURPOSE OF PAY ONLY)

#### ADM BRANCH

(278851) JWO Padmaraj Pandurang Indalkar (BC-18402) and (238744) WO Rambir Singh, (BC-18414) wef 20 Sep 86.

#### LGS BRANCH

(226740) WO Dalip Chand Kalra (BC-18403) and (252586) JWO Hakam Singh Rahi (BC-18408) wef 20 Sep 86.

#### ACCTS BRANCH

(277872) JWO Kallada Peter DIUS (BC-18399) wef 20 Sep 86.

#### EDN BRANCH

(612328) WO Braja Kishore SAHU (BC-18393) wef 20 Sep 86.

V. BALAGOPALAN, Sqn Ldr ADPO3 (D)

#### ADM BRANCH

(277259) WO Amrik Singh (19000), (272402) JWO Chittilappilly Thomas Thomas (19003), (252632) JWO Padinjara Puthanveed Vasudevan (19005), (259865) JWO Valluru Ramaiah (19006), (267285) JWO Om Prakash (19007), (255589) JWO Sebastain Rosary (19008) and (263058) JWO Nirmal Singh (19010) wef 19 Sep 87.

#### ACCTS BRANCH

(279106) JWO Basudev Sen (18992) and (252266) JWO Ratan Kumar Mukhopadhyay (18999) wef 19 Sep 87.

#### LGS BRANCH

(258572) JWO Harnam Singh Chauhan (18995), (253899) JWO Joginder Singh (19002), (252545) JWO Rattan Singh Rawat (19004) and (258080) JWO Somnath Sharma (19011) wef 19 Sep 87.

#### MET BRANCH

(244423) JWO Musafir Singh Yadav (18998) wef 19 Sep 87.

V. BALAGOPALAN, Sqn Ldr  
ADPO3 (D)

#### (AIR BRANCH)

No. 1396, dated 10th August 1988.—The President is pleased to grant Branch Commission to the undermentioned under the provision of para 9 of AFI 30/74 as amended vide AFI 6/81, 10/81 and 4/82 :—

#### INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)  
EX-AIRMAN CADETS TO BE FLYING OFFICERS  
WITH TWO YEARS ANTE-DATE FOR PURPOSE OF  
PAY ONLY

(237726) JWO Thundi Kandiyil Madhavan (18365) and (232523) WO Kewal Kumar Seth (18375) wef 19 Jul 86.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MACHANICAL)  
EX-AIRMAN CADETS TO BE FLYING OFFICERS  
WITH TWO YEARS ANTE-DATE FOR PURPOSE  
OF PAY ONLY

(228665) WO Pritam Singh Kalra (18357) and (229305) JWO Arjuna Linga Gowder (18362) wef 19 Jul 86.

V. BALAGOPALA, ADPO-3(D)

#### (AIR BRANCH)

No. 1397, dated 22nd July, 1988.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr  
MS Bundal (10102) P(P)—30-8-85.

His name will appear between Wg Cdrs MC Aiyanna (10098) F(P) and RS Datta (10104) F(P) in the combined seniority list.

K. M. DAMODARAN, Asstt Director of  
Personnel (Officers)-2(A)

#### (AIR BRANCH)

No. 1398, dated 9th August 1988.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the sub-

stantive rank of Fg Offr wef the date stated against their names :—

**INDIAN AIR FORCE**

**ADM Branch**

Plt Offrs V Malik (18133), N Chandal (18140), D Sharma (18143), Sanjay (18144), S Rangamani (18155), VS Rao (18160) wef 06 Dec 87.

**ACCTS Branch**

Plt Offr S Seth (18162), wef 06 Dec 87.

V BALAGOPALA, Sqn Ldr ADPO-3(D)

**ARMY BRANCH**

No. 1399, dated 9th August 1988.—In M of D Notn No. 335 dated 01st Mar 1988 published in the Gazette of India No. 13 dated 26th Mar 1988 under heading 'REGULAR ARMY' Sub heading 'Regiment of Artillery'.

Below 'To be Nb Sub'

For—BHM Baban Singh (No 1242430L now JC-171061K), 29th Mar 1987.

Read—BHM Baban Singh (No 1242430L now JC-171016K), 29th Mar 1987.

For—Hav Balbir Singh Rao (No 1294005P now JC-171032F), 01st Jul 1987.

Read—Hav Balbir Singh Rao (No 1294005P now JC-171032F), 01st Jul 1987.

For—Hav Gurnam Singh (No 1236059L now JC-171035P), 01st Aug 1987.

Read—Hav Gurnam Singh (No 1236059L now JC-171035P), 01st Aug 1987.

For—RHM (AIG) Gurdial Singh (No 1245324X now JC-171074N), 29th Jun 1987.

Read—RHM (AIG) Gurdial Singh (No 1245324X now JC-171073L), 29th Jun 1987.

For—BQHM Mohan Singh (No 1241211X now JC-171088N), 30 Apr 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17th Mar 1987 without effect on pay and allowances).

Read—BQHM Mohan Singh (No 1241211X now JC-171088N), 30 Apr 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17th Mar 1987 without effect on pay and allowances).

T. B. NAIR, Desk Officer

